e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com

रांची संस्करण

हिन्दी दैनिक

प्रभात मंत्र

वर्ष 10, अंक 80

शुक्रवार

24.03.2023

RNI No. - JHAHIN/2014/59110

prabhatmantra.com

पृष्ठ 12 । मूल्य 3 रुपये

पोस्टल रजिस्ट्रेशन : आरएन /257/2021-23

सुविचार

मुस्कान पाने वाला मालामाल हो जाता है पर देने वाला दरिद्र नहीं होता।

ताजा खबरों के लिए देखें

असर्फी हॉस्पीटल
आपका अपना सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल
कैंसर रोग विभाग
धनबाद में पहली बार
Full Time
Medical Oncologist
उपलब्ध
Dr Parag Roy
MD, DrNB
(Medical Oncology)
दिन: सोमवार से शनिवार
समय: सुबह 10AM से 4PM
09297970030

रोजा का समय

इफ्तार	(24/03/23)	06:03
सेहरी	(25/03/23)	04:26

Sreeleathers
66 K-ROAD, BISTUPUR

रांची का तापमान

अधिकतम	26°
न्युनतम	12°

चंद्रघण्टा

पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता।।

रांची और जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री ने करीब 13200 करोड़ रुपए के योजनाओं की दी सौगात

देश के विकास में झारखंड का बड़ा योगदान : गडकरी

प्रभात मंत्र संवाददाता

जमशेदपुर : रांची और जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 13200 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात दी। देश के सड़क नेटवर्क और परिवहन प्रणाली को बदलने के अपने मिशन के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को स्टील सिटी के साथ एनएच 33 पर देश के पहले एलिवेटेड डबल-डेकर कॉरिडोर की ऑनलाइन आधारशिला रखी. 1,876 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना देश में इस तरह की पहली सुविधा होने जा रही है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित डबल डेकर कॉरिडोर देश के शानदार सड़क नेटवर्क में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह परियोजना कोलकाता-रांची मार्ग के बीच वाहनों के संचार को आसान बनाने के लिए है, लेकिन यह इस्पात शहर की सुंदरता को भी बढ़ाएगी। देश के विकास में

झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है. झारखंड में सड़क निर्माण ने यहां उद्योग की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा. इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनएच 33 पर 44 किलोमीटर की सड़क पर टाटा स्टील के स्लैग से बनाया गया है. नितिन गडकरी ने टाटा स्टील के एमडी से अपील की कि एनएच 33 में किया गया प्रयोग सफल रहा है. टाटा स्टील अपना जितना वेस्ट है, उस वेस्ट को उनको दे दें, वे वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और एनएच बेहतर बनाते रहेंगे. बिहार और झारखंड के एनएच को उसी स्लैग से बनाने का काम परिवहन और सड़क मंत्रालय करेगा. इससे कंपनी का कचरा भी निष्पादन होगा, जगह भी बचेगा और पर्यावरण को भी इससे लाभ होगा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने समारोह में कहा कि मंत्री नितिन गडकरी ने जहां अपने पांव रखे हैं वहां का विकास हुआ है और रास्ता भी खुला है.जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि आनेवाले 50 साल की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुये डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जायगा. इसका लाभ झाखंड, बंगाल और ओड़िशा के लोगों को मिलेगा. विधायक गीता कोड़ा ने दो आरओबी और बनाने की मांग की.

झारखंड की सड़कों को अमेरिका की सड़क जैसा बना देंगे

रांची : गुरुवार को पुराने विधानसभा मैदान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य में 9400 करोड़ से अधिक के निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं का का शिलान्यास किया। उन्होंने रांची को बड़ी सौगात देते हुए एक और रिंग रोड के निर्माण की घोषणा से की है। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के बाद झारखंड की सड़कों को अमेरिका की सड़कों के जैसा बना देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि हम ऐसी सड़क का निर्माण करेंगे, जिससे रांची से वाराणसी तीन घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने बेंगुलरू की तर्ज पर रांची में भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बनाने के लिए झारखंड सरकार से प्रस्ताव मांगा है। गडकरी ने कहा कि सड़कें बनने से हवाई जहाज की सेवाएं कई शहरों में बंद हो गई हैं। क्योंकि हवाई यात्रा से भी कम समय में लोग रोड के जरिए यात्रा कर रहे है। कहा कि मैं झारखंड की किसानों को आह्वान करता हूं कि आप बॉयो बिटूमीन का कारखाना तैयार करो। कई गाड़ियां आ गयी है। पूरी तरह बॉयो पर चलती है। मैं बोलता था कि इस देश में इलेक्ट्रिक कार आयेगी, बाइक आयेगी। पत्रकार पूछते थे रास्ते में बैट्री खत्म हुई तो क्या करेंगे। गाड़ियां आ रही है। टाटा की इलेक्ट्रिक कार आई कुछ दिन पहले। कंपनी वाले मुझसे बता रहे थे कि तीन गुणा क्षमता बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ गई है। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश,सांसद संजय सेठ सहित भाजपा के कई विधायक व सांसद अनुपस्थित थे।

टाटा स्टील के एमडी से की कचरे और स्लैग देने की अपील

जमशेदपुर: अपने संबोधन में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनएच 33 पर 44 किलोमीटर की सड़क पर टाटा स्टील के स्लैग से बनाया गया है. नितिन गडकरी ने टाटा स्टील के एमडी से अपील की कि एनएच 33 में किया गया प्रयोग सफल रहा है. टाटा स्टील अपना जितना वेस्ट है, उस वेस्ट को उनको दे दें, वे वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और एनएच बेहतर बनाते रहेंगे. बिहार और झारखंड के एनएच को उसी स्लैग से बनाने का काम परिवहन और सड़क मंत्रालय करेगा. इससे कंपनी का कचरा भी निष्पादन होगा, जगह भी बचेगा और पर्यावरण को भी इससे लाभ होगा।

सीएम ने सदन में नियोजन नीति सहित कई मुद्दों पर की चर्चा

1932 के समर्थक हैं या 1985 के, बताए भाजपा : हेमंत

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा के बजट के सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में नियोजन नीति और सरकार की योजनाओं सहित कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात रखी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई सवाल किए हैं। मैंने भी कहा था कि इसका जवाब दूंगा। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अमृत काल में खड़े हैं या आपातकाल में। उन्होंने विपक्ष के विरोध पर कहा कि लोकसभा सत्ता पक्ष की वजह से नहीं चला। विपक्ष को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात सच है कि सरकार बहुमत से चलती है। लेकिन सदन सहमति से चलता है। 1932 खतियान या नियोजन नीति की बात कर रहे हैं लेकिन भाजपा के सदस्य 1932 के विरोध में हाई कोर्ट में जाते हैं। वहीं,1932 का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा पहले बताए कि ये 1932 के समर्थक हैं या 1985 के। देश विषम दौर से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार निर्लज्ज व्यवस्था दिख रही है। यह भारत का आजादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति है। ऐसे में देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। जब हम झारखंड के लोगों के लिए थर्ड और फार्थ ग्रेड की नौकरी के लिए कानून बनाते हैं तो यही लोग विरोध करते हैं। यह ढोंगी लोग है।

राज्य सरकारों को भिखारी बना कर रख दिया: हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जिस तरह व्यवस्था चल रही है आने वाला समय बेहतर संकेत नहीं है। राज्य सरकारों को भिखमंगा बनाकर रख दिया है। महंगाई में रॉकेट का इंजन लग गया है, यह ठहर नहीं रही है। पेट्रोल-डीजल की कीमत आसमान पर है। आज कहीं पर भी एक भी जगह बता दें जहां गरीब, किसान, मजदूर को राहत दिया हो। ये हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात करते थे। सारे हवाई अड्डे बेच दिए।

प्रभात मंत्र
e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com
पलामू/गढ़वा
रांची, शुक्रवार, 24 मार्च 2023 | पेज 2

पांकी में लंबित आवासों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से पांकी पहुंचे उपायुक्त

प्रभात मंत्र संवाददाता

पांकी : जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को पूर्ण कराने को लेकर उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे गंभीर हैं। उन्होंने बुधवार को इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक व सभी बीडीओ के साथ बैठक की थी एवं सभी प्रखंडों में आवास पूर्ण कराने को लेकर जिले के विभिन्न वरीय पदाधिकारियों को टास्क भी सौंपा था.इसी क्रम में पांकी के वरीय पदाधिकारी के रूप में उपायुक्त आज पांकी पहुंचे जहां उन्होंने ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ-सीओ एवं प्रखंड के सभी मुखियागण के साथ बैठक कर आगामी 15 दिनों में प्रखंड के सभी लंबित आवासों को पूर्ण करने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य

करने पर चर्चा किया.उन्होंने सर्वाधिक लंबित आवासों वाले पंचायतों की जानकारी ली इसपर बीडीओ ने बताया कि सबसे अधिक आवास केकरगढ़ पंचायत में लंबित है इसपर उपायुक्त ने केकरगढ़ के मुखिया साथ संवाद कर लंबित आवासों को पूर्ण करने में सहयोग देने की बात कही.इसी तरह उन्होंने सभी मुखिया से उनके क्षेत्र के लंबित आवासों को पूर्ण कराने में सहयोग देने की बात कही.समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई लाभुक पैसा लेने के पश्चात अब तक कार्य शुरू भी नहीं किये हैं उपायुक्त ने ऐसे सभी लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। **मनरेगा के तहत प्रति ग्राम 5 योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करें : उपायुक्त :** मनरेगा की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने हर हाल में प्रति ग्राम 5 योजनाओं का संचालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया साथ ही जिन पंचायतों में 5 योजनाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है उन सभी पंचायतों के रोजगार सेवकों को स्पष्टीकरण किया गया.वहीं पोटो हो खेल विकास योजना के तहत नये खेल के मैदान का निर्माण कराने पर बल दिया.वहीं गर्मी के मद्देनजर 15वें वित्त से पेयजल की समस्या को दूर करने को लेकर बीडीओ को निर्देशित किया। **कम राशन देने वाले डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज करें : उपायुक्त :** बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पीडीएस डीलरों द्वारा लाभुक को कम राशन दिए जाने संबंधित कई शिकायतें उनके संज्ञान में आयी है.उन्होंने कहा कि सभी मुखिया काम राशन देने वाले डीलरों की शिकायत सीओ से करें जिसके बाद जांच के पश्चात दोषी डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

बाइक व साइकिल सवार के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत तीन घायल

प्रभात मंत्र संवाददाता

हुसैनाबाद (पलामू) : जपला छतरपुर मुख्य पथ के गम्हरिया गांव स्थिति नाग बाबा के समीप गुरुवार की सुबह 11बजे बाइक और साइकिल सवार के बीच जोरदार टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में घुरुआ मंझौली निवासी ओमकार चंद्रवंशी, मुन्नू कुमार, लडडू कुमार व महूदण्ड गांव निवासी अजय पाल 15 वर्ष बताये जाते है, स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में पहुँचाया चिकित्सकों ने प्राथमिकी उपचार के बाद अजय पाल, मुन्ना कुमार लड्डू कुमार की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में अजय पाल की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार अजय पाल जपला से ट्यूशन पढ़ कर अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर बाइक को जब्त कर थाना ले आयी।

विश्व हिन्दु परिषद बजरंग दल का बैठक संपन्न

पांडू, पलामू (प्रभात मंत्र संवाददाता): जिले के पांडू प्रखंड में गुरुवार के दिन विश्व हिन्दु परिषद बजरंग दल का बैठ आहूत की गई. ईस बैठक में पांडू प्रखंड के विविन्न पंचायत के लोग उपस्थित हुए। ईस बैठक में सर्वसम्मति से गोपाल प्रसाद जी को संयोजक, बबलू चंद्रवंशी एंव अंकित सिंह जी को सह संयोजक नियुक्त किया गया। ईस बैठक में आने वाले अष्टमी को हर वर्ष की भातिं इस वर्ष भी विशाल मोटरसाइकिल जुलुस निकालने पर सहमती बनी। मौके पर बजरंगदल एंव विश्वहिन्दू परिषद से कई लोग उपस्थित रहे।

हुसैनाबाद अंचल के सीआई के कार में लगी आग

हुसैनाबाद (पलामू) (प्रभात मंत्र संवाददाता): हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में बीती रात्रि हुसैनाबाद अंचल के सीआई औसाफ अहमद खान के कार में आग लग गयी, कार हुसैनाबाद शहर के इमामबाड़ा के समीप किराये के मकान के बाहर खड़ी थी, आग लगने के बाद टायर फटने के आवाज से मकान मालिक की नींद खुली जिसके बाद आनन फानन में बगल के लोगो के सहयोग से पानी से कार के पिछले चक्के में लगे आग को बुझाया, आग कैसे लगी किसने लगाया ये पता नही चल पाया है, अंचल के सीआई ईलाज के लिए बाहर गए हुए है।

शाहपुर में महावीर नवयुवक दल जनरल के कार्यालय का हुआ उद्घाटन

प्रभात मंत्र संवाददाता

चैनपुर, पलामू : पूर्वजों की परंपरा को आज भी सनातन हिंदू राम भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निर्वाहन कर रहे हैं राम भक्तों को पूजा पाठ के लिए किसी भी मामले में संकोच करने की जरूरत नहीं है। उक्त बातें बुधवार के शाम महावीर नवयुवक दल मेदनीनगर के अध्यक्ष जुगल किशोर चंद्रवंशी ने शाहपुर महावीर नवयुवक दल जनरल के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के पलामू में भव्य तरीके से रामनवमी मनाया जाता है ये पूरे राज्यों में चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद में राम भक्तों को पढ़ने की जरूरत नहीं है राम भक्त शांति सौहार्द हर्ष उल्लास के साथ रामनवमी पर्व को मनाए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो दूसरे समुदाय के लोगों को आहत होना पड़े। उन्होंने कहा कि रामनवमी पूजा के दौरान रावण दहन का भव्य कार्यक्रम कोयल नदी तट पर होगा जो ऐतिहासिक माना जाएगा। उन्होंने घोषणा किया है कि शाहपुर चौक पर

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सतमी के देर शाम अपने अस्तर से कराएंगे । मेदनीनगर के संरक्षक गणेश गिरी ने कहा कि रामनवमी पर राम के आदर्श को मानकर पर्व मनाने की जरूरत है जो परंपरागत तरीके से पर्व मनाया जाता है उसे भव्य रूप देखकर मनाने की जरूरत है ।भाजपा नेता सह संरक्षक मनोज सिंह ने कहा कि मेदनीनगर व शाहपुर चैनपुर बड़े ही धूमधाम से भाईचारा के साथ पर्व मनाते हैं वह सराहनीय है किसी भी अफवाह में ना पढ़कर अपना पर्व को मनाने की जरूरत है ।भाजपा नेता का संरक्षक दुर्गा जोहरी ने कहा कि राम भक्त परंपरागत तरीके से पर्व मनाए किसी भी अफवाहों में पड़कर अपने पर्व को खराब करने की जरूरत नहीं है । करोना महामारी के बाद इस वर्ष का रामनवमी पूजा ऐतिहासिक होगा ।महावीर नवयुवक दल मेदनीनगर के संरक्षक बबलू गुप्ता महामंत्रीविजय ओझा डिप्टी मेयर मंगल सिंह ने भी रामनवमी पर्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जनरल शाहपुर को हर संभव मदद किया जाएगा। राम भक्त डीजे साउंड द्वारा कोई भी विवादित गान बाजान नहीं करेंगे ताकि जुलूस के दौरान शांति वातावरण में पर्व मने । कार्यालय उद्घाटन के बाद स्वामी विवेकानंद चौक पर पूजा पाठ के बाद झंडा स्थापित किया गया इस दौरान राम भक्तों ने जय श्रीराम के नारे लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन शाहपुर के संरक्षक भोला पांडे ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता शाहपुर जनरल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने किया और आए हुए सभी राम भक्तों को पगड़ी बांधकर पुष्प देकर सम्मानित किया।

किसान ब्रिगेड ने किया महापंचायत, सरकार से राहत पैकेज देने की उठाई मांग

प्रभात मंत्र संवाददाता

हुसैनाबाद (पलाम) : हुसैनाबाद अनुमंडल के कर्पूरी ठाकुर मैदान में किसान ब्रिगेड के संयोजक कर्नल डॉ. संजय कुमार सिंह के अगुवाई में हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा के किसानों के समस्याओं के खिलाफ एक महापंचायत के माध्यम किसानों ने विशाल शक्ति प्रदर्शन किया। जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण किसानों ने इस महापंचायत के माध्यम से सरकार के प्रति विरोध जताते हुए कहा कि जब तक किसानों के समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसानों के नेता कर्नल डॉ. संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इस प्रकार का आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर किसानों के हित की बात करते हुए किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल डॉ. संजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज फटे हाल, तंगहाली एवं आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार के उदासीनता यह दर्शाता है कि हुसैनाबाद हरिहरगंज के

किसानों का सरकार के पास कोई स्थान नहीं है। सरकार के द्वारा घोषित सुखाड़ राहत योजना किसानों तक नहीं पहुंचा है अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है किसानों से भूमि ऑनलाइन करने के नाम पर मोटी रकम वसूला जा रहा है और सरकार चुप है। यहां के किसान अनावृष्टि के कारण फसल का लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं जीरो आरडी सिंचाई योजना से लेकर को काशी सोत, अमकर, बटाने, परता माइनर सहित अन्य कई सिंचाई योजना वर्षों से लंबित है। यहां के किसानों का ऑनलाइन म्युटेशन के नाम पर आपस में किसानों को लड़ाया जा रहा है यहां के किसानों का भूमि पुराना रजिस्टर-द्वद्व से मिलान नहीं कर नया सर्वे के नाम पर जमीन इधर से उधर कर दिया गया है। जिससे गृह युद्ध की स्थिति बना हुआ है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में रि सर्वे कराया जाए। रि सर्वे नहीं होने तक पुराना रजिस्टर-द्वद्व के आधार पर खतियान लॉगीन किया जाए। पीएम किसान निधि का रकम 80 प्रतिशत किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और यहां के अंचल कार्यालयों के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पीएम किसान निधि ऑनलाइन के नाम पर अपना जेब गरम कर रहे हैं। किसान ब्रिगेड सरकार से मांग करती है कि हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा के सभी पंचायतों में क्रय केंद्र खोला जाए।

पांडू थाना परिसर में की गई शांतिसमिति की बैठक

पांडू, पलामू (प्रभात मंत्र संवाददाता): जिले के पांडू थाना परिषर में गुरुवार के दिन की गई शांति समीति की बैठक। ईस बैठक की अध्यक्षता पांडू थाना प्रभारी पवन कुमार एंव संचालन समाजसेवी जवाहर पासवान के द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों से इस महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर मंतव्य लिया गया। मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी पवन कुमार ने कहा कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से यह पर्व संपन्न हो इसके लिए सरकार के गाइडलाइन का बखूबी पालन कराया जाएगा. क्षेत्र में पांडु पुलिस के द्वारा लगातार गस्ती कराई जाएगी। असामाजिक तत्व एवं सोशल मीडिया पर पांडू पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। वहीं उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक रामविलास सिंह ने कहा कि इस तरह के बैठक में ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े इसका भरपूर ख्याल रखना चाहिए. मौके पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मदेव सिंह यादव ने कहा कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक पर्व को मनाने की जरूरत है. मौके पर छोटा बाबू बलदेव सिंह, पप्पू मेहता, मनोज कुमार, अंचल निरीक्षक प्रमोद सिंह, तीसीबार मुखिया पूनम देवी, डालाकला मुखिया राम कुमार यादव, अंकित सिंह, सुनील पांडे, समाजसेवी शंभू शरण सिंह, लव विश्वकर्मा, शिक्षक जनेश्वर सिंह, प्रदुम्न कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह, महेंद्र प्रसाद साहु के साथ-साथ अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

ज्वेलरी की दुकान से दिन दहाड़े दो लाख के गहनों की लूट

प्रभात मंत्र संवाददाता

रमना (गढ़वा) : रमना के भीड़भाड़ वाले इलाके मे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निकट स्वर्ण वाटिका ज्वेलर्स नामक दुकान मे दो लाख रुपए के जेवर चोरी किए जाने का मामला प्रकाश मे आया है।घटना बुधवार के शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है।जेवर चोरी के मामले मे दुकानदार रमना बजार निवासी अनील कुमार सोनी ने रमना थाना पुलिस को आवेदन देकर अज्ञात चोरो की गिरफ्तारी और चोरी गए जेवर की बरामदगी का आग्रह किया है।इधर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा व पुलिस बल के जवान मामले के उद्भेदन को लेकर सक्रिय हो गए है।घटना के संबंध मे दुकानदार अनील कुमार सोनी ने बताया की शाम चार बजे दुकान मे अकेला था इसी दौरान दो व्यक्ति दुकान पहुंच कर छुछीया

दिखाने के लिए बोले। छुछीया देखने के बाद दोनों ने छुछीया का किमत देकर मांगटीका दिखाने के लिए बोला। मैने मांगटीका भी दिखा दिया। पसंद नही आने के स्थिति मे दुसरा मांगटीका दिखाया जिसमे चार पीस मांगटीका,बाली चार पीस तथा दो पीस मंगलसूत्र भी था। दोनो जेवर देख रहे।इसी दौरान पहले वाला डब्बा को तिजोरी मे रख ही रहा था कि दोनो जेवर वाला डब्बा लेकर फरार हो गए। कुछ समझ पाता तब तक दोनो गायब हो गए।दिनदहाड़े घटी इस चोरी की घटना के बाद रमना थाना पुलिस दुकान के साथ साथ अगल बगल के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी खंगाल रही है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके।

हरिहरगंज में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सदन में आवाज उठाने पर कार्यकर्ताओं ने विधायक का जताया आभार

प्रभात मंत्र संवाददाता

हरिहरगंज : हरिहरगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर क्षेत्रीय विधायक कमलेश कुमार सिंह द्वारा विधानसभा में आवाज उठाने पर कार्यकर्ताओं ने विधायक का आभार जताया है। मालूम हो कि विधायक ने सदन में डिग्री कॉलेज की मांग करते हुए कहा है कि हरिहरगंज व पिपरा प्रखंड में बड़ी आबादी निवास करती है । परंतु उक्त क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जिससे छात्रों को पढाई में परेशानियों का सामना करना पड़ता है । डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्र- छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं । और इंटर के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है। इसलिए हरिहरगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना करायी जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता रही है। बावजूद इसके हरिहरगंज क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक का आभार जताने वालों में राकांपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश मेहता, जिला सचिव अजय कुमार सिंह, रवि पासवान, रौशन कुमार, फैजल अंसारी, शाहिद रजा, गोल्डेन अंसारी, कृष्णा विश्वकर्मा, पिंटू साव आदि शामिल हैं।

लंबित आवासों को पूर्ण कराने में सहयोग करें प्रतिनिधि : एसडीओ

प्रभात मंत्र संवाददाता

हैदरनगर, पलामू : हैदरनगर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को पूर्ण कराने को लेकर हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण गंभीर हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रखंड सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक, बीडीओ व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पीएम आवास पूर्ण कराने को लेकर उपायुक्त ने गत दिनों बीडीओ के साथ बैठक किया था। एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने कहा कि सभी मुखिया पंचायत व समिति सदस्यों से इसे अभियान के रूप में लेकर पूरा कराने में सहयोग करने की बात कही। पंचायत प्रतिनिधियों ने बालू की अनुपलब्धता का सवाल उठाया। एसडीओ ने इस मसले का हल निकालने को लेकर जिला खनन पदाधिकारी से दूरभाष पर बात की। उन्होंने इस समस्या का समाधान का भरोसा दिलाया है।एसडीओ ने आगामी 15 दिनों के अंदर प्रखंड के सभी लंबित आवासों को पूर्ण करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर चर्चा की। उन्होंने अधिक लंबित आवासों वाले पंचायतों की जानकारी भी बीडीओ से प्राप्त की।

श्री राम कथा का किया गया शुभारम्भ



बंशीधर नगर (प्रभात मंत्र संवाददाता): वासंतिक नवरात्र के अवसर पर चितविश्राम ग्राम में आयोजित श्रीराम कथा के प्रथम दिन भोजपुर बिहार से पधारी मानस प्रिया सुमित्रा देवी ने कहा कि भगवान की कथा जीवन व घर की व्यथा को दूर करती है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा को निराभिमान भाव से सुनना चाहिये। उन्होंने कहा कि भगवान शिव कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्यागकर कथा सुनने नीचे आये थे.भगवान शिव ने कहा भाई संसार मे भले ही व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन जब प्रभु से मिलने की बात आये तब संसार की प्रत्येक ऊंचाई का परित्याग कर देना चाहिये. चाहे पद की ऊंचाई हो, परिवार की या जमीन जायदाद की.उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब तक जीवन मे ऊंचाई का परित्याग नही करेगा तब तक प्रभु को नही पा सकता है। उन्होंने कहा कि कथा में कुतर्क का भाव मन मे नही रखना चाहिये वरना माता सती की तरह ही फल मिलेगा। कथा में आचार्य श्रीकांत मिश्र, अमरनाथ पांडेय, दिनेश पांडेय, दुर्गेश पांडेय, कमलेश सेठ, अरविन्द लाल, अलख पांडेय, सुशील पांडेय, जवाहर पांडेय, ब्रजकिशोर पांडेय, संजय पांडेय, सगुनी साव सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे।

रामनवमी को लेकर थाना में किया गया शांति समिति का बैठक

प्रभात मंत्र संवाददाता

बंशीधर नगर : रामनवमी व सरहुल पर्व को लेकर बुधवार को बंशीधर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक किया गया।इस दौरान सभी से क्षेत्र में रामनवमी और सरहुल जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए राय मांगी गई। वही बैठक में सभी समुदाय के लोगों ने सरहुल एवं रामनवमी का त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूजा के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने एवं दूसरे समुदायों के धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने निर्धारित रूट पर अखाड़ा जुलूस निकालने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती करने तथा स्थानीय लोगों का सहयोग लेने एवं असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने कहा के यहां की

परंपरा रही कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुलकर सभी पर्व त्यौहार मनाते हैं इस परंपरा को बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा की रामनवमी एवं सरहुल पर्व को लेकर जिला स्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद रूट चार्ट जारी होगी। जिस के अनुरूप पर्व त्यौहार मनाया जाएगा। एसडीपीओ प्रमोद कुमार केशरी ने कहा कि कहा रामनवमी एवं सरहुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। शांति समिति की बैठक में पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी, पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार, सीओ अरुण मुंडा, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह, पुअनि विक्रम सिंह, राहुल कुमार, कुणाल किशोर, जितेंद्र भगत, श्रीकांत पांडेय, विधायक प्रतिनिधि धीरज दुबे, डॉ धर्मचंद लाल अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष शम्भूनाथ सौदागर, हृदयानंद कमलापुरी, राजद नेता अभय पांडेय, झामुमो नेता सूर्यदेव मेहता, मुक्तेश्वर पांडेय अमरनाथ पांडेय, महमूद आलम सीनियर, भाजपा नेता लक्ष्मण राम, ओमप्रकाश गुप्ता, कांग्रेस नेता मानिक राम,आप नेता मंटू पांडेय, सदर तौहिद खान, शमीम खान, नसीर अंसारी, कलाम खान, मुखिया उषा देवी, सिविस्टयानी केरकेट्टा, विवेक कुमार, राकेश चौब, अनुराग सोनी, श्रीराम सेना अध्यक्ष रजनीकांत मधुर भोलू, कमलेश मेहता, अनूप निराला, अजय कुमार मुखिया पूर्व मुखिया मुश्ताक अहमद शेख, सहित अन्य लोग मौजूद थे।

पूर्वमंत्री रामचन्द्र केशरी के 50 वर्षों के संघर्षपूर्ण जीवन पर आधारित पुस्तक सड़क से सदन तक का लोकार्पण किया गया

प्रभात मंत्र संवाददाता

बंशीधर नगर : डॉ राममनोहर लोहिया चेतना मंच के तत्वावधान में गुरुवार को ड्रीम गार्डेन में महान समाजवादी चिंतक डॉ राममनोहर लोहिया के 113वी जयंती समारोह सह पूर्वमंत्री रामचन्द्र केशरी के 50 वर्षों के संघर्षपूर्ण जीवन पर आधारित **कॉफी टेबल बुक सड़क से सदन तक** का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ राममनोहर लोहिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा कार्यक्रम स्थल पर शहीदे आजम भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया.इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा डॉ मनोहर लोहिया के अनुयायी संघर्षशील समाजवादी नेता, पूर्वमंत्री रामचन्द्र केशरी के 50 वर्षों के क्रियाकलापों पर आधारित पुस्तक सड़क से सदन तक का लोकार्पण किया.इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूर्वमंत्री सह डॉ लोहिया के

अनुयायी रामचन्द्र केशरी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। इनके राजनीतिक जीवन मे कई बाधाएं आयी लेकिन उन बाधाओं का वीरता के साथ सामना करते हुये आगे बढ़ते रहे, वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन आज के युवाओं के लिये प्रेरणास्त्रोत है। इनके बताये मार्ग पर चलकर समाज एवम देश का भला किया जा सकता है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और लोहा मनवाया.यह पुस्तक उनके 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन का संघर्ष गाथा है। इस पुस्तक के सम्पादक उनके बड़े पुत्र विजय कुमार केशरी तथा इस कार्य मे इनके अनुज राजीव कुमार केशरी व अनिल कुमार केशरी का सहयोग प्रशंसनीय है। यह पुस्तक 11 खंडों में विभाजित व 252 पेजों में सजाया गया है.वक्ताओं ने डॉ राममनोहर लोहिया के जीवन पर प्रकाश डाला.वक्ताओं ने डॉ राम मनोहर लोहिया को सच्चा देश भक्त, प्रखर समाजवादी नेता व चिंतक बताया। कार्यक्रम के अंत मे पूर्वमंत्री रामचन्द्र केशरी के अनुयायियों व सम्पादक मंडल के सदस्यों को डॉ राममनोहर लोहिया की तस्वीर, अंगवस्त्र व पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश व डॉ राम मनोहर लोहिया विचार मंच हैदराबाद, तेलंगना के अध्यक्ष टी0 गोपाल सिंह, मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार सह डॉ राममनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक रंजन सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉ राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन कोलकाता के सचिव राज कुमार रूंगटा, लोक क्रांति अभियान नई दिल्ली के संयोजक गोविंद यादव, समाजवादी युवा मंच नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्यूष नंदन, निर्भया सेना सह रेल एवम वित्त मंत्रालय के सदस्य सतीश मिश्रा बाबा, राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य नारायण महतो सहित स्थानीय नेताओं ने सम्बोधित किया।

राहुल गांधी को दो साल की सजा पर सदन में जोरदार हंगामा

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को मोदी सरनेम पर विवादित बयान देने के मामले में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गए। नारेबाजी होने लगी। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को स्पीकर ने 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में भाजपा के इशारे पर बोलने की स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर सूरत कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायक भी विरोध में वेल में आकर हंगामा करने लगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की हिटलरशाही नहीं चलेगी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम विवाद में गुरुवार को सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाने के बाद उन्हें जमानत दे दी है।

राहुल गांधी मामले में कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर किया हंगामा

दोपहर 12: 30 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला समेत कई अन्य विधायक अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस दौरान विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि एक ऐसा परिवार जिसने लोकतंत्र को मजबूत किया उस परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी की हत्या की जा रही है। कांग्रेस विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे।इधर, भाजपा विधायक सदन में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भाजपा विधायक भी वेल में आकर हंगामा करने लगे। मंत्री और झामुमो विधायक भी वेल में आकर हंगामा करने लगे। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री वेल में आ गए थे।कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या झूठ कहा है? क्या नीरव मोदी चोर नहीं है, ललित मोदी भगोड़ा नहीं है? सच तो यह है कि प्रधानमंत्री को अपने खिलाफ एक भी बात सुनने की सहनशीलता नहीं है।दीपिका ने कहा कि देश में करप्शन कर उनके जो कॉरपोरेट साथी हैं वो आमजनों का पैसा लेकर बार-बार देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने हमेशा सच कहा है और सच के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है।

आजसू विधायकों का विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना

झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सत्र शुरू होने से पहले आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। दोनों ने कुर्मी-कुड़मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग दोहरायी। आजसू विधायकों ने सात जिलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने का विरोध किया और राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। विधायकों ने कहा कि राज्य के युवा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यह सरकार पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर शहादत दिवस पर भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उमाशंकर अकेला पीली पगड़ी और भगत सिंह के चित्र वाली टी-शर्ट पहने नजर आये। इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर, भाजपा के सचेतक अनंत ओझा समेत कई विधायकों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उमाशंकर अकेला ने कहा कि भगत सिंह की शहादत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने शहादत से पहले ही कह दिया था कि जब देश आजाद होगा तो ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज के बजाय काले अंग्रेज राज करें।

बिरंची नारायण ने कृषि विभाग से संचालित योजनाओं पर शून्य खर्च का मामला उठाया

झारखंड विधानसभा में गुरुवार को भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में कृषि विभाग की ओर से संचालित कुल 76 स्कीम में 53 योजनाओं पर शून्य खर्च का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की 21 योजनाओं, पशुपालन की 17, गव्य विकास की 08 और मत्स्य विभाग की सात योजनाओं पर इस वर्ष कोई राशि खर्च नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब राशि खर्च नहीं हुई तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। सरकार तो निकम्मी है ही, मंत्री और अधिकारी भी निकम्मे हैं। उन्होंने कहा कि राशि खर्च नहीं होने के लिए कौन जिम्मेवार है। विभाग नहीं चल रहा है तो मंत्रिपद छोड़ दीजिए। जवाब में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि प्रभाग की कुल 22 राज्य योजनाओं में से मात्र चार योजनाओं में व्यय शून्य है। 11 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से छह योजनाओं में भारत सरकार से राशि अप्राप्त है। इस वजह से खर्च शून्य है। उन्होंने कहा कि सदस्य राजनीतिक बयान नहीं दें। यदि अधिकारी लापरवाह हैं तो उसका पुख्ता सबूत दें। सरकार जांच कराकर कार्रवाई करेगी।

रेणुका चौधरी के बिना ड्यूटी पर गए फर्जी हस्ताक्षर से वेतन लेने का मामला गरमाया

झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन गुरुवार को भाजपा विधायक सीपी सिंह ने 2006 से 2011 पांच साल तक जमशेदपुर की तत्कालीन चिकित्सा प्रभारी रेणुका चौधरी के बिना ड्यूटी पर गये फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन उठाने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा था कि जब फर्जी हस्ताक्षर की बात सरकार स्वीकार कर रही है तो फिर क्या कार्रवाई करना चाहती है? इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में है, वहां से जो निर्देश आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। इस पर सीपी सिंह ने कहा कि जवाब में तो हाई कोर्ट का जिक्र ही नहीं है। आप यह स्पष्ट करें कि कब और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं।बन्ना गुप्ता ने कहा कि बतौर मंत्री मैं यह स्वीकार करता हूं कि विभागीय अधिकारियों ने गलत जवाब भेजकर मुझे और सदन को गुमराह किया है। जवाब तैयार करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने कहा कि रेणुका चौधरी मामले में पांच बिंदुओं पर जांच हुई थी, जिसमें से चार में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। उधर, सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने भी उन्हें घेरते हुए कहा कि मंत्री को विधायकों के सवाल का जवाब देखकर फाइल में हस्ताक्षर करना चाहिए। इसपर बन्ना गुप्ता बौखला गये। उन्होंने कहा कि प्रदीप बाबू आप बाल का खाल मत निकालिए। आप भले ही मंत्री रहे हैं लेकिन उतने भी विद्वान नहीं हैं। प्रदीप यादव ने फिर से हस्तक्षेप किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सीपी सिंह से ट्यूशन पढ़ने जायेंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह रघुवर सरकार के समय का मामला है। पिछली सरकार के अफसरों ने इसमें गलत जवाब दिया था। जांच भी गलत हुई थी। वर्तमान में भी अफसरों ने जो जवाब दिया है वो गलत है। जवाब देने वाले अधिकारियों पर वे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि, मामला हाई कोर्ट में है और अधिकारी इसपर गलत जवाब देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसपर प्रदीप यादव ने कहा कि मंत्री को सदन में आने से पहले अधिकारियों के दिये गये जवाब को पढ़कर आना चाहिए था।

ढुल्लु महतो ने धनबाद में अवैध खनन से चार लोगों की मौत का मामला उठाया

झारखंड विधानसभा में गुरुवार को धनबाद में अवैध खनन से चार लोगों की मौत और छह लोगों के घायल होने का मामला गूंजा। धनबाद जिले के बाघमारा विधायक ढुल्लु महतो ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। मामला धनबाद जिले में तेतुलमारी थाना क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह स्थित बीएस माइनिंग आउट सोर्सिंग की उत्खनन परियोजना का है। ढुल्लु महतो ने कहा कि धनबाद में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। अगर सदन चाहे तो इस संबंध में वह सबूत भी पेश कर सकते हैं। वे तस्वीरें और वीडियो भी दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर कब प्रशासन अवैध खनन रोकेगा। बीसीसीएल के अधिकारियों पर भी केस होना चाहिए। ढुल्लु महतो ने कहा कि चार नहीं दस की संख्या में लोग मरे हैं। सरकार कितने लोगों की जान लेगी। कोयला चोरी कौन करा रहा है। मैं इस मामले में सरकार से जवाब चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार सुबह बीसीसीएल कतरास क्षेत्र में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के पैच में अवैध खनन के दौरान चार लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हैं।

राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा

झारखंड विधानसभा में गुरुवार को भोजनावकाश के बाद भी राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस विधायक वेल में आकर नरेन्द्र मोदी चोर है, का नारा लगाने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक भी वेल में आ गए और गली-गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, के नारे लगाने लगे। पक्ष-विपक्ष के विधायक मेज थपथपाकर और ताली बजाकर नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस के सपोर्ट में झामुमो विधायक भी वेल में आ गए। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। इस हंगामे के बीच ही स्पीकर ने सदन में कई विधेयकों को लिया। विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो के समझाने के बाद भी जब विधायक नहीं माने तो हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक स्थगित कर दी।

संक्षिप्त खबरें

बीएसएनएल मजदूर संघ की बैठक 26 को

रांची : रांची बीएसएनएल दैनिक भोगी मजदूर संघ यह बैठक 26 मार्च को अरगोड़ा मैदान में होगी। पीएफ खाते में रकम भेजवाने और भुगतान में हो रही गड़बड़ी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसमें सभी दैनिक बीएसएनएल कार्यरत एवं काम से हटाए गए मजदूर शामिल होंगे।

सांसद का पुतला दहन

रांची : बिरसा चौक रांची में कांग्रेसी नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने सांसद डा निशिकांत दुबे के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की है. बिरसा चौक पर महिला नेत्री विनता पाठक, खदीजा खातून, कमल ठाकुर , परमेश्वर सिंह सहित रांची महिला कांग्रेस इकाई झाड़ू, जूता लेकर सड़क पर उतरी. सांसद का पुतला दहन भी किया. विनीता पाठक ने कहा कि निशिकांत दूबे को महिला विधायक दीपिका पांडेय सिंह के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए. पर इसकी बजाए वे लगातार सोशल मीडिया के जरिये उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. हाल के पोस्ट में उन्होंने महिला विधायक के खिलाफ फ्रवैशाली की नगर वधूफ्र, बदतमीज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है. इनका संकेत दीपिका पांडेय की ओर है. राजनीतिक विरोध में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. यह अक्षम्य है. निशिकांत के खिलाफ सरकार और भाजपा को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौके पर कमल ठाकुर विनीता पाठक ,मेरी तिर्की,मुन्नी देवी ,खतीजा खातून ,जोगिंदर सिंह, रॉबिन मिश्रा, अमरीश पाण्डे, नीतू देवी, विपुला देवी, लालू राज यादव समीर सैकड़ों लोग मौजूद थे।

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 26 मार्च से 41 विमान भरेंगे उड़ान

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब देश के कई अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। जयपुर, गोवा, मैंग्लोर, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, कोचिन और देवघर के लिए एयरपोर्ट से 26 मार्च से सेवाएं मिलनी शुरू हो जायेंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रांची-पुणे-मेंगलुरु रात 8.10 बजे रांची आयेगी और रात 8.45 बजे उड़ान भरेगी। वहीं इंडिगो का बेंगलुरु-रांची-पुणे-विशाखापट्टम विमान रात 8.10 बजे रांची आयेगा और रात 8.45 बजे विशाखापट्टम के लिए रवाना होगा। इंडिगो का गोवा-रांची-गोवा विमान शाम 6.15 बजे रांची आयेगा और शाम 6.45 बजे रांची से गोवा के लिए रवाना होगा। एयर एशिया का विमान दिल्ली-रांची-दिल्ली-कोच्चि दोपहर 12 बजे रांची आयेगा और दोपहर 12.30 बजे कोच्चि रवाना होगा। इंडिगो का देवघर-रांची-देवघर विमान दोपहर 12.10 बजे रांची आयेगा और दोपहर 12.40 बजे रांची से देवघर के लिए उड़ान भरेगा। अकाशा एयरवेज का विमान हैदराबाद-रांची-बेंगलुरु दोपहर 1.40 बजे रांची आयेगा और दोपहर 2.15 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ेगा वहीं दूसरा विमान बेंगलुर-रांची-हैदराबाद सुबह 8.40 बजे रांची आयेगा और सुबह 9.20 बजे हैदराबाद के लिए उड़ेगा. इंडिगो का जयपुर-रांची-जयपुर विमान सुबह 9.05 बजे रांची आयेगा व सुबह 9.35 बजे जयपुर के लिए उड़ेगा। एयर एशिया का रांची-दिल्ली-श्रीनगर विमान सुबह 8.15 बजे रांची आयेगा व सुबह 8.45 बजे श्रीनगर उड़ेगा। एयर एशिया का विमान रांची-बेंगलुर-कोच्चि सुबह 7.25 बजे रांची आयेगा व सुबह 7.55 बजे कोच्चि उड़ेगा।

गोस्सनर कॉलेज में सरहुल की पूर्व संध्या और शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : गोस्सनर कॉलेज के मास कॉम विभाग के तत्वावधान में सरहुल की पूर्व संध्या और शहीद दिवस पर गुरुवार को प्रोफेसर तेज मुंडू, प्रोफेसर महिमा बिलुंग और प्रोफेसर संतोष की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर तेज मुंडू के छात्रों को सरहुल के महत्व को बताते हुए कहा कि इस त्योहार के माध्यम से आदिवासी हमारे जंगल, जनजाति और संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सेमेस्टर-4 की छात्रा रूपाली दास ने सरहुल का महत्व बताते हुए कहा कि सरहुल के पावन त्योहार पर प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार सरहुल के बाद ही फसल की कटाई की जानी चाहिए। सेमेस्टर-5 की छात्रा अनु कुमारी ने सरहुल मनाने का कारण, इसे मनाने के तरीके, की जाने वाली पूजा, पोशाक, खानपान और नृत्य के बारे में बताया। सेमेस्टर-5 की छात्रा दीपाली कुमारी में झारखंड के इतिहास को बताया। कार्यक्रम में बांसुरी की धुन भी सुनाई दी, जिसे सेमेस्टर-5 के छात्र मनीष ने बजाया और सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर महिमा बिलुंग ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भारत के प्रति देश प्रेम और इसकी आजादी के लिए दी गई उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उनके सम्मान में जोश भरे नारे भी लगाए।

किसी से डरे बगैर सरहूल और रामनवमी मनाने की अपील

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : श्री सनातन महापंचायत ने रांची सहित राज्यभर के लोगों को बिना किसी भय के पूरे उत्साह जोश के साथ सरहूल रामनवमी और चैती नवरात्रि मनाने की अपील की है।
महापंचायत के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने गुरुवार को दिगंबर जैन भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि यह एक संयोग है कि अभी एक साथ हिंदू नव वर्ष, सरहूल, रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। त्योहार का आनंद किसी भी प्रतिबंध जटिल के दायरे में मनाना आनंददायक नहीं हो सकता है। हर कोई उत्साह उमंग ऊर्जा के साथ इसे मनाना चाहते हैं। ओझा ने कहा कि रांची सहित सभी लाइसेंस धारी अखाड़ों से अपील है कि वह इस तरह के अनुशासित तरीके से रामनवमी और दूसरे त्योहार को आनंद ले ताकि अगली पीढ़ी भी इसे सीखे। उन्होंने कहा कि इस दौरान डीजे भी बजाएं लेकिन निर्धारित समय तक ही बजाएं। ओझा ने कहा कि श्री महावीर मंडल 1929 में स्थापित हुआ था 2028 में 100 वर्ष हो रहा है। रामनवमी जुलूस को राज्यभर की लोग देखने आते हैं। रांची की जनता खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी रांची में लाइसेंस धारी 90 अखाड़े हैं। 24 मार्च को सरहुल का जुलूस रांची में निकलेगा। इसके लिए सनातन महापंचायत फिरायला लाल चौक पर न सिर्फ उसे उत्साहवर्धन करेगा, बल्कि नाचेंगे और झूमेंगे।

सीएम ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया नमन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी अमर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश आप के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा।

रांची : महिलाओं को ऋण देकर उद्यमी बनाना ही पहली प्राथमिकता : महाप्रबंधक

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची। खूंटी बैंक ऑफ इंडिया रांची अंचल द्वारा बहुउद्देशीय सामुदायिमहिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता क केंद्र, खूंटी में ऋण स्वीकृति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-झारखंड के महाप्रबंधक मनोज कुमार और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जे एस एल पी एस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शैलेश रंजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में 47 महिलाओं को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही खूंटी जिले के बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी 8 बैंक सखी को सम्मानित किया गया। जिले से गोविंदपुर शाखा के शाखा प्रबंधक अमर प्रदीप आइंद भी सम्मानित किए गए। महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। 1 मार्च से 22 मार्च तक ÷प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा = आपकी उम्मीदें, हमारा सरोकार स्टार सखी योजना÷ चलाई गई। जिला प्रबंधक विनय कुजूर ने धन्यवाद किया। मंच संचालन राजेश यादव, प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा किया गया। मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक विनय कुजूर, राँची अंचल के मुख्य प्रबंधक, विपणन अनुराग वर्मा, कृषि वित्त प्रमुख चंद्र देव, खूंटी जिले के सभी शाखा प्रबंधक और बड़ी संख्या में स्टार सखी योजना के लाभार्थी उपस्थित थे।

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का मामला

हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को दिव्यांग बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित रखने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए मामले की सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छाया मंडल ने अपने दिव्यांग बच्चे का एडमिशन रांची के सरकारी स्कूलों में कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया। बाद में उन्हें पता चला कि राज्य के सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है।
इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके कहा कि दिव्यांग बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

रिम्स शासी परिषद की बैठक 26 को

रांची : रिम्स शासी परिषद की 55 वीं बैठक 26 मार्च को होगी। बैठक दोपहर 12 बजे से रिम्स प्रशासनिक भवन में स्वास्थ्य मंत्री सह शासी परिषद के अध्यक्ष बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। हालांकि यह बैठक 10 मार्च को शुरू हुई थी, लेकिन बीच में इसे स्थगित कर दिया गया था।

बैंक ऑफ इंडिया कोकर शाखा ने अवधेश सिंह को दो लाख का चेक सौंपा

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची। बैंक ऑफ इंडिया , कोकर शाखा की ओर से गुरूवार को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सुंदर बिहार , कोकर निवासी अवधेश कुमार सिंह को दो लाख रूपये का चेक सौंपा गया । उपमहापौर संजीव विजवर्गीय , पार्षद अर्जुन यादव तथा मुख्य प्रबंधक राजीव प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से चेक सौंपा गया द्य ज्ञात हो सिंह की पत्नी अमिता देवी का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो गया था। अमिता देवी ने बैंक ऑफ इंडिया, कोकर शाखा से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा कराई थी ।ससमय बीमा की राशी का भुगतान सिंह को कर दिया गया । इस अवसर पर शाखा प्रबन्धक राजीव प्रसाद ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता

, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी तथा मृतक के परिवार को दुःख सहने की शक्ति देने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों सहित काफी संख्या में गणमान्य ग्राहक उपस्थित थें ।

प्रभात मंत्र
e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com

एनके प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश में रैयत विस्थापित मोर्चा

एनके एरिया के परियोजनाओं में दिये गए मांग पत्र पर प्रबंधन की कोई पहल नही

प्रभात मंत्र संवाददाता

खलारी : रैयत विस्थापित मोर्चा का बैठक डकरा में किया गया. बैठक की अध्यक्षता एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोगता व संचालन राम लखन गंझू ने किया. बैठक में रैयत विस्थापितों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. इस चर्चा में सभी शाखा के पदाधिकारियों ने समस्या को रखते हुए कहा कि प्रबंधन को सभी परियोजना में मोर्चा के द्वारा मांग पत्र दिया गया. प्रबंधन के द्वारा समाधान करने का

आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक प्रबंधन के द्वारा कोई पहल होता नही होता दिख रहा है. जिससे रैयत विस्थापितों में आक्रोश व्याप्त है प्रबंधन के उदासीन रवैये के कारण कोई भी रैयत प्रबंधन को खदान विस्तारीकरण में जमीन नही देने का निर्णय लिया.

बैठक में मोर्चा के सभी शाखा के मजबूती प्रदान करने के लिए प्रभारी बनाये गए हैं जिनमे रोहिणी परियोजना के लिए शिवनारायण लोहरा,नरेश गंझू,रामधारी गंझू,प्रेम गुप्ता,केडीएच परियोजना में रंथू उरांव, विनय खलखो, रामधारी गंझू,सुनील यादव, पुरनाडीह परियोजना में रंथू उरांव, नरेश गंझू,प्रभाकर गंझू,विनय खलखो, चुरी परियोजना में रंथू उरांव, जगरनाथ महतो,अमृत भोगता, प्रकाश महतो,डकरा परियोजना में रामलखन गंझू, प्रभाकर गंझू,शिवनारायण लोहरा, प्रकाश महतो,रोहिणी करकट्टा ओसीपी के लिए रामलखन गंझू,विनय खलखो, बासदेव ठाकुर को बनाया गया है.

झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में बैठक का आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

खूंटी : डाक बंगला परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला केंद्र समिति, जिला समिति एवं प्रखंड समिति की एक बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने किया आज की बैठक में मुख्य रूप से आए सभी केंद्र सदस्य एवं जिला समिति, प्रखंड समिति के सदस्य ने विचार विर्मश किये और अपने -अपने राय दिए और चर्चा की।

झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष आज के बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार की चल रही महत्वकांक्षी योजनाओं को अपने-अपने प्रखंड पंचायत पर निगरानी करें और ग्रामीणों को लाभ दिलवाए सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका प्रचार प्रसार व्हाट्सएप, फेसबुक,ट्विटर के माध्यम से करें जिला मे सभी पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी का गठन जल्द से जल्द करें बूथ कमेटी में पंचायत से लेकर जिला तक के पदाधिकारी विशेष ध्यान दें। आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की जल्द से जल्द सभी वर्ग संगठन का गठन करना है और बहुत जल्द ही नया प्रथमिक सदस्य जोड़ना है और जिसके पास भी पुराना रसीद है वह जल्द से जल्द जमा कर दें..

आज की बैठक में मुख्य रूप से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के खूँटी ज़िलाध्यक्ष जुबैर अहमद, झामुमो जिला सचिव गुलशन सिंह मुंडा, झामुमो जिला उपाध्यक्ष मगन मंजीत तिडू, झामुमो जिला कोसाध्यछ भोला नाथ लाल,केन्द्रीय समिति सदस्य मक़सूद अंसारी,केन्द्रीय सदस्य स्नेहलता कंडुलना, केन्द्रीय सदस्य उषा धान, केन्द्रीय सदस्य सुशील पहान, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, जिला संगठन सचिव मोजीर अंसारी, ज़िला सोशल मीडिया प्रभारी राहुल केशरी,शिशिर तोपनो,जिला सदस्य बिरेन्द्र सिंह,जोलेन बारला, अनीमा कक्षप,सोना राम यादव,,कर्रा प्रखण्ड अध्यक्ष शेख़ फ़िरोज़,बिनोद उरांव,कुंवर सिंह मुंडरी,सोमा तिडू, अमृत हेमरोम, रोबिन तोपनो, महेन्द्र सिंह मुंडा, सलन ओड़या, डेविद हमसॉय,आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मैक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी का सराहनीय कार्य

घायल बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया

प्रभात मंत्र संवाददाता

खलारी : मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हेसालोंग बस्ती में (मैक्लुस्कीगंज बालूमाथ मुख्य मार्ग) पर अचानक से पांच वर्ष का बालक घर से रोड पर दौड़ गया. जो कि सड़क पर करने के दौरान बाइक से टकरा गया. बाइक से टकराने से छोटा बच्चा घयाल हो गया. जानकारी के अनुसार हेसालोंग गांव में रोड किनारे घर से एक बच्चा अचानक से दौड़ कर सड़क पार करने लगा.उस दौरान एक बाइक

चालक किसी कार्य से उसी सड़क से अपने कार्य करने जा रहा था. उतने में ही बाइक से बच्चा टकरा गया. उसी समय थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह पेट्रोलिंग कर उसी रास्ते से आ रहे थे. अथवा दुर्घटना होते देख प्रभारी ने आनन फानन में बच्चे को उठाकर अपने वाहन पर बैठा कर तत्काल निजी क्लीनिक नरसिंग होम में ईलाज कराया. प्रभारी ने बताया कि बच्चा बिलकुल ठीक है,आंशिक चोट आई थी. बच्चे को तत्काल ईलाज की जरूरत थी. जो कि मेरे द्वारा किया गया. इस दुर्घटना से बाइक चालक की कोई गलती नही है. अचानक से बच्चा दौड़ गया. बच्चों को पेरेंट्स ध्यान दे.

महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता : महाप्रबंधक

प्रभात मंत्र संवाददाता

खूंटी : बैंक ऑफ इंडिया राँची अंचल द्वारा बहुउद्देशीय सामुदायिमहिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता केंद्र, खूंटी में ऋण स्वीकृति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-झारखंड के महाप्रबंधक मनोज कुमार और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जे एस एल पी एस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शैलेश रंजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में 47 महिलाओं को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही खूंटी जिले के बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी 8 बैंक सखी को सम्मानित किया गया। अंचल द्वारा चलाए जा रहे उक्त अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु जिले से गोविंदपुर शाखा के शाखा प्रबंधक अमर प्रदीप आइंद भी सम्मानित किए गए।

महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमी बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखकर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 मार्च से 22 मार्च तक प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा आपकी उम्मीदें, हमारा सरोकार स्टार सखी योजना चलाई गई, जिसमें राज्यभर की सभी 491 शाखाओं द्वारा गांव-गांव में ऋण शिविर के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया।

आंचलिक प्रबंधक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 22 दिनों से चल रहे इस अभियान में राँची अंचल द्वारा एक हजार से अधिक महिला लाभार्थियों को 17.24 करोड़ ऋण संवितरित किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में भी बैंक ऑफ इंडिया समाज के उत्थान के लिए इस तरह के प्रयासों को जारी रखेगा।

उप आंचलिक प्रबंधक नरेंद्र कुमार दास ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि समाज व परिवार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारिता प्रसंशनीय है और कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो सर्वप्रथम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इस तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही होगा।

मोहन नगर पूजा समिति ने मुन्नु शर्मा को सम्मानित किया

प्रभात मंत्र संवाददाता

खलारी : राजस्थान के बीकानेर में वर्ल्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड पा कर मोहन नगर वापस लौटने के बाद मोहन पूजा समिति के द्वारा मुन्नु शर्मा को माला पहनाकर शॉल देकर सम्मानित किया गया. मोहन नगर पूजा समिति के अध्यक्ष सह एटक के एरिया अध्यक्ष कृष्णा चौहान ने कहा कि एन के एरिया की सबसे बड़ी आवासिय कालोनी हमारे मोहन

नगर के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है. मोहन नगर में जन्म लेकर पले बढ़े मुन्नु शर्मा ने मोहन नगर कोयलांचल के साथ-साथ विश्व में झारखण्ड का नाम रौशन किया है. श्री चौहान ने बताया कि 200 देश के 780 सक्रिय समाजिक लोगों को विश्वस्तरीय समाजिक सम्मेलन में बीकानेर बुलाया गया था. 130 से ज्यादा लापता लोगों की खोज कर उनके परिवार से मिलाने और रक्तदान का मुहिम चलाने के उत्कृष्ट कार्य पर मुन्नु शर्मा को वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया है.

महावीर मंडल की बैठक संपन्न

नामकुम (प्रभात मंत्र संवाददाता): महावीर मंडल कि बैठक ई ई एफ मंदिर मैदान में बुलाई गई। बैठक कि अध्यक्षता बिगना महतो ने कि। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कि भाँति इस वर्ष भी रामनवमी धूमधाम से मनाना है। रामनवमी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद विभिन्न अखाड़े धारीओ एवम भक्तो के लिए चना,पानी, चिकित्सा सुविधा के अलावे जो अखाड़े धारी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगे उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से बिगना महतो, रासेश्वर नाथ मिश्र,मनेस महतो,जगदीश नायक,बृजेश सिंह,संजय साहू ,देवी शंकर,सुमित महतो इत्यादि उपस्थित थे। दूसरी ओर मंगलवार को संध्या 6 बजे शिव सैनिको द्वारा मंगलवारी जुलूस गाजे बाजे के साथ टाटीसिल्वे चौक से सूर्यमंदिर आदर्श नगर से वापस दुर्गा मंदिर तक निकाला गया। इसका नेतृत्व राजा,मोहित भट्ट, राजेश मिश्रा के द्वारा किया गया।

निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन

नामकुम (प्रभात मंत्र संवाददाता): सहारा कार्यालय टाटीसिल्वे में एक दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अजय विश्वकर्मा ने गंभीर से गंभीर ला इलाज बीमारियों का इलाज प्राकृतिक में उपलब्ध जड़ी बूटियों से संभव है, बस इसकी पहचान कि जरूरत है। थाइरॉइड,बी पी, सुगर,टी बी इत्यादि रोगों का इलाज कर नियंत्रित या खत्म किया जा सकता हैं। इस शिविर में मुख्य रूप से अजय कुमार, कृष्ण कुमार,जितेंद्र चतुर्वेदी,राजेश साहू, उधवचंद महतो, अर्जुन राम, धनेश्वर महतो,विशाल कुमार, कोमोलिना लकड़ा इत्यादि के अलावे आस पास के मरिजो ने अपना उपचार तथा परामर्श निःशुल्क में प्राप्त किए।

प्रकृति महापर्व सरहुल पूर्व संध्या संपन्न

खूंटी (प्रभात मंत्र संवाददाता): खूंटी के दुलवा में बृहस्पतिवार को सरहुल पूर्व संध्या आयोजित की गई. इससे पहले अखड़ा में पहानों की अगुवाई में दो घड़ों में सगुन जल रखा गया है जिसका दूसरे अवलोकन कर अतिवृष्टि-अनावृष्टि का अनुमान लगाया जाएगा. इस अवसर पर धर्म अगुवा सनिका मुंडा ने कहा कि सरहुल महज एक पर्व नहीं है बल्कि यह प्रकृति संरक्षण, मानव कल्याण, प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का अवसर है. समाज में ऊँच-नीच जैसे भेद-भाव से ऊपर उठकर भाई-चारे के साथ रहने का संकल्प लेना चाहिए. जिस प्रकार प्रकृति पुराने रुखे-सूखे पत्तों को त्यागकर नए पत्ते एवं फूलों से वातावरण को सुगंधित करता है. उसी तरह हमें भी पुराने मन-मुटाव, आपसी भेद-भाव, ईर्ष्या-द्वेष एवं नाकारात्मक विचारों को त्यागकर समाज में सुख, शांति, खूशहाली, दया, सेवा, भाई-चारा तथा अच्छाईयों का संचार करना चाहिए. इससे मानव जीवन में सदा सुख, शांति और खुशहाल बनी रहेगी. खूंटी के आस-पास के अनेक गांवों के साथ सरना धर्म सोतोः समिति डौगड़ा, उलिहातु, बंदगाँव, कोचांग, बिरबंकी, अरहरा, सोंगरा, कामडा, खजूरदाग, कोलाद, किरीबुरु, बालोंः आदि में भी सरहुल मनाया जा रहा है. इस अवसर पर नंदी डोढरय, सिनु सोय, सोमा मुंडा, सुधा मुंडू, मथुरा कंडीर, नारायण उरांव, सुभाष गाड़ी, लक्ष्मण तिर्की, बिरसा पुर्ती, सुखराम पहान, सोमा पहान, विश्राम टुटी, सुगना पहान आदि गणमान्य लोग शामिल हुए।

स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे पढ़ाई

सिल्ली (प्रभात मंत्र संवाददाता): सिल्ली प्रखण्ड के छातांटांड़ मे राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय बुढ़ाआखड़ा के क्लास रुम काफी जर्जर हो गया है। किसी भी वक्त छत टुट सकता है उस क्लास रुम के बच्चे अपना जान जोखिम मे डालकर पढ़ाई करते है क्लास रुम के छत का पलास्टर टुट टुट कर निचे गिर रहा है । अदंर का छड़ भी पुरा दिखाई दे रहा है। पर क्लास रुम का छत जगह जगह से फट गया है और फट फट कर निचे गिर रहा है।और उसी क्लास रुम में लगभग 30 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते है। किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल की इस व्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल से पुछे जाने पर उन्होंने बताया की इसकी जानकारी कई बार बड़े अधिकारी को दिया गया है पर अभी तक इसपर किसी भी तरह का ठीक करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा संख्या:- **302/2022-23/RWD/KHUNTI** दिनांक :- **23.03.2023**

मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से पैकेज के रूप में निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	RWD/ KHUNTI/23/ SRPKG-01/ 2022-23	(i) बिरगामडीह से सालबोंध होते हुए भकवाडीह तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 4.810 कि0मी0) (ii) कोड़ाडीह से सालगाडीह होते हुए जिलींगसेरेंग तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 3.210 कि0मी0) (iii) बरेन्दा कैनाल से बरेन्दा होते हुए सतीघाट तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 2.500 कि0मी0) (iv) तिलाईपीड़ी से पंडाडीह तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 3.375 कि0मी0) (v) चौकाहातु से सितुमडीह तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 2.995 कि0मी0) (vi) दुलमी से मगनडीह तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 2.260 कि0मी0) (vii) बरेन्दा मरांकीरी पी0डब्लू0डी0 रोड से डागडुंग घाट भाया दुल्मी तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 3.515 कि0मी0) (viii) बारेडीह लोवाडीह से हरीण तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 1.865 कि0मी0) (ix) पी0डब्लुडी0 रोड से जितुडीह तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 2.050 कि0मी0) (x) पोयादीरी से पोयादीरी पी0डब्लू0डी0 पथ तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 0.650 कि0मी0)	**13,92,65,100.00**	तेरह करोड़ बानबे लाख पैंसठ हजार एक सौ रू0 मात्र	18 माह
2.	RWD/ KHUNTI/24/ SRPKG-03/ 2022-23	(i) खूँटी तमाड़ पथ (खेसारी बेड़ा) से सोनपुर तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 4.100 कि0मी0) (ii) तारो सिलादोन से रेमता भाया जीक्की सुल्हे तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 4.400 कि0मी0) (iii) रनियों मरचा मुख्य पथ से बलांकेल से पिंडुल होते हुए महुआ टोली तक पथ का विशेष मरम्मति कार्य (लं– 5.500 कि0मी0)	**5,64,39,000.00**	पाँच करोड़ चौंसठ लाख उनचालीस हजार रू0 मात्र	18 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथिः– **03.04.2023**
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समयः– **17.04.2023** अपराह्न 5.00 बजे तक।
4. **(क)** मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा **(ख)** जिला नियंत्रण कक्ष, **राँची** अथवा **(ग)** जिला नियंत्रण कक्ष, **खूँटी** में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः– **18.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001 को भेजा जा सकता है। यह निविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाने वाला निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि निर्धारित तिथि एवं समय (18.04.2023 अपराह्न 3.30 बजे तक) से पूर्व प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः– **19.04.2023** अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पताः– मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन– 834001
8. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0– 0651–2207818
9. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **खूँटी** के पक्ष में एवं **खूँटी** में भुगतेय जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। नोडल पदाधिकारी ई–प्रोक्युर्मन्ट सेल

PR293505 (Rural Work Department)22-23*D

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल धनबाद

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–07/2022–23

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पदनाम :– कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, धनबाद।
2. परिमाण विपत्र विक्री की अन्तिम तिथि एवं समय :– दिनांक–11.04.2023 को 1.00 बजे अपराहन तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक–12.04.2023 को 3.00 बजे अपराहन तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–12.04.2023 को 3.30 बजे अपराहन।
5. निविदा बिक्री का स्थान :– (i) सदर थाना, धनबाद का कार्यालय। (ii) अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, हजारीबाग का कार्यालय।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– (i) सदर थाना, धनबाद का कार्यालय। (ii) अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, हजारीबाग का कार्यालय।
7. **कार्यो की सूची** :–

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Benagoriya-1, Block Kaliyasol Dhanbad. (DMFT)	20,97,000.00	41,950.00	5,000.00	03 माह 15 दिन।
2	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Kaliyasol, Block Kaliyasol Dhanbad. (DMFT)	17,65,000.00	35,300.00	5,000.00	03 माह।
3	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Parsiya, Block Dhanbad Sadar, Dhanbad. (DMFT)	15,57,000.00	31,140.00	5,000.00	03 माह।
4	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Gundava, Block Nirsa Dhanbad. (DMFT)	14,54,000.00	20,100.00	2,500.00	03 माह।
5	Construction of Boundary Wall of HSC Kumardih Panchayat Hathudih, Block Baghmara Dist. Dhanbad. (DMFT)	11,76,000.00	23,600.00	2,500.00	03 माह।
6	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Khokhrapahari, Block Dhanbad Kaliyasol Dhanbad. (DMFT)	10,73,000.00	21,500.00	2,500.00	03 माह।
7	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Loyadih, Block Dhanbad Sadar, Dhanbad. (DMFT)	10,39,000.00	20,800.00	2,500.00	03 माह।
8	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Bhelatand, Block Sadar, Dhanbad. (DMFT)	10,39,000.00	20,800.00	2,500.00	02 माह 15 दिन।
9	Construction of Boundary Wall of HSC Jhagrahi Panchayat Darda, Block Baghmara Dist. Dhanbad. (DMFT)	9,40,000.00	18,800.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
10	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Tetuliya, Block Nirsa Dhanbad. (DMFT)	9,35,000.00	18,700.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
11	Construction of Boundary Wall of HSC Nichitpur Panchayat Nichitpur 02, Block Baghmara Dist. Dhanbad. (DMFT)	9,20,000.00	18,400.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
12	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Gopalpur Block Egyarkund Dhanbad. (DMFT)	9,14,000.00	18,300.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
13	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Upchuriya, Block Dhanbad. (DMFT)	9,00,000.00	18,000.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
14	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Veersinghpur, Block Nirsa Dhanbad. (DMFT)	8,66,000.00	17,400.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
15	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Medha, Block Agyarkund. (DMFT)	8,21,000.00	16,500.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
16	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Ghagra, Block Nirsa Dhanbad. (DMFT)	7,97,000.00	16,000.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
17	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Sijua, Block Dhanbad Sadar, Dhanbad. (DMFT)	7,97,000.00	16,000.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
18	Construction of Boundary Wall of HSC Radhanagar Panchayat Padugora, Block Baghmara Dist. Dhanbad. (DMFT)	7,91,000.00	15,900.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
19	Construction of Boundary Wall of HSC Dadariyadih Panchayat Chhatrutand, Block Baghmara Dist. Dhanbad. (DMFT)	7,81,000.00	15,700.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
20	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Bagula, Block Dhanbad Sadar, Dhanbad. (DMFT)	5,89,000.00	11,800.00	1,250.00	02 माह 15 दिन।
21	Construction of Boundary Wall with Main Gate at Health Sub Center Pindrahat-1, Block Kaliyasol, Dhanbad. (DMFT)	3,47,000.00	7,000.00	750.00	02 माह।
22	Deep Boring (200x150 mm dia) & Installation of 2 H.P. Submersible Pump Set (2 Nos.) and Sump Tank (2 Nos.) at ITI Govindpur, Dhanbad.	14,81,000.00	29,700.00	2,500.00	02 माह।
23	Renovation of Administrative Building of ITI Baghmara, Dhanbad.	22,93,200.00	45,900.00	5,000.00	04 माह।
24	Renovation of Workshop Building of ITI, Baghmara.	22,94,900.00	45,900.00	5,000.00	04 माह।
25	Construction of 2 Nos. Toilet for Disabled Person in Civil Court at Dhanbad.	10,78,100.00	21600.00	2,500.00	02 माह।
26	Repair of Dist. Fishery Office Building, Dhanbad.	12,54,750.00	25,100.00	2,500.00	02 माह 15 दिन।
27	Roof Treatment, Floor & Outer Plaster Repair Work of Dist. Fishery Office Building, Dhanbad.	6,12,400.00	12,300.00	1,250.00	02 माह।
28	Renovation of CJM Court Building at Dhanbad.	12,94,750.00	25,900.00	2,500.00	02 माह 15 दिन।
29	Repairing Pump & Replacement of Pipe Line for Water Supply in the Quarters of Judical at Bekar Bandh Officers Colony Dhanbad.	3,33,400.00	6,700.00	750.00	01 माह।
30	Renovation of "D" Type Quarter No. 2 (Anti Corruption Bureau Dhanabd) in Officer's Colony Dhanbad.	12,44,500.00	24,900.00	2,500.00	02 माह।
31	Construction of Comman Toilet in Anti Corruption Bureau at Dhanbad Campus at Officer's Colony Dhanbad.	7,60,700.00	15,300.00	1,250.00	02 माह।
32	Renovation of "P" Type Quarter No. A/4 at New Judge Colony, Hirapur Dhanbad.	2,63,400.00	5,300.00	750.00	01 माह।
33	Renovation of "P" Type Quarter No. A/6 at New Judge Colony, Hirapur Dhanbad.	5,42,650.00	10,900.00	1,250.00	01 माह।
34	Renovation of "P" Type Quarter No. B/6 at New Judge Colony, Hirapur Dhanbad.	5,47,400.00	11,000.00	1,250.00	01 माह।
35	Renovation of "P" Type Quarter No. B/4 at New Judge Colony, Hirapur Dhanbad.	4,29,800.00	8,600.00	750.00	01 माह।
36	Construction of 04 Nos. Parking Shed & Approach Road at "P" Type Quarter No. 09 to 12 Old Judge Colony Near Randhir Verma Chowk, Dhanbad.	16,00,600.00	32,100.00	5,000.00	03 माह।
37	Shed, Drain, Plinth Protection and Window Work at "P" Type (CBI Judge) Judiciary Quarter No. P/21 (One Block 01 Nos. Quarters) in Old Judge Colony Dhanbad.	4,64,300.00	9,300.00	750.00	01 माह।
38	Renovation of Record Room in Court Campus at Dhanbad.	6,96,500.00	14,000.00	1,250.00	02 माह।
39	Renovation of "C" Type Judiciary Quarter No. 12 in Officer's Colony Dhanbad.	7,06,150.00	14200.00	1,250.00	02 माह।
40	Deep Boring (200x150 mm dia) & Installation of 2 H.P. Submersible Pump Set at ITI, Baghmara, Dhanbad.	3,51,900.00	7,100.00	750.00	15 दिन।

नोट :– 1) निविदा की शर्ते :–www.iprdjharkhand.in/iprd123@gmail.com/iprd@sify.com/jharkhand iprd @yahoo.com एवं सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है ।
2) परिमाण विपत्र संध्या 4:00 बजे से सदर थाना धनबाद में दिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, धनबाद

PR 293494 Building(22-23)#D

प्रभात मंत्र
e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com
कोल्हान
रांची, शुक्रवार, 24 मार्च 2023 | पेज 5

वीरांगनाओं ने मनाया बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में नव वर्ष उत्सव

जमशेदपुर(प्रभात मंत्र संवाददाता): बिष्टुपुर स्थित आद्रभक्त श्री राम मंदिर में अंतरराष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन की ओर से नव वर्ष उत्सव मनाया गया। अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री भारती सिंह ने किया। इस अवसर पर वीरांगनाओं ने श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। साथ ही गरीबों के बीच लड्डू वितरण किया। इस अवसर पर भारती सिंह ने कहा कि रामनवमी का पर्व सभी को मिलजुलकर और शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सीमा सिंह, प्रीति सिंह, विभा सिंह, रूबी सिंह, प्रतिमा सिंह, चित्रलेखा सिंह, माला सिंह, बिंदु सिंह गुड़िया सिंह सुनीता सिंह बबली सिंह, सीमा सिंह केबल टाउन सभी वीरांगनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

वकास्त मुंडारी खुटखट्टी 39 मौजा के जल जंगल व अधिकार पर कुचाई के दलभंगा में बैठक

खरसावां(प्रभात मंत्र संवाददाता): जल जंगल एवं अपने अधिकार को लेकर कुचाई प्रखंड के दलभंगा में बकास्त मुंडारी खुटखट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा के अध्यक्ष बैकुंट सिंह मुंडा के अध्यक्षता पर एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सरहुल बाहा पर्व एवं अपने अधिकार पर हनन की रोक को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर अध्यक्ष श्री मुंडा ने कहा कि बकास्त मुंडारी खुटखट्टी रक्षा एवं विकास समिति 39 मौजा के हक व अधिकार को कोई ले नहीं सकता। वही सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सफेद पत्थर पर रोक बिना किसी के सहमति पर खदान चलाना एवं अपने क्षेत्र से सफेद पत्थर की कालाबाजारी को बंद कर किसी भी हाल में नहीं ले जाने का विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मुखिया करम सिंह मुंडा, मुखिया मंगल सिंह मुंडा, अध्यक्ष बैकुंठ सिंह मुंडा, लखीराम सिंह मुंडा, धर्मेंद्र सिंह मुंडा, गोबरा मुंडा, सोहराय मुंडा, चंद्र मोहन मुंडा, गुरुचरण मुंडा, जल सिंह मुंडा, मोहनलाल सिंह मुंडा, सुभाष चंद्र मुंडा उपस्थित थे।

पतंजलि स्टोर में चोरी, 1.23 लाख नगदी ले उड़े चोर

गम्हरिया(प्रभात मंत्र संवाददाता): टाटा- कांड्रा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया स्थित पतंजलि स्टोर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए करीब 1.23 लाख नगदी की चोरी कर ली। दुकान मालिक चांदबाबू सिंह गुरुवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने दुकान का छत कटा हुआ और अंदर से कई सामान गायब पाया। उसके बाद तत्काल उन्होंने इसकी सूचना गम्हरिया पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। चोरों द्वारा दुकान में लगाए गए सीसीटीवी का कनेक्शन काटने का भी प्रयास किया था। बाहर के सीसीटीवी को कपड़ों के सहारे ढक दिया गया था। दुकान मालिक चांद बाबू सिंह ने बताया कि चार माह पूर्व ही दुकान खोला था।

मायुमं स्टील सिटी सुरभि शाखा को मिले कई पुरस्कार

जमशेदपुर(प्रभात मंत्र संवाददाता): झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के अष्टम प्रांतीय अधिवेशन में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में पिछले दिनों धनबाद शाखा के आतिथ्य में आयोजित हुए अधिवेशन में स्टील सिटी सुरभि शाखा को विशेषकर श्रेष्ठ शाखा,. श्रेष्ठ अध्यक्षा, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण. सर्वश्रेष्ठ अमृतधारा विस्तार. कैंसर जाँच शिविर., अग्रिम शुल्क, उद्यमिता विकास, मंडल स्तरीय कार्यशाला, श्रेष्ठ सामाजीक सम्मान, सर्वश्रेष्ठ जनसेवा कार्यक्रम, श्रेष्ठ व्यक्ति विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम इत्यादि पुरस्कार मिले। सुरभि शाखा अध्यक्ष उषा चौधरी, सचिव निधि अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नीलम, संस्थापक अध्यक्ष ममता अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मनीषा संघी, पूजा अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, रजनी बंसल, रुचि बंसल आदि सदस्यों ने अधिवेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

कपाली नप में वार्षिक बजट बढ़ाने का मामला विधायक सविता महतो ने विधानसभा में उठाया

जमशेदपुर(प्रभात मंत्र संवाददाता): ईचागढ़ के विधायक सविता महतो शून्यकाल की सूचना के दौरान गुरुवार को कपाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कपाली नगर परिषद के वार्षिक बजट बढ़ाने का मामला विधानसभा के पटल पर रखा। इस दौरान विधायक ने कहा चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपाली नगर परिषद में कुल 21 वार्ड है। जिसमें लगभग हज़ारो की संख्या में जनसंख्या है। स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए चांडिल या जमशेदपुर जाना पड़ता है साथ ही कपाली नगर परिषद का वार्षिक बजट मात्र दो करोड़ है जिस कारण जनसंख्या के अनुरूप कम बजट से विकास कार्य बाधित होते हैं। विधायक ने आसन के माध्यम से सरकार से कपाली नगर परिषद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगर परिषद के वार्षिक के बजट को बढ़ाकर जनसंख्या के अनुरूप 20 से 30 करोड़ करने का मांग किया है।

ग्रामीणों ने बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ कर थाना को सौंपा

ईचागढ़(प्रभात मंत्र संवाददाता): सरायकेला खरसावां जिला के कुकडु प्रखंड क्षेत्र के तिरूलडीह थाना के चानो गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ कर तिरूलडीह पुलिस को सौंप दिया। वहीं थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बालु बालू लदे ट्रैक्टर को जप्त कर अबैध बालू परिवहन के खिलाफ अंचलाधिकारी को आगे की कार्रवाई हेतु सुचित कर दिया है। मिली जानकारी अनुसार सुवर्णरेखा नदी के सपादा घाट से अवैध बालू लेकर चानो गांव पहुंचा था कि ग्रामीणों ने पकड़कर पूछताछ करने पर चालक फरार हो गया। सुचना मिलते ही तिरूलडीह पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाना ले आई । बताया जा रहा है कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु मामले की सुचना अंचलाधिकारी कुकडु को दिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।

बिरसानगर में पीएम आवास के चयनित लाभुकों का प्रथम किश्त जमा नहीं होने पर होगा आवंटन रद्द

प्रभात मंत्र संवाददाता

जमशेदपुर : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक-3 अन्तर्गत बिरसानगर जमशेदपुर में बन रहे किफायती आवास परियोजना जी प्लस 8 संरचना के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9592 आवासों का निर्माण किया जाना है। जिसमे अबतक दो चरणों में कुल 4670 आवास का आवंटन उपायुक्त, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 23.12.2021 एवं 29.09.2022 को सिदगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हाल मे रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से किया गया था, जिसमे कुछ लाभुको द्वारा अबतक प्रथम क़िस्त की राशी ञ्च 20000 रुपये कार्यालय द्वारा निर्धारित केनरा बैंक में जमा नहीं कराया है , उन सभी लाभुको का आवास आवंटन रदद करते हुए नए लाभुको का आवास आवंटन करने की योजना तैयार की जा रही है, जल्द ही रद्द किये गए आवासों में नए लाभुको का आवास आवंटन किया जाएगा ढ्ढ वर्तमान में यदि कोई आवेदक अब तक आवास हेतु आवेदन जमा नहीं कर सके ऐसे लोगो के लिए एक बार फिर से आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है, इच्छुक आवेदक अगले आदेश तक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में अपना आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हैं- जो लोग 17 जून 2015 के पूर्व से जमशेदपुर अ0क्षे0स0 के निवासी हो, प्रमाणपत्र में वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र तीन लाख या तीन लाख से कम, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड को प्रति, संबंधित बैंक में 5000 रूपये का भुगतान कर पंजीकरण करा ले। पंजीकरण पुस्तिका मे स्पष्ट उल्लेख करे की आवेदक बिरसा नगर परियोजना मे आवास लेने को इक्षुक है।

नितिन गडकरी के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता

प्रभात मंत्र संवाददाता

पटमदा : गुरुवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित डबल डेकर फ्लाई ओवर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत में पटमदा, कमलपुर एवं बोड़ाम मंडल क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चार पहिया वाहनों एवं बसों में सवार होकर सुबह करीब 10 बजे रवाना हुए। बेलटांड़ चौके में भाजपा के जमशेदपुर महानगर जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एकजुटता दिखाई। मौके पर प्रदीप कुमार महतो, पटमदा मंडल अध्यक्ष मंटू चरण दत्त, कमलपुर मंडल अध्यक्ष प्रधान चंद्र महतो, संदीप कुमार मिश्रा, कृपासिंधु महतो, महाबीर महतो, मुचिराम बाउरी, पोलटू मिश्रा, तरुण कुमार महतो, कृष्णमोहन कुंभकार, निरंजन रजक, सुनील रजक, परीक्षित महतो, संजय प्रमाणिक आदि शामिल थे।

उपायुक्त ने ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया

सरायकेला : जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त सरायकेला खरसावां अरवा राजकमल के द्वारा आज समुदायिक भवन सरायकेला स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग-नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वेयर हाउस की विधि-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वेयर हाउस में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, भवन की स्थिति, तैनात सुरक्षा बल, अग्निशमन सिलेंडर, इत्यादि का जाँच करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए लगा रोजगार मेला

प्रभात मंत्र संवाददाता

खरसावां : कल्याण विभाग झारखंड सरकार प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल के द्वारा कुचाई प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवतियों के लिए एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया?। इस शिविर में सभी युवक-युवतियों को वायर हार्नेस, वेल्डर, फीटर, ग्राईडर मशीनिस्ट ऑपरेटर, शटरिंग, राजमिस्त्री, सरिया मिस्त्री, सिलाई मशीन ऑपरेटर ट्रेड इत्यादि पर विशेष जानकारी दी गई। मौके पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी सुजाता कुजूर ने कहा कि झारखंड के

युवक-युवतियों को आधुनिक तकनीकी आवासीय प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित रोजगार के तहत झारखंड सरकार मुख्य उद्देश्य राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाना है। इस दौरान मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वच्छता कुजूर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सुरेश कुमार कोड़ा, जिला समन्वयक पायल महांती पिंटू पटनायक आदि उपस्थित थे।

शहीद रघुनाथ महतो को लेकर एसडीओ चांडिल व कुड़मी समाज के बीच विवाद सुलझा

प्रभात मंत्र संवाददाता

चांडिल : शहीद रघुनाथ महतो को लेकर एसडीओ चांडिल और कुड़मी समाज के बीच विवाद का गुरुवार को निपटारा हो गया। चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा ने अनुमंडल कार्यलय में वार्ता के लिए समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया। जिसमे आदिवासी कुड़मी समाज के केन्द्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो और कुड़मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र महतो के नेतृत्व में कुड़मी समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसडीओ से बैठक कर वार्ता किया जिसमे प्रमुख तीन मांगो को रखा गया। मांगो में से पहला सरकारी पत्र (पत्रांक स0 485) में बदलाव कर शहीद

रघुनाथ महतो का नाम सम्मानपूर्वक लिखा जाए। तथा आवेदन देने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई।एवं बैठक में उपस्थित कुड़मी समाज के समक्ष माफ़ी मांगे। इस दौरान हरमोहन महतो ने कहा कि सामाजिक समरस्ता को बचाने के लिए साबुत और दस्तावेजों के साथ बैठक कर विवाद को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए कुड़मी समाज तैयार है। समाज से अपील किया कि आगामी 5 अप्रैल को बूट पड़सा घुटियाडीह जन्म स्थान में हरमोहन महतो के नेतृत्व में भारी जनसमूह के साथ श्रंद्धाजलि अर्पित किया जाएगा। एसडीओ ने अपनी गलती मानते हुए पत्र में बदलाव कर शहीद रघुनाथ महतो का नाम सम्मानपूर्वक लिखा गया। मौके पर दिनेश महतो, देवासिष महतो, दीपक महतो, भूपेन महतो, सुकुमार महतो, तपन महतो, गुरूपडो महतो, संदीप महतो, प्रशांत महतो, सीताराम महतो, बिष्णु देव महतो, मनोज महतो, बाजिनाथ महतो, सुभाष महतो, आनंद महतो, धनंजय महतो, सुसेन महतो, संदीप महतो, सुब्रोतो महतो, रतिकांत महतो, सुखदेव महतो, अशोक महतो,सोमू महतो, उमापड महतो, दयामय महतो, राजेश महतो, विकाश महतो,विनोद महतो आदि उपस्थित थे।

दंडाधिकारी के नेतृत्व में हुआ वाहन जांच व जागरुकता कार्यक्रम

प्रभात मंत्र संवाददाता

ईचागढ़ : सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक सहित चौक चौराहों पर गुरुवार को दंडाधिकारी सह सीओ भोलाशंकर महतो के देखरेख में विधी व्यवस्था को लेकर वाहन जांच, एंटी क्राइम सह सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। नियोजन व स्थानीय निति के खिलाफ विधान सभा घेराव के मद्देनजर विधि व्यवस्था के लिए क्षेत्र में दंडाधिकारी नियुक्त कर पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट, लाइसेंस, सीट वेल्ट आदि का जांच किया गया। वहीं डीक्की आदि का भी

तलाशी लिया गया। बीना हेलमेट, लाइसेंस वालों को थाना प्रभारी गौरव मिश्रा व दंडाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। वहीं दंडाधिकारी सह सीओ भोलाशंकर महतो ने कहा कि विधानसभा घेराव को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ वाहन जांच व सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि आज चेतावनी देकर छोड़ा गया,मगर आगे से सड़क सुरक्षा नियमों के खिलाफ वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

प्रशांत पोद्दार के नेतृत्व में भाजपा सोनारी शामिल हुआ नितिन गडकरी के शिलान्यास कार्यक्रम में

प्रभात मंत्र संवाददाता

जमशेदपुर : भाजपा सोनारी मंडल के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष प्रशांत कुमार पोद्दार के नेतृत्व में आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के गोपाल मैदान में आयोजित डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके पूर्व सभी कार्यकर्ता सोनारी राम मंदिर अटल चौक में इकट्ठा हुए तथा वहां से आयोजन स्थल पहुंचे. सभी अपने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर नरेन्द्र मोदी व नितिन गडकरी, विद्युत वरण महतो, रघुवर दास,जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चल रहे थे. इस मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष प्रशांत कुमार पोद्दार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मिडिया प्रभारी सोनू ठाकुर,जिला कार्यसमिति सदस्य श्रीमती रीता सिंह, महामंत्री नारायण प्रसाद,किशोर साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष विरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष पूरण वर्मा उपाध्यक्ष संजय रजक, उपाध्यक्ष सतेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, मंत्री शंकर सिंह,मंत्री

रासबिहारी प्रसाद, मंत्री सुजीत आदित्य, मंत्री नरेश प्रसाद,मिडिया प्रभारी निरज प्रसाद, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल तिवारी, एस टी मोर्चा के अध्यक्ष शुशील हेसा,अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल सिंह, आई टी सेल प्रभारी रमेश प्रसाद साहू, काजल मुखर्जी, कार्यालय मंत्री बिराज दै, महिला मोर्चा के महामंत्री सरिता लाल, उपाध्यक्ष नेहा साहू, कबिता मुंडा,मंत्री अनिता देवी,सविता देवी,युवा मोर्चा के महामंत्री दिपक नाग आदि उपस्थित थे।

डिमना लेक के पास से अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव बरामद

प्रभात मंत्र संवाददाता

पटमदा : बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाडीह गांव में गुरुवार की सुबह डिमना लेक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव देखे जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी आदमी का शव डिमना लेक से फदलोगोड़ा काली मंदिर जाने वाली रास्ते के किनारे झाड़ी के अंदर फेंका हुआ था। शव कई दिनों पुराना होने की वजह से उससे दुर्गंध फैल गया है। दुर्गंध मिलने से ही लोगों को शक हुआ और पास जाने पर ही कंकाल की तरह दिखने वाला अधजले शव पर लोगों की नजर पड़ी। इस संबंध में स्थानीय निवासी राजेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि इसकी सूचना बोड़ाम थाना प्रभारी को दी जा चुकी है और पुलिस के आने एवं छानबीन से ही मामले में खुलासा हो सकता है। इस संबंध में थाना प्रभारी धनंजय बैठा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मिर्जाडीह से एक अज्ञात शव बरामद करते हुए पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि शव इस कदर जला हुआ कि महिला या पुरुष का शव है पता नहीं चल पा रहा है।

नारायणा आईटीआई में रोजगार सृजन केंद्र का हुआ उद्घाटन

प्रभात मंत्र संवाददाता

गम्हरिया : स्वदेशी जागरण मंच, सरायकेला- खरसावां ज़िला समिति की ओर से नारायणा आईटीआई कॉलेज में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संघर्षवाहिनी प्रमुख बंदे शंकर सिंह ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। वर्तमान में किसी भी देश के लिए अपने सारे युवाओं को रोजगार देना संभव नही है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस कारण जिस कार्य को दस

व्यक्ति मिलकर किया करते थे, वह कार्य मशीन के माध्यम से एक व्यक्ति ही कर ले रहा है। इसलिए समाज मे स्वरोजगार की भावना उत्पन्न करना हर सामाजिक संगठन का दायित्व बनता है। कहा कि बीते वर्ष 12 जनवरी को देश को स्वावलंबी बनाने हेतु स्वदेशी जागरण मंच ने 18 संगठनों के सहयोग से स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुवात की जिसके तहत पूरे देश में रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना हो रही है। उक्त केंद्र के माध्यम से हम युवा वर्ग को स्वरोजगार हेतु पथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन व्यक्तित्व मंच के जिला संयोजक रमेश कुमार ने किया। इस मौके पर मंच के प्रांतीय कार्यसमिति सदस्य जटाशंकर पांडेय, विभाग संयोजक राज कुमार साह, सह संयोजक अमित मिश्रा, ज़िला सह संयोजक प्रमोद राय, जिला समन्वयक अजित सिंह, निखिल कुमार, अमित सिंह देव, रश्मि साहू, विजय कुमार, डीके तिवारी, सुनीता मिश्रा, प्रमोद पाठक के अलावा कई सदस्य उपस्थित थे।

दलमा में पशुपालन प्रशिक्षण का आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

चांडिल : चांडिल प्रखंड अंतर्गत दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी माकूलाकोचा म्यूजिम हॉल में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग केम्पा अंतर्गत अन्य शर्तों के अधीन दलमा से सटे निकट ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को हरेक तरह की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एवं माइक्रो प्लान के तहत दलमा क्षेत्र के गांव में कई तरह की विकास की कार्य कर रहे हैं । गुरुवार को गाय, बकरी, सूअर आदि पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बाँधडीह, माकूलाकोचा, चाकुलिया के ग्रामीण ने भाग लिया।इस दौरान

प्रशिक्षण राजेश कुमार ने गाय, बकरी, मूर्गी एवं सूअर पालन को बढ़ावा देते हुए मौसमी बीमारी के निदान के उपचार भी बताए। उन्होंने कहा कि दलमा क्षेत्र के ग्रामीण को सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि की प्रशिक्षण के सहायक कारोबार शुरू करने के लिए फ्री दी जा रही है। सहायक कारोबार अपनाने के लिए सरकार भी आर्थिक मदद मुहैया करवा रही है। इसलिए दलमा क्षेत्र के इच्छुक ग्रामीणों को अब इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर दलमा फॉरेस्टर प्रभारी सागर श्रीवास्तव, वनरक्षी अचिंत कुमार राणा, हरी प्रशाद अग्रवाल, ग्रामीण जगदीश चंद्र महतो, मनोहर हांसदा, दिनेश महतो, आदि उपस्थित थे।

सिने तारिका माधुरी दीक्षित की माता स्नेहलता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

जमशेदपुर : गुरूवार को सुंदरनगर स्थित चेशायर होम में सिने तारीका माधुरी दीक्षित की माता स्नेहलता दीक्षित को श्रद्धांजलि देने हेतु शोक (प्रार्थना) सभा और श्राद्ध भोज का आयोजन किया गयां। स्नेहलता दीक्षित की चित्र पर फूल चढ़ा कर नम आखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी। प्रार्थना सभा में चेशायर होम के विशेष बच्चे, सिस्टर, आस-पास की ग्रामीण महिलाओं समेत थर्ड जेंडर भी शामिल थे। इस प्रार्थना

सभा का आयोजन बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से चर्चित पप्पू सरदार ने किया था। मौके पर पप्पू सरदार ने कहा कि 12 मार्च रविवार को माता स्नेहलता दीक्षित का निधन हो गया था। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी वर्ली के श्मशान घाट पर कर दिया गया। इसलिए वे अंतिम संस्कार में शामिल नही हो पाये। माधुरी का भाई होने के नाते मैंने दुःख की घड़ी में आज अपना फर्ज निभाया हैं।

इंसानियत और जरूरतमंदों के मदद की सीख देता है रमजान

रमजान का महीना तमाम इंसानों के दुख दर्द और भूख प्यास को समझने का महीना है

आरिफ वकार@प्रभात मंत्र

बड़कागांव : रमजान इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का नौवां महीना होता है। यह महीना इस्लाम का सबसे पवित्र महीना है। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब के जरिए कुरान उतारा गया। रमजान के महीने को तीन हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में दस-दस दिन आते हैं। हर दस दिन के हिस्से को आशरा कहते हैं जिसका मतलब अरबी में 10 है। कुरान पाक के दूसरे पारा के आयात नंबर 183 के मुताबिक शारीरिक रूप से स्वस्थ्य सभी बालिग औरत और मर्द पर रमजान का रोजा फर्ज है। रमजान में रोजा नमाज और कुरान की तिलावत के साथ जकात और फितरा (दान और चैरिटी) देने का भी बहुत महत्व है। बुधवार को चांद नहीं दिखाई देने के बाद गुरुवार को पहला तरावीह का नमाज और शहरी के लिए लोग तैयारी करने लगे। शुक्रवार को रमजान का पहला रोजा है। रोजेदार रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह की इबादत और रोजे रखने वाले पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस वर्ष रोजा लगभग 14 घंटे का होगा और रोजेदार गर्मी में भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करेंगे। गर्मी में लगभग 14 घंटे लंबा रोजा मुस्लिमों का इम्तिहान लेगा। इस्लाम धर्म के मान्यताओं के अनुसार रमजान के बरकत वाले पवित्र महीने में अल्लाह रोजेदारों पर अपनी रहमत की बारिश करता है। यह महीना भाईचारे और इंसानियत का पैगाम भी देता है। रोजा सिर्फ दिन भर भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि रोजा इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाता है। हर तरह के बुरे और गलत काम से बचना है। इसका मतलब हमें हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के कामों को नियंत्रण में रखना है। इस मुबारक महीने में किसी तरह के झगड़े या गुस्से से ना सिर्फ मना फरमाया गया है बल्कि किसी से गिला शिकवा है तो उससे माफी मांग कर समाज में एकता कायम करने की सलाह दी गई है। वहीं रोजा गरीब भाई बहनों से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करता है। भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजान का महीना तमाम इंसानों के दुख दर्द और भूख प्यास को समझने का महीना है ताकि रोजेदारों में भले बुरे की समझने की शक्ति उत्पन्न हो। इस दौरान गरीब और मजलूम की मदद करना भी रमजान की आदतों में से एक है। इसमें जरूरतमंदों की मदद करना इस्लाम मजहब का संदेश है।

क्या है सेहरी और अफतार?

रमजान के पवित्र महीने में रात के आखिरी पहर और सूरज निकलने से पहले तक खाने पीने को शहरी कहते हैं। शहरी का समय खत्म होने पर कुछ भी खाया पिया नहीं जा सकता। शाम को सूर्य डूबने पर रोजा खोला जाता है इसे अफतार कहते हैं अफतार से शहरी तक खाने पीने की छूट रहती है।

क्या है फितरा और जकात

इस्लाम में रमजान के पवित्र महीने में हर हैसियत मंद मुसलमान पर जकात देना जरूरी बताया गया है। पूरे साल की आमदनी में जो बचत होती है उसका 2.5त्न हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाता है जिसे जकात कहते हैं। यानी अगर किसी मुसलमान के पास तमाम खर्च करने के बाद ?100 बचता है तो उसमें 2.5 रुपए किसी गरीब को देना जरूरी होता है। यूं तो जकात पूरे साल में कभी भी दिया जा सकता है लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर रिटर्न फाइल करने की तरह ज्यादातर लोग रमजान के पूरे महीने में ही जकात निकालते हैं। मुसलमान इस महीने में अपनी पूरी साल की कमाई का आकलन करते हैं उसमें से 2.5 फीसदी दान करते हैं। असल में ईद से पहले यानी रमजान में जकात अदा करने की परंपरा है यह जकात खासकर गरीबों, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों या किसी बीमार व कमजोर व्यक्ति को दी जाती है फितरा वह रकम होती है जो खाते पीते साधन संपन्न घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देते हैं। ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना जरूरी होता है। इस तरह साधन संपन्न लोगों के साथ गरीब जरूरतमंदों का रोजा खुशहाली के साथ संपन्न हो जाता है। फितरे की रकम भी गरीबों, विधवाओं, यतीमो और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। इस सब के पीछे सोच यही है कि रमजान के महीने में और ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे क्योंकि यह खुशी का दिन है

क्या है तरावीह की नमाज?

रमजान के पवित्र महीने में रात की नमाज यानी इशा नमाज़ के बाद सामूहिक नमाज इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज़ 20 रकात की होती है। इस नमाज में इमाम कुरान की तिलावत करते हैं और पीछे नमाज पढ़ने वाले कुरान की तिलावत को सुनते हैं। पूरे रमजान में एक खत्म कुरान को सुनना सभी मुसलमान के लिए आवश्यक है। तरावीह की नमाज़ सभी मुसलमान मर्द और औरत पढ़ते हैं

रोजे का है वैज्ञानिक महत्व

वैज्ञानिक दृष्टि से रोजा रखने पर शरीर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोजा रखने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शरीर मजबूत होता है। रोजा रखने से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड का स्तर कम होता है जिससे डायबिटीज का दुष्प्रभाव, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना कम होती है। रोजे में पाचन तंत्र को आराम मिलने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। रोजे के दौरान या बाद में गुलकोज के भंडार खत्म होने के बाद शरीर के लिए ऊर्जा का अगला स्रोत वसा बन जाता है। जब शरीर से वसा कम होना शुरू होता है तो इस से वजन घटता है, कोलेस्ट्रोल की मात्रा घटती है और यह डायबिटीज के जोखिम को भी कम करता है।

संपादकीय

बजट का शुद्धिकरण

यह मजमून महज गिले-शिकवे के नहीं, बल्कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था की चिंताएं हैं और होनी भी चाहिएं। सुक्खू सरकार के बजट पर आस्तीन चढ़ाकर विपक्ष जो पूछ रहा है, उसका लोकतांत्रिक महत्त्व तो समझ आता है, मगर तोहमतों के सौदे पर सत्ता का विश्लेषण केवल एकतरफा आलोचना भी तो नहीं। हिमाचल की राजनीति में समाज की व्याख्या का एक निर्मम चित्रण यह भी है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष, चुनावी हार-जीत के पहरों में सूबेदार चुने जाते रहे हैं। यानी बजट की उम्मीदों में राज्य कम सोचता है, जबकि राजनीति इतना सोच लेती है कि समाज को बरखुरदार कैसे बनाया जाए। विडंबना यह है कि बजट की उधेड़बुन में विपक्ष का राग सिर्फ यह है कि कांग्रेस की गारंटियों में कितना झूठ व कितना फरेब रहा, जबकि होना यह चाहिए कि आय के सीमित स्रोत में राज्य की आर्थिक जद्दोजहद में कहां फिजूलखर्ची हो रही है। उदाहरण के लिए हिमाचल के कुल 23 सार्वजनिक उपक्रमों में 13 अगर 4902 करोड़ का घाटा बटोर चुके हैं तो ऐसी आर्थिक अस्थियों को ढोने से कैसे निजात पाई जा सकती है। कमोबेश सरकारें तो पारियां खेलती हुई राजनीतिक नफे-नुकसान की परिभाषा में सियासी लाभार्थी चुन कर भी, नए संस्करण में पारंगत हो जाती हैं, मगर जनता के लिए यही सबब सिर्फ चुनावी फेहरिस्त बन कर रह जाता है। वह तो अपने गांव में कभी सड़क के गड्ढों में मुंह छिपाती है, तो कभी खेत के विराम में शरारती बंदरों का उत्पात देखती है। ऐसे में क्या सदन की बहस वास्तव में जनता की आवाज बन रही है या विपक्ष को केवल यही रंज रहेगा कि कांग्रेस ने गारंटियां बताकर सत्ता का धन लूट लिया। क्या हिमाचल की जनता मूर्ख है जो हर बार सरकारों की अदला-बदली कर देती है और बाद में सरकार बनने पर बदला-बदली शुरू हो जाती है। बजट की बहस में विपक्ष का अनुसंधान केवल आंकड़ों की धज्जियां उड़ाने तक सीमित रहेगा या इसके भी सार्थक और निरर्थक फैसलों की दलीलें बताएंगी कि प्रदेश की आर्थिक हवाएं छीनी किसने। बेशक कांग्रेस की कई गारंटियों से समाज असहमत दिखाई देता है, लेकिन जनता तो भाजपा की सत्ता से उस समय भी हतप्रभ थी, जब बिना किसी मांग के महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में आधा किराया देने की घोषणा कर दी थी। क्या ये प्रदर्शन सियासी घूस नहीं या समाज को इतना कमजोर नहीं कर रहा कि वह प्रदेश की आर्थिक चिंताओं के बावजूद अपनी औकात को हार रहा है। किसी भी नागरिक ने यह तो नहीं कहा था कि डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली आपूर्ति को मुफ्त कर दिया जाए या यह कौनसी प्रतिस्पर्धा जो भाजपा के डेढ़ सौ यूनिट के मुकाबले तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली देकर कांग्रेस सरकार की उदारता से प्रदेश के खजाने का भला करेगी। दूसरी ओर जनता यह जरूर चाहेगी कि घर में लगा बल्ब जलने की गारंटी मिले। जाहिर है सरकारों का बजट आम नागरिक के बजट से भिन्न होता है। अगर नागरिक को भी सरकार की तरह बजट बनाने की गारंटी कोई भी सरकार दे दे, तो यकीन मानें सत्ता स्थायी हो जाएगी, लेकिन तब न जवाबदेही बचेगी और न ही कोई सवाल रहेगा। इसलिए जब सरकारें ऋण उठा कर मुफ्त में बांट रही होती हैं, तो कहीं मेहनतकश किसान का हल चीख रहा होता है। ऋण उठाती सरकारों के अंकगणित में फंसी बेरोजगार पीढ़ी तब दुआ देती होगी या अपनी पढ़ाई पर शर्मिंदा होती होगी। हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र अब विपक्ष और सत्ता का आमना-सामना है, लेकिन आम नागरिक से भिन्न सियासी पीढियां क्या ईमानदारी से गुफ्तगू कर रही हैं। सवालों की बाढ़ में सदन का चरित्र आखिर बचाव किसका कर रहा। क्या विपक्षी तोहमतों के बीच बजटीय भाषण कुख्यात हो जाएगा या आंकड़ों के दस्तूर में सत्ता हमेशा नागरिक देनदारी में राज्य को कंगाल बनाती रहेगी। अहम और वहम के बीच राजनीति तो हो सकती है, लेकिन तरक्की के मुकाम पर आम हिमाचली के लिए बजट के वे हिस्से कामयाब हो सकते हैं, जहां कर्ज पर सार्थक बहस हो या सरकार के आकार को कम करते हुए फिजूलखर्चियों पर अंकुश लगे। क्यों नहीं आम नागरिक यह उम्मीद करे कि एक दिन सरकारें आर्थिक वास्तविकताओं के यथार्थ में कुछ कड़े फैसले लेने का साहस दिखाएंगी। आखिर राज्य की आय बढ़ाने के लिए आज भी नागरिकों को शराब ही तो पिलानी पड़ रही है। ऐसे में क्या हम शराबियों का धन्यवाद करें जिन्होंने जहर के घूंट पीकर इस बार बजट का राजस्व चालीस प्रतिशत बढ़ा दिया या यह सोचें कि मुफ्त की बिजली या सरकार की फिजूलखर्ची में अपने लिए सौगातें न ढूंढे। जो हिमाचल सुरक्षित यात्रा के लिए निजी वोल्वो बसों को अधिमान दे रहा है या कांगड़ा एयरपोर्ट को व्यस्त बना रहा है, क्या उसे पचास फीसदी महिला किराए की छूट से एचआरटीसी का बेड़ा गर्क करना ही होगा।

कमोबेश सरकारें तो पारियां खेलती हुई राजनीतिक नफे-नुकसान की परिभाषा में सियासी लाभार्थी चुन कर भी, नए संस्करण में पारंगत हो जाती हैं, मगर जनता के लिए यहीं सबब सिर्फ चुनावी फेहरिस्त बन कर रह जाता है। वह तो अपने गांव में कभी सड़क के गड्ढों में मुंह छिपाती है, तो कभी खेत के विराम में शरारती बंदरों का उत्पात देखती है। ऐसे में क्या सदन की बहस वास्तव में जनता की आवाज बन रही है या विपक्ष को केवल यही रंज रहेगा कि कांग्रेस ने गारंटियां बताकर सत्ता का धन लूट लिया। क्या हिमाचल की जनता मूर्ख है जो हर बार सरकारों की अदला-बदली कर देती है और बाद में सरकार बनने पर बदला-बदली शुरू हो जाती है।

कुछ अलग

किसानों के अच्छे दिन

किसानों की महापंचायत भी हुई और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा 'शून्य' रहा। किसानों की उम्मीद भी 'शून्य' बताई जा रही है। बीती जुलाई में जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी बैठक भी संयोगवश बुलाई गई थी। फिलहाल कमेटी ने 18 राज्यों से पूछा है कि किसानों की स्थिति क्या है? 19 विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगे हैं कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कैसे तय किया जा सकता है, जो उसे लाभकारी साबित हो? एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पर अभी तक न तो विमर्श किया गया है और न ही यह कमेटी के एजेंडे में शामिल है। अलबत्ता निष्क्रिय कमेटी ने आश्वस्त किया है कि जून, 2023 में एक रपट भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 32 संगठनों के हजारों किसान जुटे, महापंचायत का नाम दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जो खुद छोटे किसान भी हैं, से 15 किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात और बातचीत की। यह संवाद 22 जनवरी, 2021 के बाद संभव हुआ है। भारत सरकार और किसानों के बीच लंबे दो साल तक संवाद क्यों नहीं हो सका, यह सवाल चिंतित भी करता है। चूंकि एमएसपी का सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा आज भी अनसुलझा है, सरकार और कमेटी दोनों ही खामोश हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में प्याज किसानों ने मीलों लंबा मार्च निकाला। एक किसान के 512 किलोग्राम प्याज के दाम मात्र 2 रुपए मिले। एक किसान 1457 किग्रा बैंगन मंडी में बेचने आया, तो उसी से 125 रुपए वापस मांगे गए। यानी फसल की कोई कीमत नहीं, बल्कि पैसे किसान के खाते में निकाल दिए। आलू 1-2 रुपए प्रति किलो के भाव से रुल रहा है। चीनी मिलों की चीनी किस भाव बाज़ार में बिकेगी, सरकार यह घोषणा तो तुरंत कर देती है, लेकिन गन्ने का सहयोग मूल्य तय करने में टालमटोल करती रहती है। आखिर देश में किसानों के लिए यह कौन-सी अर्थव्यवस्था है? क्या सरकारें किसानों को खेती से विमुख कर शहरों में मज़दूर बनाने पर आमादा हैं? विश्व बैंक की यही योजना है। आखिर एमएसपी ऐसा क्या मुद्दा है, जो करीब 50 सालों से अनसुलझा रहा है? बार-बार दोहराया जाता रहा है कि सरकार के ही आंकड़े हैं कि किसान की औसत आय 27 रुपए रोज़ाना है। नीति आयोग ने भी लगभग यही माना है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक और विडंबनापूर्ण स्थिति है। किसान की माहवार औसत आमदनी आज भी 10,000 रुपए से कम है। इस आमदनी में मज़दूरी का मेहनताना भी शामिल है। क्या सरकार को एहसास नहीं होता कि उसी के 'अन्नदाता' के आर्थिक हालात बदतर हैं? प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे में तो नाकाम रहे हैं। किसानों को दी जाने वाली 6000 रुपए सालाना की सम्मान-राशि उनकी औपचारिक आय का पर्याय या विकल्प नहीं हो सकती। फसल बीमा योजना भी कंपनियों के मुनाफे का बंदोबस्त साबित हुआ है। कमोबेश ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, ताकि 'अच्छे दिनों' के उजाले स्पष्ट दिखने लगें। एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने और उसके दायरे में अधिकतम फसलों को लाने का फैसला ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

बर्बादी से बढ़ता जल संकट, दुनिया की 1.6 अरब आबादी को नहीं मिल रहा पीने का शुद्ध पानी

जल संकट का असर अब दुनिया के तमाम देशों में देखा जाने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1.6 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से परेशानियां, बीमारियां, पलायन, हिंसा, सामाजिक कटुता और दूसरी विकृतियां बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के मुताबिक झीलों, जलधाराओं और मानव निर्मित जलाशयों से ताजा जल की तेजी से निकासी के साथ-साथ विश्व भर में आसन्न जल तनाव और दूसरी समस्याएं बढ़ रही हैं। विश्व स्तर पर देखें तो जल का 69 प्रतिशत कृषि में, 23 प्रतिशत उद्योगों में और महज 8 प्रतिशत घरेलू कार्यों में इस्तेमाल होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल संकट की वजह यहां जरूरत से ज्यादा भूजल का दोहन है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भारत में सिंचाई के लिए हर साल 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, इस वजह से देश के कई इलाकों में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। गौरतलब है कि भारत में भूजल का अट्ठासी प्रतिशत सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौ प्रतिशत घरेलू इस्तेमाल में और उद्योगों में लगभग तीन प्रतिशत जल इस्तेमाल होता है। भारत में जल तनाव (मांग से बहुत कम उपलब्ध होना) और जल संकट से बढ़ने वाली समस्याएं तमाम कवायदों के बावजूद घटने के बजाय, बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलशक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और 2020 से 'जल जीवन मिशन' के जरिए जल संबंधी जरूरतें पूरी करने का अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रहीं जल परियोजनाएं कितनी कारगर हैं, यह इस बात से पता चलता है कि हजारों गांवों में आज भी लोगों को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे-जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है और ऋतु-चक्र में बदलाव हो रहा है, वैसे-वैसे पानी की किल्लत से परेशानियां बढ़ रही हैं। विश्व में बढ़ते जल संकट के कारण यों तो अलग-अलग हैं, लेकिन पिछले बीस सालों में धरती के बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों का असर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऋतु-चक्र में आए बदलाव के चलते 'अल-नीनो' का असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। इससे जहां बरसात कम हो रही है, वहीं गर्मी भी बेतहाशा पड़ती है। इससे पानी की खपत खेती-किसानी और घरेलू इस्तेमाल में ज्यादा होती है। सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पानी की बर्बादी, दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। मसलन, कृषि-क्षेत्र में जल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा होता है, किसान उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं। गौरतलब है कि पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में धान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और दूसरे राज्यों में गेहूं तथा कपास की खेती को किसान प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से कई राज्यों में भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि नलकूप से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद किसान ऐसी फसलें उगाते हैं, जिनमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में केला और गुजरात में कपास की उपज से मुनाफा कमाना, इसी सोच का परिणाम है। इसी तरह शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के भूजल के अकूत दोहन से भी कई क्षेत्रों में जल संकट गहराने की खबर है। पानी की किल्लत भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इस तरह असर डाल रही है कि यह झगड़े-फसाद की वजह बन रहा है। जानकार कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के एकाधिकार को लेकर हो सकता है। जल संकट सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संतुलन, जैव विविधता को भी प्रभावित करने लगा है। विस्थापन, बीमारियों का प्रसार, समय की बर्बादी, अधिक श्रम की जरूरत और बिजली का उत्पादन और खपत भी जल संकट की वजह से बड़े पैमाने पर देखा जाने लगा है।

महाराष्ट्र में कई लोगों ने दूसरी शादी (जिसको 'वाटर वाइफ' कहते हैं) इसलिए की कि दूसरी पत्नी पानी लाने का काम करे और पहली पत्नी घरेलू कार्य निपटा सके। अगर ऐसे हालात दूसरे राज्यों में होंगे तो संभव है, महाराष्ट्र का यह प्रयोग दूसरे राज्य के लोग भी करने लग जाएं, जो आगे चलकर कई सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे महंगी बिकने वाली, लेकिन अधिक पानी सोखने वाली फसलों के प्रति किसानों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। मगर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकल्प में किसान जिन कम पानी लेने वाली फसलों को उगाएं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हक में हो, ताकि उन्हें उन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए बनाई गई नीति बेहद फायदेमंद है, लेकिन उन मोटे अनाजों की पैदावार, उनकी बिक्री से होने वाली आय इतनी जरूर होनी चाहिए, जिससे किसान खुश होकर उन्हें अपने फसल-चक्र में शामिल कर लें। पानी की बर्बादी गांव, कस्बे और शहर हर जगह रुकनी चाहिए। साथ ही, वर्षा जल का संचय करने के लिए हर परिवार को जागरूक और प्रोत्साहित करना जरूरी है। जल संकट बढ़ने की एक वजह कारखानों के जहरीले पानी को पाइप के जरिए जमीन के अंदर पहुंचाना भी है। भारत में तीन लाख से अधिक छोटे-बड़े बूचड़खाने हैं, जिनमें प्रतिदिन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। इसी तरह दूसरे देशों में भी बूचड़खानों के कारण करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। उन देशों में भी, जहां पानी दूध और पेट्रोल से भी मंहगा है। भारत में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को ऊंचे दाम देकर पानी प्राप्त करना पड़ता है। मतलब, पानी की यहां जो किल्लत पिछले बीस-पच्चीस सालों में पैदा हुई है, सरकार की गलत नीतियों के कारण है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भारत में सिंचाई के लिए हर साल 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है, इस वजह से देश के कई इलाकों में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। गौरतलब है कि भारत में भूजल का अट्ठासी प्रतिशत सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौ प्रतिशत घरेलू इस्तेमाल में और उद्योगों में लगभग तीन प्रतिशत जल इस्तेमाल होता है। भारत में जल तनाव (मांग से बहुत कम उपलब्ध होना) और जल संकट से बढ़ने वाली समस्याएं तमाम कवायदों के बावजूद घटने के बजाय, बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलशक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और 2020 से 'जल जीवन मिशन' के जरिए जल संबंधी जरूरतें पूरी करने का अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रहीं जल परियोजनाएं कितनी कारगर हैं, यह इस बात से पता चलता है कि ह जारों गांवों में आज भी लोगों को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है।

देश दुनीया से

स्वतंत्रता आंदोलन के जन नायक को नमन

महान क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक का जन्म 28 सितम्बर, 1907 को बंगा गांव लायलपुर पंजाब में हुआ। उस समय उनके पिता किशन सिंह और ताऊ व चाचा स्वतंत्रता आन्दोलन मं संलिप्त होने के कारण जेलों में बन्द थे। उसी दिन वे जेल से मुक्त होकर आए। अतः दादी ने बालक का नाम भाग्यवान भगत सिंह रख दिया। दादी का कहना था आज इस भाग्यवान ने इस परिवार को आजाद कराया है, आगे देश को आजाद कराएगा। परिवार आर्य समाजी था, इसलिए वैदिक परिवेश में लालन-पालन व प्रारम्भिक शिक्षा हुई। फिर डी.ए.वी. स्कूल में पढने हेतु प्रवेश लिया। एक दिन अपने खिलौने पिस्तौल को आंगन में गाढ़ रहे थे तो यह पूछने पर कि क्या कर रहे हो तो कहा बन्दूक का पेड़ लगा रहा हूं। इस पर जब बहुत सी बन्दूकें आएंगी तो साथियों को बांट दूंगा और अंग्रेजों को भगाकर देश को आजाद कराऊंगा। सन 1919 में गांधी जी के आन्दोलन से काफी प्रभावित हुए और जलसों में जाने लगे। 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याएं हुई। 12 साल का बालक अमृतसर जलियांवाला बाग में पहुंच गया। खून से रंगी मु_ी भर मिट्टी शीशी में भरकर घर ले आया, सुरक्षित स्थान पर रख दी और रोज पूजा करने लगा। सन 1921 में महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन में कूद पड़ा। चौरा-चोरी की घटना से प्रभावित होकर पढ़ाई के लिए डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर में प्रवेश ले लिया। लाहौर क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र था। दादी अपने पौत्र का विवाह शीघ्र करना चाहती थी। सगाई की तिथि निश्चित होते ही वह घर से भाग गए। उनका सम्पर्क चन्द्रशेखर आजाद तथा वाटुकेश्वर दत्त से हुआ। लाहौर नैशनल कॉलेज में उनका सम्पर्क यशपाल, सुखदेव, राजगुरू से हो चुका था। वे कलकत्ता गए और बम बनाने का कार्य करते रहे। वर्ष 1928 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। सन 1928 में साईमन कमीशन भारत आया। उसका सब जगह विरोध हुआ। लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। सांडर्स ने लाठीचार्ज किया। लाला जी घायल हो गए व 17 नवम्बर 1928 को शहीद हो गए। भगत सिंह ने इस मौत का बदला लेने की ठानी। भगत सिंह, राजगुरू, जय गोपाल व चन्द्रशेखर आजाद पुलिस दफ्तर पर पहुंच गए और सांडर्स को आते ही गोलियों से भून दिया। सारे शहर में पुलिस तैनात कर दी गई, भगत सिंह भेष बदल कर अंग्रेज सूट, टाई, सिगार सहित मेम व नौकर के साथ ट्रेन में सवार हो गए और दूर कलकत्ता पहुंच गए। असैंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होना था। योजना बनाई कि विरोध किया जाए। 18 अप्रैल, 1929 को असैम्बली में बम फैंका। बाटुकेश्वर दत्त ने भी बम फैंका व दोनों ने ऊपर की ओर गोलियां चलाई और नारा बोला 'इंकलाब जिन्दाबाद!' रिवालवर फैंककर स्वयं को गिरफ्तार कराया। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाए। 4 जून, 1929 को अदालत लगी। उन्होंने बयान दिया कि बम फैंकने का उद्देश्य सरकार के कान, आंख खोलना था। किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। जेल में क्रांतिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। अतः भूख हड़ताल की गई। भगत सिंह ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। एक पक्षीय फैसला हो गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह ने कहा था मेरी यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू को फांसी दी गई। इससे पहले सरदार अर्जुन सिंह, माता, पिता, चाची, भाई सब मिलने आए। उन्होंने मां को कहा, 'बेबे जी लाश लेने मत आना।' कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की मां रो रही है। फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ी। सुखदेव, राजगुरू अपनी-अपनी कोठरी से निकल कर आए और तीनों फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए।

23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू को फांसी दी गई। इससे पहले सरदार अर्जुन सिंह, माता, पिता, चाची, भाई सब मिलने आए। उन्होंने मां को कहा, 'बेबे जी लाश लेने मत आना।' कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की मां रो रही है। फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ी। सुखदेव, राजगुरू अपनी-अपनी कोठरी से निकल कर आए और तीनों फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए। तीनों गले मिले और फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। निर्जीव शरीरों को बोरियों में भरा गया व सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल छिडक आग लगा दी।

नागरिक बोध

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के विकल्प पर केंद्र से मांगा डाटा

गुनहगारों की फांसी अंतिम सत्य है।मौत की सजा देने के लिए सुप्रीम ने अन्य विकल्प के तौर पर केंद्र से जवाब मांगा है। कमेटी बनाने के संकेत दिए गए है। इस बात पर विचार करेगा कि फांसी की सजा में दर्द रहित कोई विकल्प अपनाया जाए तो गुनहगारों को सरलतापूर्वक सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमनी से कहा कि हमे विभिन्न तरीकों से होने वाली पीड़ा पर अध्ययन दे कि फांसी के विकल्प पर विचार किया जाए। दुनिया ने 97 देशो में मौत की सजा नही है। अलग अलग देशो में जहाँ गुनहगारों को फांसी दी जा रही है, वही पर इंजेक्शन और सिर कलम करने का नियम है। भारत जैसे देश मे फांसी की सजा पर फंदे से लटका कर अंतिम विकल्प पूर्ण किया जाता है। कमेटी बनाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सजा पाए अभियुक्त को कमसे कम पीड़ा पहुंचे।एजीने स्पष्टता करते हुए कहा कि उनको कोई ऐतराज नही है इस पर केंद्र का अभिगम अंतिम निर्णय होगा। न्यायाधीश ने कहा कि यह तरीका सटीक बैठता है तो फांसी को असवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सवाल करते हुए कहा कि फांसी देने से कितना दर्द होता है? आधुनिक विज्ञान और फांसी की सजा पर क्या रुख है और देश विदेश में मौत की सजा का कोई विकल्प का डाटा है? इन प्रश्नों के साथ केंद्र से सवाल करते हुए विकल्प के तौर पर जवाब मांगा है। वकील ने दलील दी और कहा कि किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी भी गरिमा होनी चाहिए। क्योंकि जिसका जीवन ही समाप्त हो रहा है उसको दर्द नही होना चाहिए।सुप्रीम के इस तथ्यात्मक सवालों का सरकार के पास विचाराधीन है। आगामी दिनों में इस विकल्प का सही और सटीक फैसला का इंतजार सुप्रीम कोर्ट को है और इसके लिए जनता भी जानना चाहती है कि सरकार का अभिगम राजनैतिक प्रेरित ही है या हमदर्दी के तौर पर भी देखा जा सकता है।

प्रभात मंत्र
e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com
चतरा/लातेहार
रांची, शुक्रवार, 24 मार्च 2023| पेज 7

संक्षिप्त खबरे

शिविर का किया गया आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

बारियातु : लातेहार उपायुक्त भोर सिंह के निर्देशानुसार जिला भूअर्जन कार्यालय के द्वारा टोरी शिवपुर रेलमार्ग के रैयतो को मुआवजा देने के लिए बारियातु प्रखण्ड अंचल कार्यालय सभागार में 25 मार्च शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी दीपाली भगत ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला भु-अर्जन पदाधिकारी लातेहार के ज्ञापांक संख्या 79/ 14 मार्च 2023 के आलोक में परियोजना टोरी- शिवपूर रेलवे लाइन निर्माण में अधिग्रहण ग्राम बनवार,अमरवाडीह उर्फ फुलबसिया, चेडा, व मनातु के भु-रैय्यतों को मुआवजा भुगतान को लेकर बारियातु अंचल सभागार में 25 मार्च दिन शनिवार को 11 बजे शिविर का आयोजन किया गया है। संबंधित भु रैय्यत अपने अपने भुमि का खतीयान, केवाला की छाया प्रति व हाल का रसीद, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, वंशावली, दो रंगीन फोटो, शपथ पत्र का मुल प्रति लेकर शिविर में पहुंचने का अपील किया।

रामनवमी, सरहुल व रमजान के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सम्पन्न

- पूर्व निर्धारित रुट के अनुसार ही जुलूस निकाला जाएगा : उपायुक
- सोशल मीडिया पर आपतिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी : एसपी

प्रभात मंत्र संवाददाता

चतरा : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में रामनवमी, सरहुल एवं रमजान को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई ।बैठक में उपस्थित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी, अखाड़ा के अध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य से प्रखण्ड स्तर पर किए गए शांति समिति कि बैठक की जानकारी ली गई। प्रखण्डवार अखाड़ों और संवेदनशील स्थानों की भी जानकारी ली गई। सभी ने बारी बारी से पूर्व में मनाये गए त्योहारों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। बैठक में विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी प्रखण्डो के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने स्तर से संवेदनशील स्थानों एवं अन्य स्थानों की निगरानी रखेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्व त्योहार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सभी धर्म के लोग सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारगी के साथ त्योहार मनायेंगे। उपायुक्त ने रामनवमी पर्व को लेकर आपसी सौहार्द एवं शांति पूर्ण तरीके से पर्व मनाने का अपील किया। यह पर्व आस्था तथा पवित्रता के साथ मनाया जाता है। उन्होने कहा कि सभी लोगों कि जिम्मेवारी है कि जिला में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार सम्पन्न करायें। भाईचारे के साथ त्योहार मनायें और दूसरों के लिए मिशाल पेश करें। प्रशासन विधि व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण रामनवमी सम्पन्न कराने के लिए हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। प्रशासन के लिए सभी व्यक्ति समान है। त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट, भ?काउ पोस्ट से बचे। साथ ही कहा कि जुलूस के लीडर एवं वोलनटिअर्स के नाम प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। जिससे किसी भी आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित लोगों से समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था संधारण किया जा सके। पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने कहा कि पूर्व वर्ष की भाँती इस वर्ष भी नियमानुसार पारंपरिक रूप से त्योहार मनाएं। सोशल मीडिया का मोनिटरिंग किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अफवाह, आपत्तिजनक पोस्ट एवं भड़काउ पोस्ट किए जाने पर संलिप्त लोगों के उपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि रूट वेरीफिकेशन के समय बिजली के तार पर ध्यान रखेंगे अगर कहीं पर विद्युत का तार लटकता हुआ पाया जाय तो उसे विद्युत विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दुरूस्त कराएंगे। वहीं सभी अखाड़ा के अध्यक्षों एवं सदस्यों को कहा गया कि सभी अपने अपने जुलूस निर्धारित रूट एवं समय पर ही निकालेंगे। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरिया सुधीर कुमार दास, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी समेत सभी अखाड़ों के अध्यक्ष एवं शांति समिति के सदस्य के साथ-साथ जनता के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नावाडीह सिंहठोकवा नदी में पुल निर्माण की आवश्यकता : ग्रामीण

बरवाडीह (प्रभात मंत्र संवाददाता): बरवाडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र चुंगरू पंचायत के नावाडीह से ग्राम हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन हेहेगडा को पहुंच में बड़ी बाधा के रूप में नावाडीह सिंहठोकवा नदी पर पुल का नहीं होना ग्रामीणों की बड़ी परेशानियों का शबब बना हुआ है। खासकर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा नदी पर पुल के निर्माण की मांग पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। लेकिन आज तक पुल निर्माण का सपना सपना ही बनकर रह गया है। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। बताते चलें कि नवाडीह से हेहेगड़ा तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत पूर्व में सड़क का निर्माण हुआ है पर नदी पर पुल का निर्माण कार्य नहीं होने से क्षेत्र का अधुरा रह गया है।

एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल

लातेहार (प्रभात मंत्र संवाददाता): जिला प्रशासन लातेहार द्वारा बुधवार को रेड क्रॉस सोसायटी परिसर मे कैमिकल डिजास्टर का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल मे एनडीआरएफ पटना की टीम, अग्निशमन विभाग लातेहार की टीम व स्वास्थ्य विभाग लातेहार की टीम शामिल रहीं।जिन्होंने संयुक्त रूप से आपात स्थित से निपटने के लिए कैसे राहत कार्य किया जाता है। इसे मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया।मौके पर मुख्य अतिथि डीडीसी अलोक शिकारी कच्छप ने बताया की एनडीआरएफ की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कराना जरूरी है। क्योंकि आपात स्थित कभी भी आ सकता है। उससे निपटकर आपात स्थित पर काबू पाया जा सकता है। मौके पर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर इमरान सिद्दीकी ने बताया की जिला प्रशासन के सहयोग से कैमिकल डिजास्टर को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस कार्य मे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती है। ताकि भविष्य मे इस प्रकार के आपात स्थित से निपटा जा सके। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार, एसीएमओ शंभू नाथ चौधरी एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्रेयांस कुमार,एम्बुलेंस चालक मोहम्मद गालिब, हॉस्पिटल मैनेजर नागेंद्र कुमार , एसआई आशुतोष वर्मा, गणेश पवार समेत 23 सदस्यीय टीम के अलावा अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी, डीडीसी आलोक शिकारी कच्छप, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर इमरान सिद्दीकी, जवान व एनसीसी के कैडेट्स मौजूद थे।

नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव को कार्यकर्ताओं ने माला पहना किया स्वागत

प्रभात मंत्र संवाददाता

सिमरिया : प्रखण्ड मुख्यालय के किसान भवन परिसर में राजद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव को माला पहना स्वागत किया। यह स्वागत समारोह कार्यक्रम प्रखण्ड अध्यक्ष गुड्डू आलम के नेतृत्व में की गयी। जहां प्रखण्ड के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव ने कहा कि मुझे जो दुबारा जिला का कमान दिया गया उसे मैं बखूबी निभाउंगा। सभी प्रखण्ड के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए पार्टी के लिए हर संभव कार्य करता रहूंगा। बारी बारी से सभी कार्यकर्ताओं ने माला पहना भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के उपरान्त पार्टी विकास की चर्चा पर जवाहर यादव ने 20 सूत्री अध्यक्ष वीरेंद्र यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रखण्ड पदाधिकारियों के बीच 20 सूत्री अध्यक्ष खुद अपना

पहचान बनाने में लगे रहते हैं। जिससे हम कार्यकर्ताओं में रोष है।जो पार्टी अनुशासन हीनता है। जबकि वरीय पदाधिकारियों के बीच निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन सिमरिया में 20 सूत्री अध्यक्ष द्वारा ऐसा न कर कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है। हलाकिं जिला अध्यक्ष ने बिच बचाव करते हुए आगे से सुधार करने की बात कही। मौके पर शारदा देवी, सुबोध पांडेय, नित्यानंद सिंह, अख्तर हुसैन, जवाहर यादव कयूम अंसारी, इख्लाकुर रहमान, रफीक अंसारी, नरेश यादव, विक्की कुमार माली, इस्लाम अंसारी, राजेश कुमार, अनवर मियाँ के अलावे दर्जनों लोग शामिल थे।

भगत सिंह के सपनों को साकार करना हमारा कर्तव्य : त्रिलोकीनाथ

प्रभात मंत्र संवाददाता

बरवाडीह : ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर मिडिल स्कूल पंचमुखी मंदिर से फ्लैग मार्च निकालकर भगत सिंह चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बाद इसके संकल्प सभा की शुरुआत क्रांतिकारी गीत भगत सिंह तुम जिंदा हो...गांव छोड़ब नाही...नई शिक्षा नीति का नया बना कानून आदि के साथ हुआ। सभा की अध्यक्षता आइसा के पलामू प्रमंडलीय प्रभारी रंजीत कुमार सिंह और संचालन जिला प्रभारी दानिश खान ने किया। सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में आइसा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते लुटा दिया। भगत सिंह का सपना था कि भारत शोषण मुक्त देश बने, जंहा कोई भेदभाव नहीं हो, देश में

भाईचारा व एकता कायम रहे।वीर भगत सिंह के सपनों को साकार करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का ट्रेंड बन चुका है। सरकार शोषण का नया जरिया बना दिया है। देश के आम संपति को कॉरपोरेट घरानों को बेचने का काम चल रहा है। भगत सिंह के सपनो के भारत बनाने के लिए एक मजबूत आंदोलन की जरूरत है। आज देश की शिक्षा भी खतरे में है। शिक्षा को महंगा कर केंद्र सरकार अंबानी अडानी के लिए सस्ता मजदूर तैयार करने में लगी है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा देश का इतिहास बदलने की तैयारी चल रहा है। महापुरुषों के चर्चा के बदले अंग्रेजों के मुखबरी करने वालो की चर्चा हो रही है। मतलब देश की आजादी की लड़ाई में शहीदों का सीधा अपमान है। आज के दौर में बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है और सरकार धर्म का खेला कर रही है। आपसी भाईचारा के बदले समाज में नफरत की बीज बोई जा रही हैं। आज जरूरत है कि भगत सिंह के रास्ते चल कर अमन चैन और आपसी भाईचारा स्थापित किया जाए।

जिला कांग्रेस कमिटी की बैठक की गयी

चतरा (प्रभात मंत्र संवाददाता): जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक हुई। चतरा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अंतिम समय तक और अपने शरीर के खून का एक एक कतरा देश के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को केंद्र के इशारे पर सुनाए गए 2 वर्ष की सजा का हम कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध करते हैं।मौके पर मुख्य रुप से उपस्थित महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गुंजन सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर हुसैन, रविंद्र कुमार सिंह, जावेद पप्पू राजा, जिला महासचिव नसरुद्दीन अंसारी, राजवीर के कौसर जिला कार्यालय प्रभारी सैयद अजीमुद्दीन ख्वाजा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धीरज अंबेडकर, विक्रम सिंह, नगर अध्यक्ष संतोष केसरी, नगर उपाध्यक्ष अर्जुन साहू, गुड्डू आलम, सत्येंद्र दांगी टंडवा प्रखंड अध्यक्ष रवि गुप्ता, गुलाम रसूल अंसारी, रंजीत पासवान, टिंकू पासवान, सत्येंद्र दास, तपेश्वर नायक, सहित भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विद्यालय में हो रही अनियमितता को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया

प्रभात मंत्र संवाददाता

लातेहार : झाबर पंचायत के मुखिया शिलो देवी एवं पंचायत समिति सदस्य सुनिता देवी ने ग्रामीणों के साथ लातेहार सामाहरनालय पहुंची और उत्क्रमित उच्च विद्यालय झाबर में भारी अनियमितता के संबंध में उपायुक्त भोर सिंह यादव को लिखित आवेदन सौंपाकर। कराया अवगत झाबर पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने बताया कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतेन्द्र मेहरा के द्वारा विधालय में घोर अनियमितता बरती जा रही है। जिसका विवरण निम्नवत है। बच्चों के नामांकन में बच्चों अथवा अभिभावको से अवैध वसुली की जा रही है। मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों की वास्तविक उपस्थिति वे अधिक उपस्थिति दिखाकर वितीय अनियमितता किया जाता है। शिक्षकों को फ़साने के लिए सादे कागज पर हस्ताक्षर कराना किसी भी दिन ई विधा वाहिनी में बच्चों को हाजरी नहीं बनाना यदि शिक्षक इस सम्बन्ध में बोलता है। तो उसके खिलाफ़ हरिजन एक्ट लगाकर फंसाने की धमकी देता है। वहीं झाबर पंचायत के निम्नलिखित ग्रामीणों ने उपायुक्त से उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए। प्रधानाध्यापक सतेन्द्र मेहरा एवं विधालय अध्यक्ष अशोक यादव पर उचित करवाई करते हुए बर्खास्त करने की मांग किया है। ताकि पठन-पाठन का माहौल पूनः बहाल किया जा सके।

एनटीपीसी चट्टी वरियातु से ट्रांसपोर्टिंग के लिए बने रोड मैप का सांसद प्रतिनिधि ने किया विरोध

प्रभात मंत्र संवाददाता

टंडवा : सिसई से शिवपुर तक एनटीपीसी चट्टी वारियातु कोल डिस्पैच के मद्देनजर बनाए जाने वाले रोड का सांसद प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पांडेय ने फिर कड़ा विरोध किया है। चट्टी वारीयातु कोल माइनिंग से सिसई खैलहा होते हुए टंडवा सिमरिया मुख्य मार्ग के द्वारा कटमसाडी साइडिंग तक ट्रांसपोर्टिंग का रोड मैप बनने की सूचना जैसे ही सिसई निवासी सांसद प्रतिनिधि ईश्वर दयाल पांडेय को मिला,उन्होंने जान माल के खतरे को देखते हुए कड़ा विरोध किया है। साथ ही उन्होंने सिसई से बृंदा मोड़ तक रोड की काफी खराब स्थिति के लिए भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब यह रोड एनटीपीसी के पैसे से नहीं बल्कि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ऋष्ठ विभाग से बनेगा इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है और फिर यह रोड कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं बल्कि केवल ग्रामीणों के उपयोग के लिए रोड रहेगा। इस रोड के साथ ही बहेरा से बड़गांव 20 किलोमीटर

और हेसातु से टूटीलावा तक 8 किलोमीटर का रोड पक्की सड़क कालीकरण होगा। सांसद चतरा सुनील कुमार सिंह के द्वारा उक्त सभी सड़क के निर्माण के लिए अनुशंसा की गई है। विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है,बहुत जल्द उक्त कार्यो का टेंडर निकाला जाएगा। हेसातु, सिसई के साथ साथ प्रखंडवासियों ने इसके लिए सांसद के प्रति आभार प्रकट किया। भाजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हेसातु से टूटीलावा रोड बनने से लिंक रोड हजारीबाग के लिए इस क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा।

लातेहार : शहर स्थित किनामार विजली कार्यालय के निकट उत्सव मण्डप के हॉल में कार्यक्रम आयोजित

प्रभात मंत्र संवाददाता

लातेहार : अग्रगति के परियोजना प्रभारी किरण शंकर दत्ता जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर एवं बिलाल अंसारी प्रखंड कोऑर्डिनेटर विल्सन तिग्गा एवं आरोही क्रिकेटर ट्रेनर धर्मदेव उरांव ने संजुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा की झारखंड मिलेट की निर्यात क्षमता और चल रहे मिलेट के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को ध्यान में रखते हुए और माननीय प्रधान मंत्री, एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय उद्योग, सरकार की प्रेरणा से। भारत सरकार झारखंड के जैविक कृषि प्राधिकरण के सहयोग से। ओडिशा सरकार ने झारखंड राज्य के लातेहार जिले के एफपीओ/एफपीसी और प्रगतिशील किसानों के लिए बाजरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निर्यातोन्मुख क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं में अग्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह झारखंड में बाजरा क्षेत्र की श्रृंखला में अपनी तरह का दूसरा कार्यक्रम है, जो निर्यातकों, एफपीओ/ एफपीसी/ किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार करने के लिए संवेदनशील बनाता है। पहला कार्यक्रम गुमला जिले में आयोजित किया गया था। प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ किसान उत्पादक कंपनियों और किसान उत्पादक संगठनों के विचार लिए गए।

25 मार्च को स्वास्थ्य मेला आयोजन को लेकर सम्पन्न हुआ बैठक

गिद्धौर (प्रभात मंत्र संवाददाता): प्रखंड परिसर में 25 मार्च शनिवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसको लेकर बृहस्पतिवार को अंचलाधिकारी जय शंकर पाठक के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ। बैठक में और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सुमित कुमार जायसवाल भी उपस्थित हुए। और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हुए। उपस्थित सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की बात कही एवं कुष्ठ रोग, टीबी रोग जैसे कई गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा एवं शिविर लगाया जाएगा इसकी भी जानकारी प्रभारी ने बताया। मोके पर उपस्थित बिपीएम अभिषेक कुमार पंचायत सेवक रोजगार सेवक एवं ग्रामीण भी उपस्थित थे।

मां की ममता का सौदा मामले में झारखंड में बड़े सिंडिकेट का खुलासा, खरीददार दंपति समेत 11 गिरफ्तार

प्रभात मंत्र संवाददाता

चतरा : जन्म के चंद घंटे बाद सदर अस्पताल से ममता का सौदा मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिक खरीद बिक्री में शामिल राज्य स्तरीय गिरोह का खुलासा करते हुए मासूम का एक लाख में सौदा करने वाली कलयुगी मां, सदर अस्पताल की सहिया और एनटीपीसी के ड्रेसर समेत चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के एक दर्जन सरकारी व निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की एसआईटी ने प्रोफेशनल तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल सहिया ने चतरा शहर के झारखंड मैदान इलाके में संचालित अवैध नर्सिंग होम के संचालक अरुण कुमार दांगी के मिलीभगत से

साढ़े 4 लाख रुपये में नवजात का सौदा कराया था। नवजात की मां को सहिया ने ही एक लाख रुपये देकर अस्पताल से बाहर ले जाकर बच्चा को बेचवाने में अहम भूमिका निभाई थी। मामले में नवजात को नाजायज तरीके से खरीदने वाले हजारीबाग के बड़कागांव निवासी दंपत्ति उपेंद्र कुमार और रीना देवी को एसआईटी ने बड़कागांव से गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग खरीद-बिक्री सिंडिकेट में शामिल एनटीपीसी टंडवा के ड्रेसर सरोज कुमार समेत 9 अन्य ब्रोकरों को हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और बोकारो जिले के अलग-अलग ईलाके से धर दबोचा है। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड अरुण दांगी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिसिया दबिश बढ़ा दी गई है। एसआईटी में थाना प्रभारी मनोहर करमाली, एसआई बीना कुमारी व निरंजन कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान थे शामिल। विभिन्न कंपनियों के चार मोबाइल व नाबालिग खरीद बिक्री में प्रयुक्त एक लाख 64 हजार रुपया नगद भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हिरासत में लिये गये लोगों में चास के जोधाडीह मोड़ निवासी आनंद जायसवाल और रजनीकांत तथा हरला थाना क्षेत्र के चैताटांड़ निवासी चंदन कुमार शामिल हैं। चतरा सदर थाना पुलिस तीनों मध्यस्थों एवं नवजात को खरीदने वाले दंपती को भी हिरासत में लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि एसआईटी एसआई वीणा कुमारी के नेतृत्व में बोकारो के चास थान पहुंची। जहां जोधाडीह मोड़ जे रहने वाले आनंद जायसवाल को चास पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया। जिसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गयी, तो उसने एक अन्य युवक रजनीकांत का नाम बताया। रजनीकांत को चास पुलिस ने चास चेकपोस्ट से हिरासत में लिया। पूछताछ के क्रम में दोनों ने बताया कि हरला थाना क्षेत्र के चैताटांड़ में रहने वाले चंदन कुमार ने ही अपने एक रिश्तेदार को नवजात दिलाया है। जिसके बाद चतरा सदर पुलिस हरला थाना पहुंची। हरला थाना पुलिस के सहयोग से चंदन को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद उसने नवजात को बरामद करने में पुलिस को सहयोग करने की बात स्वीकारी।

लोहरा समाज के नेतृत्व में सरहुल पर्व पुर्व संध्या मनाया गया

प्रभात मंत्र संवाददाता

बारियातू : बारियातू प्रखण्ड अन्तर्गत अमरवाडिह पंचायत के रहैया गांव में आदिवासी लोहरा समाज के नेतृत्व में प्रकृति का महापर्व सरहुल पर्व पुर्व संध्या हर्षोल्लास के साथ मनाया गया । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बारियातू थाना प्रभारी मुकेश चौधरी व विशिष्ट अतिथि झारखंड के प्रसिद्ध मुर्तिकार दिलेश्वर मिस्त्री की गरिमा पुर्ण उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि बारियातू एसआई मिथलेश यादव, डॉ रामप्रीत लोहरा, बालुमाथ मुखिया नरेश लोहरा, चिरु पंचायत उपमुखिया राकेश लोहरा, भोला लोहरा, मनोज लोहरा, अशोक राम प्रधानाध्यापक, रहैया, चमन भुइयां, उपस्थित थे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों को पारंपरिक रूप से अंगवस्त्र प्रदान कर व स्वागत गीत से किया गया। मंच पर डॉ रामप्रीत लोहरा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन राजु रामबृक्ष लोहरा ने किया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि बारियातू थाना प्रभारी ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त समाज का निर्माण, समाज को शिक्षित करने, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए सकारात्मक कार्य करने, को कहा। उन्होंने कहा कि नशा को नहीं छोड़िएगा, तो मुख्यधारा से पिछड़ जाइगा। उन्होंने सरहुल पर्व के अवसर पर सभी को एक एक पेड़ लगाने का आह्वान किया।

साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप के जरिए लूट का तरीका अपनाया पीड़ित पहुंचा थाना दिया आवेदन

मयूरहंड (प्रभात मंत्र संवाददाता): साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप प्रोफाइल में दूसरे लोगों का फोटो लगाकर लूट करने का तरीका अपनाया और इस झांसे में देखते ही देखते व्हाट्सएप के प्रोफाइल में लगाए गए फोटो के माध्यम से करीब 40 से 50 हजार की ठगी साइबर अपराधियों द्वारा कर ती गयी।थाना क्षेत्र के ढोढ़ी गांव निवासी करुणा सिंह का फोटो अपराधियों ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगा कर करुणा सिंह के संपर्क के सभी लोगों के पास इमोशनल ड्रामेबाजी करते हुए ठगने की योजना को अमलीजामा पहुंचाता इससे पहले ही साइबर अपराधियों की पोल खुल गई। साइबर अपराधियों द्वारा ठगी के शिकार हुए करण सिंह ने बताया कि साबर अपराधियों द्वारा हमारी ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया और ईमेल आईडी में जितने भी नंबर सेव थे उन सभी नंबरों पर साइबर अपराधियों के द्वारा मेरा फोटो व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगा कर भेजा जाने लगा इस दौरान साइबर अपराधियों ने इमोशनल के तौर पर एक मरीज की फोटो सभी संपर्क नंबर पर भेज कर कहा कि मैं एक संकट में फंस गया हूं मेरे रिश्तेदार बीमार है और उनके इलाज की सख्त जरूरत है हॉस्पिटल में हूं मुझे मदद करें मैं आप सभी के द्वारा प्राप्त किए गए रुपए को अगले दिन दे दूंगा।करुणा सिंह के कुछ रिश्तेदार बिना समझे बुझे साइबर अपराधियों द्वारा भेजे गए अकाउंट नंबर में फोन पे व गूगल पे जरिए पैसे डाल दिए। साइबर अपराधियों की इस तरह खुली पोल,करुणा सिंह को जानने वाले पहचानने वाले और कुछ रिश्तेदारों ने साइबर अपराधियों के खाते में पैसे डालने के बाद करुणा सिंह से फोन पर बात किया और कहा कि एक्सीडेंट कब हुआ और कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

संक्षिप्त खबरें

सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के 14 सुरक्षा गार्डों का वरीय प्रहरी में हुआ पदोन्नति

सिरका (प्रभात मंत्र संवाददाता): सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र जीएम ऑफिस, गिद्दी ए, रेलीगड़ा के कुल 14 सुरक्षा गार्डों का वरीय सुरक्षा प्रहरी के पद पर पदोन्नति हुई हैं। इसे लेकर प्रबंधन ने पत्र जारी कर संबंधित गार्डों के शैक्षणिक प्रमाण एवं अन्य विभागीय वर्ष वार कागजात मांगे हैं। इसमें जीएम ऑफिस यूनिट के सात सुरक्षा प्रहरी कुलदीप खलखो शंकर कुमार, आकाश कुमार, भानु कुमार, शंकर कुमार , नीरज पाठक, मनबाबु नायक हैं। जबकि गिददी ए के पांच गार्ड संतोष कुमार चौधरी, सुरेश गंझू, ए. कुमार साव, साहनी दिवाल, दीपक प्रसाद, रेलीगढ़ा के दो प्रहरी नरेश करमाली, संतोष कुमार शामिल हैं।

हेसला, चपरी, अरगड्डा झोपड़ी में सरहुल पूजा आज, तैयारी पूरी

सिरका (प्रभात मंत्र संवाददाता): कोयलांचल अरगड्डा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके हेसला, चपरी और अरगड्डा झोपड़ी अंबेडकर नगर आदि जगहो में आदिवासी समाज के लोग आज शुक्रवार को सरहुल पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस दौरान सखुआ के वृक्ष नीचे सरना माता की भी पूजा अर्चना कर पूरे वर्ष के लिए खेती, वर्षा, गांव में खुशहाली का वरदान मांगेंगे। पूजन धार्मिक पहानो, गोड़ाईतो के द्वारा विधिवत सकुआ के फूल, आम मंजर के साथ पूरी करवाई जाएगी। सरहुल पूजन की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। मांदर, ढ़ोल के थाप पर आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा प्राकृतिक उत्सव को बड़े ही सद्भावना, सादगी के साथ मनाएंगे।

राधा गोविंद विधि विभाग में एकदिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया

रजरप्पा (प्रभात मंत्र संवाददाता): रामगढ़ जिला के राधा गोविन्द विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में विधि विभाग द्वारा लैंगिक समानता एंव महिला शशक्तिकरण विषय पे एकदिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक डॉ अशोक कुमार ने किया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रुप में सेवानिवृत्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश जी.सी.सिन्हा थे। सेमिनार को संबोधित करते हुवे सिन्हा ने कहा कि शिक्षित बनो सुरक्षित रहो,आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी मानशिकता शशक्त करने की जरूत है,उन्हें संविधान में समानता का अधिकार पहले ही मिल चुका है सेमिनार का संचालन सहायक प्राध्यापक राजेश कुमार महतो ने किया। वंही मुख्य अतिथि का स्वागत विधि विभाग के विभागाध्यक्ष कुमुद रंजन ने किया रुचिका कौसल ने धन्यवाद ज्ञापनय किया। इस सेमिनार में राय यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक रुचि वर्मा , खोरठा विभाग के विभागाध्यक्ष ओहदार अनाम, हिंदी विभाग के डॉ ए.के.मिश्रा, डॉ ममता, डॉ पूनम, अनुराधा लकड़ा ,पवन कुमार सहित विधि विभाग के सैकड़ों छात्र उपस्थित थे।

आजीविका महिला संकुल संगठन के संचालन के लिए कार्यालय की व्यवस्था की जाए : अंबा प्रसाद

बड़कागांव(प्रभात मंत्र संवाददाता): कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने आजीविका महिला संकुल संगठन के महिला सदस्यों की सुविधा व बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विधानसभा में मामला उठाया एवं महिला सदस्यों की सुविधा व बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने हेतु शौचालय, बिजली, फर्नीचर युक्त भवन इत्यादि उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा था कि जेएसएलपीएस के तत्वाधान में आजीविका महिला संकुल संगठन से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही है और आजीविका महिला संकुल संगठन के सदस्यों के लिए कई जगह किसी प्रकार का भवन/कार्यालय की व्यवस्था नहीं की गई है जिस पर विभागीय मंत्री ने विधायक अंबा प्रसाद को बताया कि कुल 908 गठित आजीविका संगठन में से 874 संगठन को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी भवन कार्यालय हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है एवं 118 स्कूल संगठनों का कार्यालय किराए के भवन में संचालित है। 6 संकुल संगठन का कार्यालय स्थापित किया जाना है आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी भवन उपलब्धता के आधार पर कार्यालय जिन्हें उपलब्ध नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। विभागीय मंत्री ने यह भी बताया कि संकुल संगठनों में शौचालय बिजली फर्नीचर आदि सुविधाओं के लिए गठन के प्रथम वर्ष में ही 2 लाख की स्थापना राशि प्रदान की जाती है एवं कई सकूल संगठनों को 2 लाख की स्थापना राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष बचे संगठनों को आगामी वित्तीय वर्ष में राशि निर्गत कर दी जाएगी।

इंडियन एंथम स्कूल श्रीनगर में संपन्न हुआ पांचवा वार्षिकउत्सव

बरही : प्रखंड अंतर्गत इंडियन एंथम स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं वार्षिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के निर्देशक सुधाकर यादव एवं स्कूल के प्रिंसिपल सुनील सोनी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद के प्रदेश अध्यक्ष किशुन यादव बरसोत मुखिया मोतीलाल चौधरी राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा यादव उपमुखिया रीता देवी सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए संचालक ने विद्यालय की छात्राओं को अतिथि स्वागत एवं स्वागत गान के लिए कहा। अतिथि देवो भवा इसी परंपरा को निभाते हुए विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी व्यक्तियों का तिलक लगाकर और माला पहनाते हुए स्वागत किया।

विभिन्न विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की उपायुक्त ने की समीक्षा

प्रभात मंत्र संवाददाता

रामगढ़ : गुरुवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान समाज कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले के योग्य लाभुकों को उपलब्ध कराए गए पेंशन की जानकारी लेने के उपरांत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, दिव्यांग पेंशन, एचआईवी पीड़ित मरीजों के लिए

पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्र में सर्वे करने एवं कोई भी योग्य लाभुक पेंशन के लाभ से वंचित ना रहे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने एवं पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आंगनवाड़ी केंद्रों में सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केंद्रों के चारदीवारी आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत लाभुकों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने रामगढ़ जिले को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से नियमित रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सर्वे करने एवं सैम तथा मैम बच्चों की पहचान कर उनके उपचार हेतु एमटीसी केंद्र में बच्चों को भर्ती कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को दिए गए लाभ की जानकारी ली जिसके उपरांत उपायुक्त ने संवेदक के साथ संपर्क कर सभी योग्य लाभुकों को ससमय योजना का लाभ देने का निर्देश दिया वहीं उपायुक्त ने लाभुकों को वितरित किए जा रहे पशुओं के साथ अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत मेडिकल किट का भी वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

रुसा के दिन लबगा में निकली जल यात्रा

प्रभात मंत्र संवाददाता

पतरातू : प्रखंड अंतर्गत ग्राम लबगा में प्राकृतिक पर्व सरहुल पूजा के शुभ अवसर में रुसा के दिन ग्राम लबगा में एक डाड़ी जल-यात्रा का आयोजन किया गया। सरहुल पूजा पूर्व गुरुवार को श्रद्धालु-भक्त लबगा के सरना स्थल में एकत्रित हुए। जिसके बाद पाहन के नेतृत्व में सरहुल श्रद्धालु पद यात्रा कर डाड़ी से जल उठाये। जिसके बाद सबसे पहले तुम्बाघुटु बरमसिया देव स्थल में उसके बाद गंवादेवती और देवी मंडप में जल चढ़ाया गया। तत्पश्चात सरना स्थल में

पारंपरिक रूप से डाड़ी यात्रा को समापन किया गया। इस यात्रा में मुख्य रूप से झरी मुंडा,किरण मुंडा,लखन मुंडा,वीरेंद्र मुंडा,अजय मुंडा, सुनील मुंडा, सिकंदर मुंडा, सचिन मुंडा,सविता देवी, फूलो देवी, सुनीता देवी,गीता देवी,सोनी देवी, बचनी देवी,पनेश्वरी देवी एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

बरही : प्रखंड परिसर स्थित टाउन हॉल में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के द्वारा प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिप उपाध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष किसुन यादव, हजारीबाग डीएफओ सबा अहमद, पर्यावरणविद सत्य प्रकाश, सेवानिवर्ति डीएफओ एके मल्होत्रा, रेंजर कमलेश सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया

गया। मौके पर सत्यप्रकाश ने गिद्ध बचाए पर्यावरण बचाएं पर अपना प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गिद्ध के विलुप्त का मुख्य कारण मवेशियों में प्रयोग होने वाले दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक हैं। उन्होंने अपील किया कि डाइक्लोफेनेक की जगह मेलोक्सिकेम दर्द निवारक दवा का प्रयोग कर गिद्ध के संरक्षण में सहयोग करें। वहीं उन्होंने प्राकृतिक आवास, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का नष्ट होना भी गिद्ध के विलुप्त का कारण बताया। वही एके मल्होत्रा ने अग्नि सुरक्षा विषय पर लोगों को जानकारी दी, वहीं जंगल में आग लगती है तो आप कैसे उसपर काबू पाएं इसके बारे में बताया। वही डीएफओ ने हाथी एवं मनुष्य के बीच टकराव के कारण बताएं।

संघ के तीन अधिवक्ता का सहायक लोक अभियोजक में नियुक्ति होने पर दी गई बधाई

प्रभात मंत्र संवाददाता

रामगढ़ : गृह विभाग झारखंड सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोजक के लिए चाइनीत अधिवक्ताओं में जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ के तीन अधिवक्ता श्रमनंदन राजीव आशीष रंजन, एवं पंचम कुमार का चयन होने पर जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें तीनों अधिवक्ताओं को बुके देकर एवं मिठाई खिला कर स्वागत किया गया साथ ही उनको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई एवं आशा व्यक्त की गई यह तीनों

शीघ्र ही न्यायाधीश के रूप में भी चयनित होकर जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ का मान सम्मान बढ़ाएंगे इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने बताया कि यह जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का पल है जब हमारे बीच से 3 अधिवक्ताओं का चयन सहायक अपर लोक अभियोजक के रूप में हुआ है इस अवसर पर संघ के महासचिव सीताराम उपाध्यक्ष झलकदेव कोषाध्यक्ष हरखनाथ महतो शंभू प्रसाद द्वारिका महतो राजेंद्र महतो सुरेश कुमार मोहम्मद सलीम महेंद्र महतो मोहम्मद नौशाद अनुज कुमार सुभाष कुमार अरविंद कुमार अखिल देव प्रसाद सतीश पाठक राजू महतो चंद्रिका सिंह पंचम महतो राजेंद्र साहू एवं अन्य साथी उपस्थित थे।

सरहुल पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर आदिवासी समाज की हुई बैठक, पूजा आज

प्रभात मंत्र संवाददाता

रजरप्पा : दुलमी प्रखंड के कुल्ही गाँव स्थित सरना स्थल मे गुरुवार को सरहुल पूजा तैयारी को लेकर आदिवासि समाज के लोगों की हुई बैठक । बैठक की अध्यक्षता जय नंदन मुंडा व संचालन चेतलाल करमाली ने किया। बैठक मे सर्व सम्मति से 24अप्रैल को सरना स्थल मे आदिवासी परंपरा के तहत सरहुल पूजा धूम धामसे मनाने का निर्णय लिया गया।वही पूजा के बाद प्रसाद वितरण व दो पहर मे नागपुरी

कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।साथ ही पूजा को सफल बनाने हेतु पूर्व समिति को पुनः चयनित किया गया। वहीं नये सक्रिय लोगों को सहयोगी बनाया गया। समिति में संरक्षक सुख देव मुंडा, बासुदेव कुमार मुंडा, अध्यक्ष चेतलाल करमाली, उपाध्यक्ष गखुल मुंडा, सचिव कजरू मुंडा, सह सचिव राजेंद्र करमाली, कोषाध्यक्ष चतुर मुंडा, सह कोषाध्यक्ष जय नंदन मुंडा, के अलावे । कीटका पाहन, कजरू मुंडा, चतुर मुंडा, पाहन रेगटा मुंडा, गखुल मुंडा, सिबु मुंडा, मनोज करमाली, राजेंद्र करमाली, राज कुमार करमाली, झमन मुंडा, प्रदीप मुंडा, कतर मुंडा, गणेश करमाली, बौडा मुंडा, सरोज मुंडा आदि को सदस्य बनाया गया। मौके पर दर्जनों लोग शामिल थे।

रामनवमी पूजा को लेकर समिति का गठन, अध्यक्ष बने ईश्वर यादव

बरकट्ठा : प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कोनहरा कला शिव मंदिर प्रांगण में रामनवमी पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर बैठक आयोजित कि गई।अध्यक्षता पूर्व मुखिया मुंशी पासवान और संचालन मुकेश यादव ने किया।मौके पर रामनवमी पूजा का सफल आयोजन को लेकर समिति का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से पत्रकार ईश्वर यादव को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष महावीर यादव, सचिव मुंशी पासवान और कोषाध्यक्ष मुकेश यादव को बनाया गया। साथ ही जीवन यादव,राजेंद्र यादव, केदार प्रजापति, मनी यादव, श्यामलाल सिंह,पवन पासवान, राजू यादव, मुकेश सोनी, संजीत कुमार, आशीष कुमार,पिंटू कुमार सोनी,कमल राणा,राजेंद्र प्रजापति , रामसहाय पासवान,नरेश रविदास को समिति का सदस्य बनाया गया।

पतरातू के पत्रकारों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का शहादत दिवस मनाया

प्रभात मंत्र संवाददाता

पतरातू : पतरातु के शहीद भगत सिंह चौक पर प्रखंड के पत्रकारों व ग्रामीणों ने गुरुवार को शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अगुवाई वरिष्ठ पत्रकार सलीम अंसारी और वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार ने किया। सर्वप्रथम तीनों शहीद भगत सिंह,सुखदेव और राजगुरु को नमन कर उन्हें याद किया गया। मौके पर पत्रकार सलीम अंसारी ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में तीनों क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अहम भूमिका रही। वही पत्रकार नंद कुमार ने कहा कि आज के युवा तीनों क्रांतिकारियों के नक्शे कदम पर चलकर देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। इससे पूर्व सभी पत्रकारों ने भगत सिंह के प्रतिमा स्थल पर अपने अपने विचारों को रखते हुए कहा की तीनों क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश

हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर उनके दांत खट्टे किये थे ढृ देश आजादी के इन सभी दीवानों को हम सभी शत-शत नमन करते हैं। मौके पर पत्रकार सत्येंद्र पाठक,सुरेंद्र प्रसाद,राकेश पांडेय,अजय तिवारी,राजीव रंजन, सुमित पाठक,संजय कुमार सिन्हा, विजेंद्र कुमार,संतोष कुमार,अजीत सोलंकी,विनोद करमाली,वीरेंद्र भगत,महेश प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। वहीं ग्रामीणों में अर्जुन उपाध्याय, कार्तिक प्रमाणिक,रविंद्र प्रसाद गुप्ता, मनोज साव,आदित्य नारायण प्रसाद, अब्दुल कयूम अंसारी,रंजीत ठाकुर, परमेश्वर साहू,बुधन स्वर्णकार,बालेंद्र साहू,राजेंद्र ठाकुर,राजेंद्र रजक, चितरंजन कुमार,सूरज कुमार,इरशाद अंसारी, रामू साहू,किशोर ठाकुर, सूरज कुमार, विश्वनाथ प्रसाद, प्रदीप कुमार, मदन साव,संभू कुमार, राजीव पांडेय,रघु साव आदि उपस्थित थे।

चरही थाना में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक सम्पन्न

चरही (प्रभात मंत्र संवाददाता): चरही थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गयी। अंचलधिकारी शशि भूषण सिंह की अध्यक्ष्यता में बैठक की गयीं। वही क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ो से आये अखाड़धारी , जंनप्रतिनिधि, तथा क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य उपस्थित हुए। थाना परिसर में हुई बैठक में लोगों को सारे नियम से अवगत कराया गया। आगामी त्योहार जैसे रामनवमी, रमज़ान तथा सरहुल को लेकर लोगों दिशा निर्देश दिये गए। थाना प्रभारी ने कहा की जितने भी अखाड़ा धारी हैं वो लाईसेंस के हिसाब से ही जुलूस को निकलेंगे,रूट को किसी भी हालत में नहीं बदलना है। वहीं इसके अलावा लोगों से ये भी कहा गया है की यदि जुलूस के रूट पर किसी भी तरह का ईट पत्थर इत्यादि हो तो उसको हटा लें । जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, शराब पीकर या किसी तरह का कोई भी नशा कर के जुलूस में शामिल ना हों। थाना प्रभारी ने कहा की सौहार्दपुण् महौल में त्योहार मनाएं। प्रशासन का हर तरह से विधि व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें। कोई भी अप्रिय घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचीत करें। बता दें की थाना क्षेत्र में 19 अखाड़े हैं जिनमे दो तीन अखाड़े गैर लाइसेंसी भी हैं। शांति समिति की बैठक में अखाड़ाधारियों से जुलूस के दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई इत्यादि के बारे में भी बात की गयी जिसमे लोगों ने अपनी बातों को रखा। थाना प्रभारी ने कहा की त्योहार के पूर्व वो जुलूस के मार्गों का खुद निरीक्षण करेंगे। शांति समिति के दौरान लाइसेंस की भी समीक्षा की गयी। वहीं आंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह ने कहा की चरही चौक में जो भी दुकानों का अतिक्रमण है रामनवमी से पहले उसको हटा लें ताकि जुलूस में किसी तरह का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। मौके पर मुख्य रूप से आंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह, इंस्पेक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह, चरही थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार, जीप सदस्य बसुदेव कर्माली, चुरचू प्रमुख निरंजन प्रसाद नायक, बीस सूत्री अध्यक्ष बाल कुमार महतो, पूर्व मुखिया इंद्रा दशरथ महतो, अल्पसंख्यक विधायक प्रतिनिधि, आरिफ अंसारी, पिंडरा पंचायत मुखिया देवलाल कुमार, मंडल अध्यक्ष मुरारी सिंह सहित सेंकडो की संख्या में लोग उपस्थित थे।

ज्ञानोदय विकास स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव

प्रभात मंत्र संवाददाता

बड़कागांव : ज्ञानोदय विकास स्कूल बड़कागांव में वार्षिक उत्सव मनाया गया। जिसमें मुख्य अतिथि बड़कागांव के पूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो, बड़कागांव प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी डॉ बीएन प्रसाद उपस्थित हुए। अतिथियों का पुष्प गुच्छ से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रियासत हसन एवं संचालन शिक्षक कुलदीप कुमार राणा, कक्षा नौ की छात्रा श्वेता कुमारी एवं रिमझिम कुमारी के द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक लोकनाथ महतो विकास सेवा समिति के अध्यक्ष दशरथ महतो, सचिव बुद्धि नाथ महतो, विद्यालय के सचिव सिकंदर सोनी, प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार एवं प्राचार्य रियासत हसन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्कूल के प्राचार्य रियासत हसन ने स्कूल से संबधित कार्यप्रणाली का वार्षिक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाया। इसमें पूरे साल में स्कूल की गतिविधियों जिसमें खेल, रंगोली सहित सभी प्रतियोगिताओं के संबंध में जानकारी दिया गया ।

विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी प्रदेशों की झलक देखने को मिली। स्कूली छात्रों ने रानी लक्ष्मीबाई, राधा कृष्णा डांस, शिव तांडव, ओ री चिरैया, झारखंडी लोकगीत, गुजराती नाच जैसे नृत्य की प्रस्तुति दी। छात्रों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने अतिथियों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने उपस्थित छात्रों और स्कूल प्रबंधन को संबोधित करते हुए कहा की इसी तरह बच्चों को प्रोत्साहन मिलते रहने से इन्हें आगे की ओर बढ़ने की ललक बढ़ती है। साथ ही पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल के छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद सहित अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका दिया जाता है।

करियातपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया वर्ष प्रतिपदा

प्रभात मंत्र संवाददाता

बरही : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू नव वर्ष मनाया गया। सर्वप्रथम शाखा लगाया गया उसके बाद सामूहिक गीत गया।फिर बिलासा सेवा प्रमुख रजनीश पाण्डेय के द्वारा नव वर्ष के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ हमारा हिंदू समाज संगठित कैसे हो इस पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा। एवं हमारे हिंदू संस्कृति वा हिंदू नव वर्ष के बारे में बताया। साथ ही साथ राहुल राणा संघ की शाखा से हमें क्या प्राप्त होती है वो हम सबों के बीच बताने का काम किया तत पश्चात् नव वर्ष के शुभ अवसर पर करियातपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में संध्या 7:00 से ब्राह्मण अशोक पांडे जी के मंत्र उच्चारण से प्रभु श्रीराम एवं भारत माता के तस्वीर के सामने

आरती का आयोजन किया गया।जिसमें करियातपुर के सभी राम रामभक्त महिलाएं एवं पुरुषों में काफी उत्साह देखने को मिला। आरती के बाद प्रसाद के रूप में खीर का भी वितरण किया गया। रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार केसरी सचिव धर्मेंद्र कुमार प्रजापति कोषा अध्यक्ष भीम केसरी उपाध्यक्ष मुन्ना सोनी धनवार पंचायत मुखिया राजेन्द्र प्रसाद,मुरली मनोहर प्रसाद केसरी, सुरेश प्रजापति, टिंकू केसरी, सुरेश साव,संदीप केसरी, संतोष प्रजापति,अशोक केसरी, मनोज शर्मा, रौनक केसरी, पवन केसरी, शुभम केसरी, कैलाश केसरी, नितेश केसरी, अंकित केसरी, प्रकाश प्रजापति,अभय सोनी, दिनेश केसरी,प्रदीप केसरी, निशांत शर्मा, सागर चंद्रवंशी, कृष्णा भुइया, प्रदीप कुशवाहा सहित कई महिला एवं पुरुष शामिल थे।

सरहुल पर्व के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

हजारीबाग (प्रभात मंत्र संवाददाता): सरहुल पर्व के अवसर पर आज निकाले जाने वाले जुलूस के मद्देनजर हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिसमे किसी भी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।सोशल मिडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक व अन्य मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज ऑडियो विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति, एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी। द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा साथ ही किसी भी परिस्थिति में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरहुल जुलूस के अवसर पर यातायात बाधित नहीं हो इसका ध्यान रखेंगे। यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी। पुलिस उपाधीक्षक अंचल अधिकारियों प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं थाना के नोटिस बोर्ड पर यह आदेश को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

प्रभात मंत्र प्राईवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रेशमा खान द्वारा खबर-एक्सप्रेस प्रा0 लि0 3 व 4, ओपोजिट मॉरिश फूड कोकर इन्डसट्रियल एरिया, कोकर, रांची से मुद्रित कर कार्यालय प्रभात मंत्र राईन मार्केट पहला तल्ला, उर्दू लाइब्रेरी, मेन रोड रांची से प्रकाशित, संपादकीय कार्यालय-2बी दूसरा तल्ला, अनवर अरकेड, विश्वकर्मा मंदिर लेन , मेन रोड, रांची। संपादक : रवींद्र कुमार उपाध्याय*। *पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी। मो0 न0 7004121786, 06513571957

10 लाख किसानों की आजीविका सुधार के लिए वालमार्ट की खास पहल

रांची(प्रभात मंत्र संवाददाता): भारत में किसानों की आजीविका सुधारने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने बुधवार को अपनी नई पंचवर्षीय रणनीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य 2028 तक 10 लाख छोटे किसानों तक पहुंचना है, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सामूहिकता और फार्म एग्रिगेशन के क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों को अनुदान दिया जाएगा।वॉलमार्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान स्थानीय अनुदानकर्ताओं को विशेष रूप से महिला किसानों के सशक्तीकरण पर फोकस करते हुए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के क्षमता निर्माण में सहयोग करने में सक्षम बनाएगा। फाउंडेशन ने नई पंचवर्षीय रणनीति के साथ दो नए अनुदानों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं- महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में छोटे किसानों के लिए टेक्नोसर्व को 30 लाख डॉलर का अनुदान। इसका लक्ष्य 24 एफपीओ और 30,000 किसानों तक पहुंचना है, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।ट्रिकल अप को 533,876 डॉलर का अनुदान, जिसका लक्ष्य ओडिशा में 1,000 स्मॉलहोल्डर महिला किसानों तक पहुंचना और उन्हें दो एफपीओ से जोड़ना है।

फुटबॉल खेल प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर

टुंडी(प्रभात मंत्र संवाददाता): टुंडी में अगले माह होने वाले फुटबॉल खेल प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि अप्रैल माह में टुंडी में फुटबॉल खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है जिससे अभी से ही टीमों के द्वारा टुंडी थाना में सूची जमा किया जा रहा है आज करीब दस टीमों द्वारा सूची जमा किया गया जिसमें मधूर मिलन क्लब,जमुनियांटांड टुंडी, जुनियर स्पोर्ट्स क्लब तिलैयाटांड़, मुर्मू क्लब, कमलपुर,जे.एस.क्लब लुकैया, नेहरू युवा क्लब, रामनगर, मुर्मू क्लब,बासाहा, जुनियर स्पोर्ट्स क्लब बेगनरिया,एस.के.वाई.स्टार क्लब,करमाटांड, हेंब्रम स्पोर्ट्स क्लब पोखरिया, बिरसा संथाल,झागरू आदि कुल दस टीमों द्वारा सूची जमा किया गया है एवं इच्छुक टीम जो इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो सूची टुंडी थाना में जमा कर इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। अगले माह इस खेल प्रतियोगिता की तिथि घोषित कर दी जायेगी।

नारायणपुर के विष्टोपुर गांव के चार साईबर अपराधी गिरफ्तार

जामताड़ा(प्रभात मंत्र संवाददाता): गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने फतेहपुर थाना के पुलिस के सहयोग से नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिष्टोपुर गांव के 4 साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया हैं। बता दें कि यह चारों साइबर अपराधी दुमका जिले में स्थित बाबा चुटोनाथ मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे।इस बीच लोकेशन के आधार पर फतेहपुर थाने के पुलिस ने विष्टोपुर गांव के संतोष दा, पवन दा ,सचिन दा ,साघन दां को गिरफ्तार किया गया है । इनके पास से पुलिस ने दो आईफोन, 6 मोबाइल, एक दर्जन सिम कार्ड बरामद की है। इन सभी के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 19 /2023 दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उक्त विषय की जानकारी जामताड़ा साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पाल जी कार ने दी है आगे उन्होंने बताया कि यह सभी साइबर क्रिमिनल बिजली बिल बकाया व लाइन काटने का मैसेज देकर लोगों को भयभीत करके पैसे का ठगी करता था। इन लोग का सरगना कोई और है जिसके इशारे पर येलोग परसेंटेज में काम करते थे हालांकि मुख्य सरगना का नाम पुलिस ने नहीं बताया ।हो सकता है कि मुख्य सरगना बहुत जल्द पुलिस के कब्जे में होगा।

श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन

जामताड़ा(प्रभात मंत्र संवाददाता): सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का का आयोजन भुरुनडिया गांव में किया जा रहा है ।जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के अध्यक्ष राधारानी सोरेन एवं भाजपा के युवा नेता अमित भैया उपस्थित हुए एवं पुरोहित बबलू झा के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा किया गया और कलश में जल भरकर 181 कन्याओं ने शीला नदी घाट से भुरुनडिया बजरंगबली मंदिर प्रांगण में लाया गया। आयोजन कमेटी के धीरेन मंडल ,बद्री मंडल, दिलीप मंडल ,युधिष्ठिर मंडल, संतोष मंडल, विष्णु मंडल ,भास्कर मंडल, राजू मंडल, महावीर राउत ,गोपाल राउत , तारा प्रसाद महतो ,तीर्थ नाथ मंडल, प्रदीप मंडल ,अमित आनंद मुख्य रूप से मौजूद थे।

समाहरणालय सभाकक्ष में हुआ शोक सभा का आयोजन

रामगढ(प्रभात मंत्र संवाददाता): हृदय गति रुकने के कारण समाहरणालय स्थित डाक कार्यालय के उप डाकपाल श्री सुमन भारती का सोमवार को निधन होने के उपरांत आज समाहरणालय सभाकक्ष में शोकसभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा, उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता नेलसम ऐयोन बागे सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT,
ROAD DIVISION, GUMLA-835207,
E-mail :- eercdgumla-jhr@nic.in

Letter No. - Gumla, Dated:-

Corrigendum



एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पथ प्रमण्डल, गुमला अंतर्गत Widening/Strengthening to 2- lane of Chainpur-Mahuadarn upto Dumri Road (MDR-36) (Total Length-11.580km) job no - CRF-JHR-2022-23/57 कार्य की निविदा Date of Publication of Tender on Website **22.03.2023** के स्थान पर **05-04-2023** Last date/Time for receipt of bids - **20.04.2023** के स्थान पर **08.05.2023** एवं Date of Opening Of Technical Bid- **21.04.2023** के स्थान पर **09.05.2023** पढ़ा जाय । शेष सभी शर्तें यथावत रहेगा। Further details can be seen on website https://jharkhandtenders.gov.in

PR 292423 Road (22-23)*D Sd/-
Executive Engineer
PR 293469 Road(22-23)D R.C.D. Road Division Gumla

सीएम को विधायक डॉ इरफान अंसारी ने माहे रमजान की शुभकामनाएं दी

टोपी और शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री को किया सम्मानित

प्रभात मंत्र संवाददाता

जामताड़ा : झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी झारखंड के डायनामिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर माहे रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री को टोपी और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अरब से मंगाये गये खजूर और आब-ए-ज़मज़म का पानी मुख्यमंत्री जी को भेंट की। मौके पर विधायक जी के साथ एक शिष्टमंडल उपस्थित था।मौके पर विधायक ने कहां की आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं जो हमारे लिए गर्व की बात है। आप रामनवमी भी मनाते हैं..ईद भी मनाते हैं..सरहूल भी मनाते हैं..क्रिसमस मनाते हैं। यह आपकी विशेषता है।आपके नेतृत्व में झारखंड विकास की पटरी पर दौड़ रहा है।

आरजेडी ने मनाई राम मनोहर लोहिया की जयंती

प्रभात मंत्र संवाददाता

रामगढ़ : रामगढ़ थाना चौक मे राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद गुलजार की अध्यक्षता में डॉ राम मनोहर लोहिया जी की जयंती दिवस और अमर शहीद भगत सिंह जी शहादत दिवस भी मनाया गया । इस मौके पर आरजेडी रामगढ़ जिला अध्यक्ष मोहम्मद गुलज़ार ने बताया कि शहीदों को याद करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में आरजेडी नगर अध्यक्ष अशोक यादव युवा जिलाध्यक्ष अकबर खान जिला उपाध्यक्ष राजकुमार केसरी अशफाक अंसारी छोटू गंजू शैलेंद्र यादव परशुराम अशोक राम सरदार बलवीर दिनेश कुमार रोहित साहू मुकेश केसरी एवं आरजेडी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कोयला खनन से पर्यावरण पर प्रभाव के विषय पर कर्णपुरा महाविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

बड़कागांव : कर्णपुरा महाविद्यालय बड़कागांव में प्राचार्य कीर्ति नाथ महतो की अध्यक्षता में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो रंजीत प्रसाद के नेतृत्व में एक दिवसीय सेमिनार ÷कोयला खनन से पर्यावरण पर प्रभाव ÷विषय पर आयोजन किया गया । ÷कोल खनन से पर्यावरण प्रभावित होती है ÷जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में वक्ता जीएम कॉलेज भुरकुंडा के डॉ संतोष कुमार दांगी विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ने कोयला खनन से आम जीवन कैसे प्रभावित हो रहे हैं पर प्रकाश डाला। इस सेमिनार के वक्ता मुख्य अतिथि के रूप में मारखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ रंजीत कुमार दास ने बड़कागांव क्षेत्र में कोयला उत्खनन से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा किया। इस शुभ अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि प्रो निरंजन कुमार नीरज, परीक्षा नियंत्रक मोहम्मद फजरुद्दीन, प्रो सुरेश महतो, प्रो नरेश कुमार दांगी, प्रो अनु कुमारी, प्रो ऋतुराज दास, प्रो ललिता कुमारी, प्रो लालदेव महतो, प्रो चंद्रशेखर राणा के साथ-साथ कई छात्र- छात्राएं उपस्थित थे।

नमामि गंगे अभियान के तहत रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

रामगढ़(प्रभात मंत्र संवाददाता): नमामि गंगे योजना के तहत 16 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर सोशल मीडिया एवं पब्लीसिटी ऑफिसर विक्रम सोनी के द्वारा विद्यार्थियों को नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों, जीवन में स्वच्छता का महत्व एवं अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ आस-पड़ोस व अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करने की विस्तार से जानकारी दी गई वही विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर गोष्ठी में भाग लिया एवं नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए। गोष्ठी के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा नमामि गंगे योजना अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ के परिसर से रैली निकाली गई एवं लोगों से नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, यत्र तत्र कूड़ा कचरा ना फेंकने तथा अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी।

उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक

रामगढ़(प्रभात मंत्र संवाददाता): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गुरुवार को उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त सहित समिति के अन्य सदस्यों को बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने हेतु कुल 92 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। योजना के माध्यम से लाभुकों को आइस बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स के साथ तीन पहिया वाहन एवं विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन हेतु केज स्थापित करने का लाभ दिया जाना है। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त के द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के साथ प्राप्त आवेदनों पर चर्चा के क्रम में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार, जिला अग्रणी प्रबंधक संजीव कुमार, परियोजना निदेशक आत्मा प्रवीण कुमार सिंह, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी धनराज आर कापसे सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रेन्बो स्कूल में शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, दी श्रद्धांजलि

बरही(प्रभात मंत्र संवाददाता): प्रखंड अंतर्गत शिवपुर गडलाही में संचालित रेन्बो स्कूल बरही में शहादत दिवस पर शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को याद किए गए। विद्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर निदेशक सिकन्दर प्रसाद कुशवाहा, प्राचार्य पंचम कुमार पांडेय सहित सभी शिक्षकों एवं छात्रों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। संबोधित करते हुए निदेशक सिकन्दर प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि साल 1931 में आज ही के दिन शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। देश तीनों स्वतंत्रताओं की स्मृति में आज शहीद दिवस मना रहा है। बताया कि भगत सिंह की शहादत के बाद से ही देश में स्वाधीनता संग्राम के लिए आंदोलन तेज हो गए थे। भारत माता के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी थी। युवाओं के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज भी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। वही प्राचार्य पंचम कुमार पांडेय ने कहा कि जनता के बीच तीनों बेहद लोकप्रिय हैं। देश के लिए इन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। इनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। भगत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर शिक्षको में गौरी शंकर, प्रवीण कुमार, राजेश यादव, संकेश कुमार, नरेश कुमार, उषा कुमारी, रिंकी कुमारी, सुधा कुमारी, स्वेता कुमारी, रंजीत कुमार, सरिता कुमारी, प्रीति कुमारी, रिफ्फत प्रवीण, खुशबू कुमारी, रौशनी कुमारी, फैजिया खातून आदि उपस्थित रहें।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–39/2022–23

1.	विज्ञापनदाता का नाम एवं पदनाम		कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग।
2.	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	:	दिनांक 10.04.2023 के अपराह्न 1.00 बजे तक
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	दिनांक 11.04.2023 को 3.00 बजे अपराह्न तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 11.04.2023 को अपराह्न 3.30 बजे
5.	परिमाण विपत्र विक्री का स्थान	:	1) कार्यपालक अभियंता, या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा भवन प्रमण्डल, हजारीबाग में। 2) अधीक्षण अभियंता, या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा भवन अंचल, हजारीबाग में।
6	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	01) जिला नियंत्रण कक्ष हजारीबाग।

क्र. सं.	कार्यकानाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Repair of Hostel no1 Building located in the Campus of ITI at Hazaribag	2702100/-	55000/-	5000/-	03 माह
2	Renovation of floor of Hostel no1and Hostel no2 Building located in the Campus of ITI at Hazaribag	2328400/-	47000/-	5000/-	03 माह
3	Repair of Hostel no 2 Building located in the Campus of ITI at Hazaribag	2496200/-	50000/-	5000/-	03 माह
4	Renovation of Administrative Building Bendagi Block - Barhi , Dist Hazaribag for the year 2022-23	4479500/-	90000/-	5000/-	05 माह
5	Renovation of ITI at Churchu block in the Dist Hazaribag for the year 2022-23	1359600/-	28000/-	2500/-	02 माह

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, हजारीबाग

PR 293466 Building(22-230#D

कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग
(email-districtboardhazaribag@gmail.com, Phone No. 06546-261407)

-:अति अल्पकालीन निविदा सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद अन्तर्गत हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखण्ड अन्तर्गत मार्शल प्राइमरी बुनकर सहयोग समिति लि0, कजरी कॉटन हैण्डलूम सेन्टर के लिए उपस्कर एवं कच्चा माल की आपूर्ति किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक निविदादाता (Bidders) से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site- www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06 / 04 / 2023 समय 2.00 अपराह्न तक।
2. निविदा जमा करने का स्थान :– जिला परिषद कार्यालय, हजारीबाग।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06 / 04 / 2023 समय 3.00 अपराह्न।
4. निविदा खोलने का स्थान :– उप विकास आयुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग

PR 293518 District(22-23)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं.– 02 गढ़वा

ई–निविदा सूचना सं0–RWD/SD/GARHWA/20/2022-23
CORRIGENDUM (शुद्धि पत्र)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस प्रमण्डल द्वारा आमंत्रित ई–निविदा आमंत्रण सूचना सं0– RWD/SD/GARHWA/20/2022-23, PR 292877 Rural Development (22-23):D द्वारा प्रकाशित निविदा में अपरिहार्य कारणवश कंडिका (क्रमांक) **03, 04, एवं 06** में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व NIT के निविदा आमंत्रित की जाती है, जो निम्नवत: है :–

3. **ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय–27.03.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक के स्थान पर दिनांक–01.04.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक समझा जाय।**
4. **कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–02, गढ़वा में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 28.03.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक के स्थान पर दिनांक–03.04.2023 समय 3:00 बजे अपराह्न तक समझा जाय।**
6. **निविदा खोलने की तिथि एवं समय –29.03.2023 अपराह्न 2:00 बजे के स्थान पर दिनांक–05.04.2023 अपराह्न 2:00 बजे तक समझा जाय।**

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं.–02, गढ़वा

PR 293454 Rural Development(22-23)#D

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
जिला नियोजनालय, चतरा

भर्ती–कैम्प, दिनांक–27.03.2023

सूचना

जिला नियोजनालय–सह–मॉडल कैरियर सेन्टर, चतरा कार्यालय द्वारा दिनांक–27.03.2023 को कार्यालय परिसर में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक Raider Security Services Pvt Ltd. द्वारा विभिन्न पदो हेतु एक दिवसीय भर्ती कैम्प का आयोजन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है ।

Sl. No.	Name of the Post	No.Of Vacancies	Qualification Required: Essential	Qualification Required: Desirable	Experience if Any	Age (Min-Max)	Salary	Location
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stenographer	05	Graduate	Typing (hindi 30 wpm and English 35 wpm) and Shorthand (Hindi-60 wpm and English-80 wpm)	---	20-35	21800	Jharkhand
2	Receptionist	01	Graduate	Hind & English Typing, MS Word, Excel, PPT	---	20-35	12000-15000	
3	Jr.Software Developer (Nt)	05	B.E,B.Tech, MCA	Experience in Software Development Field in.net Framework	1 yrs	20-30	27000	
4	Jr.Software Developer(Java)	05	B.E,B.Tech, MCA	Experience in Software Development Field in JZEE	1 yrs	20-30	28600	
5	Jr.Software Developer (NET)	05	B.E,B.Tech, MCA	Experience in Software Development Field in. net framework	03 yrs	20-35	40000-45000	
6	Jr.Software Developer(Java)	05	B.E,B.Tech, MCA	Experience in Software Development Field in J2EE	03 yrs	20-35	40000-45000	
7	GNM	15	Inter+GNM	---	1 yrs	20-30	15000-20000	
8	ANM	20	Inter+ANM	---	1 yrs	20-30	13000-17000	
9	MIS- (Female)	2	Graduate	Hindi & English typing. Ms Word ,Excel,PPT.	0 to 1 yrs	21-30	12000-15000	
10	Security Guards (Arm & With Arm)	15	Matric	---	o-1 yrs	21-30	12000-15000	

योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नही है, वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा www.rojgar.jharkhand.gov.in पर अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त भर्ती कैम्प मे नियोजक / नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूलप्रमाण पत्रों एवं उसकी एक छाया प्रति तथा बायोडाटा (02 कॉपी), दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित है, उन्हें पुनः निबंधन करवाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, अतएव चयन की प्रक्रिया मे नियोजनालय का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 प्रभावी होने के कारण भर्ती कैम्प में भाग लेने वाले उम्मीदवार अंचलाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगें। इस निमित किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

नोट:– यह कार्य निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का लेन–देन अपराध है।

जिला नियोजन पदाधिकारी
जिला नियोजनालय, चतरा

PR 293421 Labour Employment and Traning (22-23)_D

Office of Executive Engineer
Drinking Water and Sanitation Division, Gumla
Email id – eedwsd.gumla@gmail.com

Very Short Term Invitation for Tender

On behalf of the Government of Jharkhand, the Drinking Water and Sanitation Department invites sealed tender offers (Eligibility and Price) for "Hiring of Agency for Implementation of Gobardhan project in Jharkhand".

The summary of tender details is as below:

Sr. No	Item Details	Particulars
1	Tender No.	SBMG/DWSD/Gobardhan/o1/2022-23/01
2	Tender Fee	Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)
3	BID Security (EMD)	Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only)
4	Pre-Bid Conference (Address)	OFFICE OF THE Executive Engineer SWACHH BHARAT MISSION (GRAMEEN) Drinking Water & Sanitation Committee, Gumla Jharkhand Phone: 7488491963, Email: eedwsd.gumla@gmail.com
5	Address of Communication	OFFICE OF THE Executive Engineer SWACHH BHARAT MISSION (GRAMEEN) Drinking Water & Sanitation Committee, Gumla , Jharkhand Phone: 7488491963Email: eedwsd.gumla@gmail.com
6	Telephone Number	7488491963
7	Contact Person	Executive Engineer, DWSD,Gumla
8	Email Contact	eedwsd.gumla@gmail.com

Tender Calendar:

Item Details	Target Date
Date of commencement of availability of the tender Document.	22nd march 2023
Last date to send requests for clarifications on the Tender.	30th march 2022 on E-Mail ID (Executive Engineer ,DWSD,Gumla eedwsd.gumla@gmail.com
Last date and time for submission of bids.	03:00 pm, 3th april 2023
Opening of Eligibility/Technical Bids.	03:00 pm, 4th April 2023

Note: - Eligible bids will be opened in the presence of bidders on the specified date. Notice of any changes will be notified on the official website of DWSD. Further, the Price bid/Financial bid Opening Date; Time & Venue will be intimated to the qualified Bidders on a later date. The Executive Engineer DWSD, Gumla reserves the right to accept, reject any tender Offer or cancel the entire process without assigning any reason thereof.

Executive Engineer
Drinking Water and Sanitation Department, Gumla

PR 293471 Drinking Water and Sanitation (22-23)_D

सिनीडीह में हिंदू नव वर्ष, प्रभात फेरी के साथ मनाया गया

मधुबन(प्रभात मंत्र संवाददाता) : सरस्वती विद्या मंदिर सीनिडीह में चैत्र

शुक्ल प्रतिपदा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम छात्र छात्राओं ने मुराईडीह कॉलोनी में प्रभात फेरी घोष दल के साथ किया। तत्पश्चात विद्यालय में आकर कार्यक्रम किए।कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मधुर गीत, रामचरित्र मानस पाठ एवं भाषणों के द्वारा नववर्ष के महत्व को बताया। प्राचार्य सुनील कुमार सिंह,पूर्व आचार्य रमाशंकर राय, समिति सदस्य उत्तम गयाली, उप-प्राचार्य दुर्गेश नंदन सिन्हा, सभी आचार्य दीदी एवं छात्र छात्राए उपस्थित थे।

गांधी शिल्प बाजार में उमड़ रही शहरवासियों की भीड़

धनबाद(प्रभात मंत्र संवाददाता) : धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में लगे गांधी शिल्प बाजार में शहरवासियों की खासी भीड़ उमड़ रही है। पिछले 3 दिनों से संध्या में बारिश के बाद सामान्य मौसम होने पर मेले में धनबादवासियों की काफी चहल पहल रही। देश के विभिन्न राज्यों की शानदार और अद्भुत कलाकृतियां लोगों को विभिन्न स्टॉल्स में देखने को मिल रहीं हैं। खादी के वस्त्र, गृह सज्जा के सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल फ्लॉवर, बनारसी साड़ी, जूट से बने जूती चप्पल, मधुबनी पेंटिंग, बांस के उत्पाद, बिड्स क्राफ्ट, लकड़ी से बने आकर्षक कलाकृति इत्यादि हस्तशिल्प निर्मित उत्पाद लोगों को बहुत भा रहे हैं। लोग इन देशी कलाकृतियों की खरीदारी कर रहे हैं। मेला का लुत्फ उठाने आए लोगों ने कहा की शिल्पकारों के नये-नये क्रिएटिविटी ऐसे ही मेले में देखने को मिलती है तथा नई और पारंपरिक चीजों को देखने खरीदने का मौका मिलता है। शिल्पकारों ने कहा धनबादवासी उनके उत्पादों को काफी पसंद कर रहे हैं। मेला के शुरुआत में खराब मौसम की वजह से उन लोगों का आवागमन कम हुआ जिससे बिक्री कम थी। लोगों की भीड़ बढ़ने से अब लोग नई-नई कलाकृतियां देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और बिक्री हो रही है तथा आमदनी संतोषजनक है। गांधी शिल्प बाजार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति इसके आयोजक हैं। यह बाजार सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित है। इसमें एंट्री फ्री है।

सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल टीम की हुई घोषणा, धनबाद की दो लड़कियां चयनित

धनबाद (प्रभात मंत्र संवाददाता) : भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित हीरो 27 सीनियर वूमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप खेलने जा रही झारखंड महिला टीम का सिजुआ स्टेडियम धनबाद में चल रही कैंप के बाद घोषणा कर दी गई। टीम की घोषणा झारखंड फुटबॉल संघ के महासचिव गुलाम रब्बानी ने की और सभी खिलाड़ी को खेल का कीट प्रदान किए एवं चैंपियन होकर आने का शुभकामनाएं दिए। मौके पर आशीष बोस, मृदुल बोस, कैंप प्रभारी उदय मिश्रा, कोल फुटबॉल अकैडमी के सचिव सतीश सिंह, मिथुन चौहान आदि उपस्थित थे। टीम मैनेजर रिंकी सोरेन, हेड कोच गोविंद शाहा, सहायक कोच सुभाष लोध, फिजियोथेरेपिस्ट आनंदिता बोस को बनाया गया। टीम में अंजलि मुंडा, जोशना बारा, संध्या टोप्पो (गोलकीपर), सीमा किस्पोट्टा, प्रतीक्षा लकड़ा, प्रिया सांडिल, बिराश मुनि धनवार, नील कुसुम लकड़ा, चमेनी कुमारी, अंजली गाड़ी (डिफेंडर), डोली कुमारी, कोमल कुमारी, लक्ष्मी मार्डी, सलिना कुमारी, संगीता कुमारी (मिडफील्डर), आशा कुमारी (धनबाद), सुष्मिता कुमारी, ममता कुमारी, कुसमा किसपोट्टा, अल्पना कुजूर, ललिता कुमारी (धनबाद), रोशनी तिग्गा (फॉरवर्ड)है।

रेलवे स्टेशन परिसर के समीप हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम

धनबाद(प्रभात मंत्र संवाददाता) : धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान चलाया गया। रोपे गए पौधों की संख्या 106 है। पर्यावरण के नुक़सान को समाप्त कर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य के लिए धनबाद रेल मंडल समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। इससे रेलकर्मीयों के साथ ही आमजनों में पर्यावरण को बचाने हेतु संदेश भी जाता है।

चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोकने वालों की धर-पकड़ के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन "समय पालन"

प्रभात मंत्र संवाददाता

हाजीपुर : पूर्व मध्य रेल द्वारा बिना पर्याप्त कारण अवैध रूप से चेन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाती रही है ।

इसी क्रम पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेषन ''समय पालन'' के तहत् ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि ट्रेनें अनावष्यक रूप से विलंब ना हो ।

इस विषेशअभियान में पिछले 06 दिनों में रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 161 लोगों को हिरासत में लिया गया ।

इन लोगों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई ।

ऑपरेशन ''समय पालन'' के तहत् इन 06 दिनों में सर्वाधिक 89 लोग दानापुर मंडल में पकड़े गये जबकि समस्तीपुर मंडल में 31, सोनपुर मंडल में 21, पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 16 तथा धनबाद मंडल में 04 लोगों को हिरासत में लिया गया ।

विदित हो कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चेन पुलिंग) करके रोकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । लंबी दूरी वाली गाड़ियों में सफर करने वाले यात्री एसीपी के कारण और ज्यादा परेशान हो जाते हैं ।

यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल द्वारा यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ।

नि-क्षय मित्रों की सहभागिता से भारत होगा टीबी मुक्त : उपायुक्त

प्रभात मंत्र संवाददाता

गिरिडीह : समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने अधिक से अधिक नि-क्षय मित्रों की सहभागिता से ही वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो पाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को विशेष प्रयास करना होगा। इस अभियान के तहत नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत रोगियों को पोषण के लिए मिलनेवाले प्रतिमाह 500 रुपये के अतिरिक्त कारपोरेट क्षेत्रों, निजी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए ये प्रखंड या टीबी यूनिट गोद लेंगे। गोद लेनेवाली संस्थाओं को ही नि-क्षय मित्र नाम दिया गया है।* राष्ट्रीय यक्ष्मा रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक क्षय भारत को टीबी रोग मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे

हैं। सरकार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रही है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसी सुविधायें दूर-दराज के इलाकों में भी उपलब्ध हों। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के मरीजों का इलाज उपरोक्त संस्थाओं की ओर से या व्यक्तिगत रूप से जिला, प्रखंड, पंचायत और टोला स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर रोगियों के इलाज के दौरान गोद लेते हुए टीबी मुक्त होने तक या कम से कम छह माह तक इलाज व पोषाहार देकर उन्हें टीबी मुक्त बनाना है। वर्तमान में टीबी के मरीजों को सरकार की तरफ से सहायतार्थ पांच सौ रुपए पोषाहार के लिए मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि उच्च प्राथमिकता के साथ इस अभियान को जन-आंदोलन बनाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि इस बीमारी का रोकथाम संभव है। इसका इलाज प्रभावी और सुलभ है तथा सरकार इस बीमारी का रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के लिए जन भागीदारी बढ़ाना है। साथ ही टीबी रोग पर नियंत्रण हेतु लोगों को सावधानियां बताते हुए जागरूक करने का प्रयास किया जाय, जिससे कि वो जागरूक होकर इस अभियान में हिस्सा लें।

कार्यक्रम में सिविल सर्जन ने बताया कि आने वाले दिनों में घर-घर जाकर टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और टीबी के मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज कराया जाएगा। इसके तहत सभी सहिया बहनें डोर-टू-डोर जाकर कार्यक्रम की सफलता को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी और टीबी जैसी गंभीर बिमारी को आने वाले वर्ष 2025 में भारत को टीबी मुक्त करने में अपना योगदान देंगी।

धनबाद पहुंचे राज्यपाल का अधिकारियों ने किया स्वागत

प्रभात मंत्र संवाददाता

धनबाद : झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन धनबाद पहुंचे। इस दौरान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल धनबाद परिसदन पहुँचे। जहां उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी संदीप सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न देकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात महामहिम राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को धनबाद परिसदन परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।इस दौरान डीआरडीए निदेशक मुमताज अली अहमद, अपर जिला दंडाधिकारी कमलाकांत गुप्ता, जिला वन्य प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालिवाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार बंधु कच्चछप, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सुशांत मुखर्जी, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय, डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहें।

टुंडी : स्वास्थ्य सहियाओं का प्रमाणीकरण संबंधी परीक्षा संपन्न

दीपक पाण्डेय@प्रभात मंत्र

टुंडी : टुंडी प्रखंड के दूबराजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में आज गुरूवार को टुंडी एवं पूर्वी टुंडी के सभी स्वास्थ्य सहियाओं द्वारा प्रमाणीकरण को लेकर ऑनलाइन परीक्षा दिया। बताया जाता है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इस तरह की परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें सैकड़ों स्वास्थ्य सहियाओं द्वारा अपने प्रमाणीकरण संबंधी ऑनलाइन परीक्षा दिया।

सरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न

सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

प्रभात मंत्र संवाददाता

सरिया/गिरिडीह) : रामनवमी पूजा को लेकर सरिया थाना परिसर में थाना क्षेत्र के सभी अखाड़ा समेत राम नवमी पूजा का सफल आयोजन को लेकर शान्ति समिति की बैठक आहूत की गई। जिसकी, अध्यक्षता अनुमंडल पधादिकारी कुंदन कुमार कर रहे थे, वही संचालन अनुमंडल पुलिस पधाधिकारी नौशाद आलम ने की। वही उपस्थित लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने बारी-बारी से रामनवमी जुलूस में होने वाली परेशानी को लेकर अपनी बातें रखी, और समस्या का समाधान हेतु प्रशासनिक महकमा से मांग रखी। जँहा अनुमंडल पदाधिकारी का कुंदन

कुमार ने, आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी तालमेल बैठाते हुए शांतिपूर्ण से पूजा आयोजन करने की बात कही, साथ ही,असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने की बात बताया, वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया सरिया प्रखंड में कुल 29 रामनवमी अखाड़ा का लाइसेंस निर्गत हैं, अगर कोई नई अखाड़ा वाले, नए सिरे से लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है तो वे, थाना प्रभारी के पास आवेदन दे सकते हैं जब कभी निकट भविष्य में लाइसेंस निर्गत करने की बात आएगी , तब उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा, डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, लोगो को जुलुस के दौरान केवल चोंगा यानी की लाउडस्पीकर लगाकर भ्रमण करने का इजाजत होगा उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा का मिशाल पेश करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने का आह्वान किया।

त्योहार की गरिमा बरकरार रख मनाए रामनवमी : उपायुक्त

- रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न
- खतरनाक खेल से परहेज करने की अपील।
- वैमनस्य का माहौल उत्पन्न करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एसएसपी
- अत्याधिक वॉल्यूम के साथ लाउडस्पीकर, डीजे बॉक्स बजाने व अश्लील गानों पर प्रतिबंध।
- नए रूट पर चलने की किसी अखाड़ा को अनुमति नहीं।
- अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन अपनाएगा जीरो टॉलरेंस की नीति।
- शांति समिति के सदस्यों को मिलेगा जिला स्तरीय पहचान पत्र।
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश।

प्रभात मंत्र संवाददाता

धनबाद : रामनवमी को लेकर गुरुवार को न्यू टाउन हॉल में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सभी अखाड़ा दल रामनवमी त्योहार की गरिमा को बरकरार रख हर्षोल्लास पूर्वक त्यौहार मनाए। उन्होंने सभी अखाड़ा दल से खतरनाक खेल से परहेज करने की अपील की। साथ ही जिस स्थान पर अखाड़ा दल इकट्ठा होते हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने का तथा पुलिस प्रशासन की टीम को सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दरमियान सामान्य वॉल्यूम पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु अत्याधिक वॉल्यूम के साथ डीजे बॉक्स बजाने व अश्लील गाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह संदेश डीजे संचालकों को देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा राम नवमी के अवसर पर किसी भी अखाड़ा दल को नए रूट पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति के सदस्यों को जिला स्तरीय पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।

वहीं शांति समिति के स्वयंसेवकों को सभी आवश्यक कांटेक्ट नंबर और पहचान पत्र भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित थाना को सूचित करें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध आईटी एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों पर उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी से पहले झरिया के कतरास मोड़ से सिंदरी तक सड़क को अस्थाई तौर पर दुरुस्त कर दिया जाएगा। जहां बिजली एवं पानी की समस्या है उसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया है।

इस अवसर पर एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि वैमनस्य का माहौल उत्पन्न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर जुलूस में पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एक वीडियोग्राफर भी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में ड्रोन एवं सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसएसपी ने जुलूस के मार्ग पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने, संवेदनशील स्थल व जहां अखाड़ा दल इकट्ठा होते हैं वहां बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने शांति समिति के सदस्यों से निरंतर थाना के संपर्क में रहने तथा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली झूठी खबरों की सूचना तुरंत थाना को देने का निर्देश दिया। जिसमें खतरनाक खेल का प्रदर्शन नहीं करने, ओवर स्पीड बाइक चालकों पर प्रतिबंध लगाने, निर्बाध बिजली आपूर्ति करने, पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सक उपलब्ध रहने, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण करने, डीजे संचालकों पर कार्रवाई करने, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने, स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट को दुरुस्त करने, स्लॉटर हाउस पर नियम लागू कराने, नाबालिग और गैर लाइसेंस धारी चालकों को हाईवा चलाने से रोकने, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, रामनवमी के दिन करकेंद से पुराना थाना तक हाईवा का परिचालन बंद रखने, सहित अन्य सुझाव प्राप्त हुए। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में राणा चट्टराज, भोला राम, मोहम्मद कयूम खान, रामगोपाल भुवानिया, पिंटू कुमार तुरी, महादेव हांसदा, राजेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद अफजल खान, मिराज खान, अक्षय वर प्रसाद, संतोष कुशवाहा, परेश चंद्र दास, गौतम बनर्जी, भगत सिंह, लक्ष्मण तिवारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, कमलेश सिंह, सुंदरी देवी, डीएन प्रसाद यादव, नवाज खान, अब्दुल समद अंसारी, सुखदेव विरोधी, रंजीत कुमार बिल्लू, तारापदो धीवर सहित शांति समिति के अन्य सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखें।

भाजयुमो ने शहीदों को किया याद

गिरिडीह(प्रभात मंत्र संवाददाता) : गुरुवार को गिरिडीह ज़िले में भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह द्वारा भगत सिंह चौक के पास भगत सिंह के प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। साथ ही शाहिद भगत सिंह सुखदेव राज गुरु अमर रहे का नारा बुलंद किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यरूप से प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका रंजन ने कहा की भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश स्तर पर ब्लड डाइक्रेटरी का प्रकाशन करेगी। वही कार्यक्रम में भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि तीन स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। बेहद कम उम्र में इन विरो ने लोगो के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ी। मौके पर जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंसी, सुभम पांडे, गौरव विश्वकर्मा, अभिजीत विश्वकर्मा,विशाल कुमार, नवीन बर्मन, लखन गुप्ता ,आकाश कुमार, मोनू केशरी,राजेश विश्वकर्मा, श्रेयांश सिन्हा।

शहादत दिवस के मौके पर किया गया श्रृद्धांजलि सभा का आयोजन

प्रभात मंत्र संवाददाता

महुदा : युवा भारत के तत्वधान में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के मौके पर श्रृद्धांजलि सभा का आयोजन महुदा पंचायत के तुरी टोला के मुफ्त शिक्षा केंद्र के सभागार में किया गया। जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य मनीष आनन्द ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रखंड समन्वयक भागीरथ सिंह एवं विशिष्ट अतिथि ग्राम स्वराज अभियान के संस्थापक जगत महतो , केसरगढ़ पंचायत समिति सदस्य सुरेश रजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जर्नादन महतो उपस्थित रहें। कार्यक्रम का शुरुआत शहीदों के तस्वीर पर माल्यार्पण व क्रांतिकारी गीतों के साथ सुरु किया गया। मुख्य अतिथि श्री भागीरथ सिंह ने कहा कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के पद चिन्हों में समाज को चलना चाहिए । मौके युवा भारत के जिला सलाहकार जमील अख्तर, प्रभारी रेनू कुमारी, राधु राय, नैंसी टांडेल, तहरीन फातमा, नूर फातमा, अजय महतो, किरण शर्मा ने सभा को संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा में खुशी कुमारी, रुखसार परवीन, नाज़नीन ,नेहा कुमारी, पिंकी देवी, शिवानी कुमारी, मधु , राजू राय, शक्ति राय, सुनील, कौशल्या कुमारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहें।

लापता युवक की जंगल में मिली लाश

घटना के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम, आश्वासन के बाद जाम हुआ खत्म

प्रभात मंत्र संवाददाता

गांवा : गांवा थाना क्षेत्र के जरलहिया पहाड़ स्थित जंगल में एक माह से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जंगल में लाश मिलने की खबर फैलते ही जहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। शव की शिनाख्त तिसरी थाना क्षेत्र के सिंघो निवासी जगदीश शर्मा के छोटे पुत्र नुनुलाल शर्मा के रूप में की गई। जो पिछले एक माह से लापता था और इसकी रिपोर्ट भी परिजनों द्वारा तिसरी थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना से मर्माहत परिजनों व ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तिसरी गांवा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए हत्यारे को पकड़ने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन व इलाके के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई धनराज शर्मा ने कहा कि 17 फरवरी की दोपहर को उसका भाई घर से निकला था। जिसके बाद से वह लगातार गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नही चला तो 18 फरवरी को मृतक के पिता द्वारा तिसरी थाना में आवदेन दिया गया था। इस बीच पुलिस प्रशासन भी युवक की तलाश में जूटी हुई थी। वहीं 1 माह 6 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को उसका शव जरलहिया, धनेता पहाड़ी के जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। इधर सूचना मिलने के बाद गावां पुलिस व तिसरी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही मामले की जांच में जूट गई है।

सीआईएसएफ ने छापामारी कर अवैध कोयला किया बरामद

प्रभात मंत्र संवाददाता

झरिया : भौरा ओपी क्षेत्र के 12 नंबर में सीआईएसएफ के टीम ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला को जब्त किया। इधर स्थानीय लोगों का कहना था कि भौरा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कोयला लोहा की तस्करी चरम पर है। यहां पुलिस और सीआईएसएफ एवं सफेदपोश नेताओं की मिली भगत से भारी मात्रा में अवैध कोयला की तस्करी की जाती है। रात के अंधेरे में बड़ी-बड़ी गाड़ियां लोड होकर यहां से निकलते हैं और साइकिल के माध्यम से विनोद पुल के रास्ते साइकिल, स्कूटर एवं गाड़ियों से कोयला की तस्करी की जा रही है। जिसे ना तो जिला प्रशासन रोकने का प्रयास कर रही है ना सीआईएसएफ ही रोकने का प्रयास कर रही है जिसे कारण कोयला चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

मोदी सरकार से कांग्रेस डरने वाली नहीं है : ब्रजेन्द्र

प्रभात मंत्र संवाददाता

धनबाद : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह ने धनबाद जिला 20-सूत्री कार्यालय में वार्तालाप के क्रम में कहा कि राहुल गांधी अन्याय और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं तो उन्हें सीबीआई, ईडी, इन्कम टैक्स यहाँ तक की एफआईआर करके मोदी सरकार डराने का काम कर रही है। आगे श्री सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सत्य एवं अहिंसा के सिपाही है। सरकार और सरकारी तंत्र के दबाव और और असत्य के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। देश की जनता देख रही है कि किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो सत्य बोलने में साहस करता है और सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उन पर सीबीआई, ईडी, इन्कम टैक्स लगाया जा रहा है। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। प्रेम भाईचारा और सद्भावना का संदेश के साथ-साथ तानाशाह को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे भी संघर्ष करते रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निचली अदालत से

सजा दी गई है लेकिन मुकदमे के आधार पर मै पूर्ण आश्वस्त हूं कि ऊपरी अदालत में राहुल गांधी बरी होंगे। मौके पर मुख्य रूप से मनोज कुमार यादव, पप्पु कुमार तिवारी, डीएन यादव, रमेश राय, शशिशेखर सिंह, मुजाहिद शेख सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर धनबाद जिला के कई गणमान्य लोगों ने श्री सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में धनबाद जिला में विकास में तेजी आएगी।

प्रभात मंत्र
e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com
लोहरदगा/सिमडेगा
रांची, शुक्रवार, 24 मार्च 2023| पेज 11

संक्षिप्त खबरे

ओडगा ईंट भट्ठा में काम करने वाले 19 मजदूरों का श्रम विभाग में किया गया निबंधन

प्रभात मंत्र संवाददाता

सिमडेगा : श्रम अधीक्षक सिमडेगा के निर्देश पर आज जलडेगा प्रखंड अंतर्गत ओडगा शाहजहां ईंट भट्ठा में काम करने वाले 19 मजदूरों का श्रम विभाग में निबंधन के लिए आवेदन जमा किए गए। श्रम अधीक्षक पुनीत मिंज ने कहा है कि मार्च 2023 तक सभी ठेकेदार/भट्ठा मालिक अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का हर हाल में निबंधन करा लें, मार्च के बाद जांच अभियान चलाया जायेगा। वहीं जांच के क्रम में बिना निबंधित मजदूर काम करते पाए जायेंगे तो संबंधित मालिक/ संचालक के ऊपर कारवाई की जायेगी। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को भी श्रम विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य है।

भगत सिंह को समझने के लिए युवा उनके दस्तावेजों को पढ़ें : उपायुक्त

भगत सिंह की तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें युवा : पुलिस अधीक्षक

प्रभात मंत्र संवाददाता

लोहरदगा : शहीद दिवस के अवसर पर आज दिनांक 23.03.2023 को भगत सिंह वैचारिक संस्मरण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन, लोहरदगा में किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत में उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार, सीआरपीएफ कमाण्डेंड राहुल कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल समेत पदाधिकारियों द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की चित्र पर दीप जलाकर,माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त, लोहरदगा ने कहा कि भगत सिंह को पूरी तरह समझने के लिए आज की युवा पीढ़ी को उनके दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने जेल में रहने के दौरान फांसी के पूर्व लिखे थे। उनके दस्तावेजों में सामाजिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवाद की बात कही गई है। देश में जमींदारी प्रथा समाप्त करने,जमीन का राष्ट्रीयकरण व सामूहिक खेती, उद्योग का राष्ट्रीयकरण एवं देश मे औद्योगीकरण, सार्वभौमिक शिक्षा, आवास की गारंटी, सभी वयस्क/पुरूष व महिला को मत देने का अधिकार, आर्थिक स्वंतत्रता हेतु राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य, किसानों के सभी शुल्क माफ करने संबंधी योजनाओं की बात कही गई है। उन्होंने काफी कम उम्र मात्र 23 वर्ष की आयु में वो कर दिया जो ताउम्र जीवन के बाद भी लोग नहीं कर पाते। इतनी कम उम्र में उनके विचार काफी स्पष्ट थे। आज के युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद भगत सिंह ने अपने लिखे दस्तावेज के माध्यम से क्रांति का अर्थ बताया और गांव के किसान व मजदूरों को असली क्रांतिकारी सेना बताया है। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को जिला प्रशासन द्वारा सद्भावना मंच से जोड़ा जा रहा है। इस दिशा में काफी सकारात्मक परिणाम जिला प्रशासन को मिला है। आज गांवों में स्कूलों व कॉलेजों में काफी संख्या में युवा सद्भावना मंच से लोग जुड़े हैं। पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा ने कहा कि आज के युवा अपने समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति में करें। अत्याधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल करें, दुरुपयोग न करें और अपनी उर्जा सही जगह लगायें। शहीद भगत सिंह का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। आप भी लक्ष्य तय कर लें और उसके प्राप्त करने के लिए अपनी योजना की दिनचर्या तय कर लें। जिला प्रशासन लोहरदगा द्वारा युवाओं की बेहतरी के लिए उन्हें आईआईटी, जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शोकाकुल परिवारों की हर संभव सहायता करेगी कांग्रेस : आलोक साहू

लोहरदगा (प्रभात मंत्र संवाददाता): कुडू प्रखंड के ग्राम कड़ाक के समीप 2 दिन पूर्व हाईवा एवं मोटरसाइकिल का आमना-सामना दुर्घटना हुआ था जिसमें कालीपुर गांव के रहने वाले नवीन यादव एवं ज्योति किंडो छात्रों की मृत्यु हो गई थी। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक कुमार साहू आज गुरुवार को अपने सहयोगियों के साथ कालीपुर गांव पहुंचकर दोनों शोकाकुल परिवारों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिए। मौके पर से ही श्री साहू ने जिला आपदा पदाधिकारी से वार्ता कर 2 लाख मुआवजा शीघ्र देने की बात कहें। आपदा पदाधिकारी ने कहा कि कागज उपलब्ध कराइए दो लाख की राशि शोकाकुल परिवारों को दिया जाएगा। मौके पर शोक व्यक्त करने वालों में लोहरदगा विधानसभा युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष लाल विकास नाथ शाहदेव, लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पप्पू सहदेव, अर्जुन उरांव, यूनुस पवरिया, पाहन धनेश्वर मुंडा, विमल उरांव इत्यादि थे।

उपायुक्त ने रामनवमी पूजा को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित की बैठक

प्रभात मंत्र संवाददाता

लोहरदगा : उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज रामनवमी-2023 में विधि-व्यवस्था संबंधित बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न अखाड़ा संचालकों की ओर से निकाले जाने वाले जुलूस व संबंधित रूट की समीक्षा प्रखंडवार की गई। इस दौरान रामनवमी के दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के गतिविधियों की प्रति घंटा खैरियत रिपोर्टिंग के लिए कंट्रोल रूम का गठन करने का निदेश दिया गया। विशेष परिस्थितियों से निबटने के क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन करने का निदेश दिया गया। त्योहार को देखते हुए चिन्हित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराये जाने का निदेश दिया गया। जुलूस रूट में युवा सद्भावना मंच की ओर से अभिनंदन मंच तैयार किया जाएगा। सभी मंच पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। सभी डीओजे संचालकों से शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने का निदेश दिया गया। सभी थानों द्वारा धारा-107 संबंधी कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी,सीसी टीवी से निगरानी,जोनवार गाड़ियों में लाइट व जनरेटर की व्यवस्था, हर जुलूस के साथ वीडियोग्राफी तथा वोलेंटियर के लिए पहचान पत्र दिए जाने का निर्देश दिया गया। रामनवमी के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु दिनांक 27.03.2023 को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक में पुलिस अधीक्षक आर0रामकुमार, उप विकास आयुक्त समीरा एस0,अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह, डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।

जलडेगा में पुलिस कारवाई के बावजूद लुकी-छिपी बेची जा रही है अवैध शराब

प्रभात मंत्र संवाददाता

जलडेगा : जलडेगा अखरा टोली में शराब के नशे में युवक द्वारा अपनी माँ से मारपीट करने के बाद महिला समूह में आक्रोश भड़क गया। रूपा महिला समूह की महिलाओं ने बैठक कर युवक को सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नही करने को कहा। इसके बाद समूह की महिलाओं ने जलडेगा थाना में एस आई बीरेंद्र शर्मा एवं धीरज उरांव को आवेदन देकर अखरा टोली में शराब की बिक्री पर रोक लगाने को कहा। महिलाओं ने कहा कि अखरा टोली सहित कई क्षेत्रों में लगातार महुआ की अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है जिसके कारण कई युवा इनका सेवन कर अपना एवं अपने घर का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जलडेगा पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर इसे खत्म करने का प्रयास कर रही है जिसके तहत अब तक भारी मात्रा में अवैध रूप से चुलाई के लिए रखे जावा महुआ को नष्ट किया जा चुका है बावजूद इसके शराब बेचने वालों के हौसलों में कमी नही आई है शराब बेचने वाले कई तरह के हतकंडे अपना कर इसे बेचने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने स्कूल एवं मंदिर के निकट अंग्रेजी शराब के दुकान को भी हटाने की मांग की है। जलडेगा पुलिस ने मामले पर कारवाई करने की बात कही है साथ ही महिलाओं से अपील की है कि शराब निर्माण की जानकारी पुलिस को जरूर दे उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी एवं उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इससे पूर्व महिलाओं ने समूह की बैठक में शराब बनाने वालों पर अपने स्तर से दस हजार रुपये जुर्माना लगाने की बात कही है। मौके पर मुखिया बालमुनि लुगुन, शमीमा खातून, अख्तरी खातून, नोमि देवी, आसिया प्रवीण, सुचिता देवी, शकुंतला देवी सहित कई महिलाओं की उपस्थिति रही।

पीएम आवास लाभुक के साथ बीडीओ ने किया बैठक कहा 15 दिनों में आवास करें पूर्ण

सेन्हा-लोहरदगा (प्रभात मंत्र संवाददाता): सेन्हा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार चोपड़ा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुको के साथ बैठक सम्पन्न हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार चोपड़ा अधरनिर्मित आवास के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुको को इस लिऐ बुलाया गया की आप के द्वारा 40 हजार रूपया निकाल कर काम प्रारंभ नही किया गया है। आप सब दो दिन के अंदर राशि को वापस करें अन्यथा कार्य को प्रारंभ करें घर दो कमरा का ही बनाए, बड़ा घर बनाएगा तो परेशानी हो सकता है और घर भी नही बनेगा। वैसे लाभूक जो छत ढलाई नही किए है वह दो कमरा की ढलाई 15 दिन के अंदर अर्धनिर्मित आवास कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा पीएम आवास सूची में नाम होने पर भी नही दिया जा रहा है की खर्च की उपयोगिता जमा करने पर ही सूची वाले लाभुक को लाभ मिलेगा। इस लिए आप घर बनाए नही तो मजबूरी में प्राथमिकी दर्ज करने की बात बताते हुए कहा कि आवास निर्माण अपने जमीन में ही करें। वहीं कुछ लाभुक के द्वारा बैंक समस्या बताते हुए निदान करवाने की मांग किया। जिसपर श्री चोपड़ा ने रोजगसेवक को निर्देश देते हुए लाभुक के साथ बैंक जाकर समस्या निदान करने का आदेश दिया गया। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार सेवक द्वारा जांच प्रतिवेदन के उपरांत नियम संगत कारवाई बैंक के विरुद्ध किया जाएगा। मौके पर बीडीओ अशोक कुमार चोपड़ा, बीपीओ निलेंद्र कुमार, अजय कुमार, नंदकिशोर महतो आदि उपस्थित थे।

कैरो प्रखंड कार्यालय में शहीद दिवस पर भगत, सुखदेव और राजगुरु को अधिकारियों ने दिया श्रद्धांजलि

कैरो-लोहरदगा (प्रभात मंत्र संवाददाता): प्रखंड कैरो जिला लोहरदगा के अंतर्गत 23 मार्च गुरुवार को शहीद दिवस पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड अंचल अधिकारियों के द्वारा अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर, और शिवराम राजगुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गयी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख श्री राम उराँव ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर,और शिवराम राजगुरु को आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 बजे अंग्रेजो ने फाँसी दे दी थी। क्रांतीबीरो की बलिदानी को हमेशा याद रखेगा देश। मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी पवन कुमार महतो ने कहा कि शहिद भगत सिंह,सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने अपने संक्षिप्त जीवन मे वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई है उनके बाद अब किसी भी के लिए सम्भव नहीं है। अंचलाधिकारी श्री कमलेश उराँव ने कहा कि देश आज 23 मार्च को शहिद दिवस मना रहा है, आज की तिथि भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। उन्होने कहा व्यक्ति को मारा जा सकता है,उनके बिचार को नहीं, बड़े बड़े साम्राज्यो का पतन हो जाता है,लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। मौके पर आज उक्त शहीद दिवस पर उपरोक्त अधिकारियो के अलावा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मृणाल प्रकाश, संन्यवक आकाश कुंवर, सहायक अभियंता राजीव कुमार, अमन शिखर, इन्द्रदेव कच्छप, अमित कुमार इत्यादि प्रखंड एवं अंचल कर्मी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ नवनिर्मित हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम

प्रभात मंत्र संवाददाता

सेन्हा-लोहरदगा : प्रखंड क्षेत्र के चमडू ग्राम में नवनिर्मित हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पंडित मुकुल मणि मिश्रा द्वारा कलश यात्रा के साथ प्रारम्भ कराया गया। वैदिक मंत्रोचारण के साथ पूजन हवन के उपरान्त 300 महिला भक्तों द्वारा चमडू ग्राम स्थित स्वर्ण झरिया नदी से जल लेकर मन्दिर लाया गया। नवनिर्मित हनुमान मंदिर का प्रण प्रतिष्ठा के लिये यज्ञ पूजन प्रारम्भ कराया गया। वही ग्रामीणों का कहना है। कि मन्दिर का निर्माण चमडू ग्राम निवासी जितना नायक एवं चांदमुनी देवी के द्वारा कराया गया है। जो अत्यन्त ही गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। श्रद्धा और भक्ति के आगे गरीबी आड़े नही आया जिसे उत्साहित होकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सहयोग किया मौके पर विकाश कुमार बचनदेव, प्रेम, रोहित, दिलीप नायक, सजीवान, दिलीप, नितेश, आशीष, सोनू, संदीप सहित सैकड़ो ग्रामीण भक्त मौजूद थे।

न्यायपालिका का राजनीतिकरण करना बंद करे मोदी सरकार : सुखैर भगत

प्रभात मंत्र संवाददाता

लोहरदगा : गुरुवार को लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ने और हरेक दमनकारी चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुखैर भगत के नेतृत्व में कि गई और उन्होंने बताया कि सूरत न्यायालय गुजरात द्वारा राहुल गांधी जी को 2 साल कि सजा सुनाई जाने पर हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की दमनकारी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं और संकल्प लेते हैं कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं और उनके संघर्ष की आवाज बनेंगे। न्यायपालिका का राजनीतीकरण बन्द करे मोदी सरकार, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं,राहुल जी सत्य के मार्ग पर चल कर भाजपा सरकार एवं उनके नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बढ़ते लोकप्रियता से भाजपा और मोदी सरकार घबराए हुए हैं देशहित और जन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी हमेशा से तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक मुखर होकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और देश के सामने मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं और इसी वजह से मोदी सरकार राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं को कभी सीबीआईऔर ईडी जैसे संस्थाओं का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल तो करते रहे हैं।

24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन पूणहुती के उपरांत हुआ समापन

प्रभात मंत्र संवाददाता

सेन्हा-लोहरदगा : नवनिर्मित दुर्गा मंदिर प्रांगण सेन्हा में हिंदी माह के नव वर्ष पर 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन का समापन पूर्णहुती के उपरांत किया गया। सेन्हा प्रखंड मुख्यालय के समीप दुर्गा मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर नव वर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन आयोजन हिन्दू संगठन द्वारा किया गया था। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में गांव के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग सहित समस्त ग्रामीणों का सार्थक सहयोग मिला। जानकारी के अनुसार बता दें कि अखंड हरिकीर्तन का आयोजन चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पावन अवसर पर कलश यात्रा के उपरांत बुधवार को किया गया था। जो लगतार 24 घंटे तक कीर्तन मंडली द्वारा हरे राम हरे कृष्णा का उद्घोष किया गया। जिसमें महिला पुरुषों सहित नवयुवक एवं बच्चे बच्चियां शामिल थे। वहीं गुरुवार को पुरोहित सूर्यनरायन पाठक व अवनीश पाठक के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवा कर हरिकृतन का कार्य सम्पन्न कराया गया। वहीं बुद्धिजीवी एवं सामाजिक व्यक्तियों का कहना है कि समाज के बीच धर्मिक अनुष्ठान से धर्म व समाज के प्रति शिक्षा का संचार होता है। आयोजित 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन समापन के दौरान राम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

भंडरा प्रखंड मुख्यालय में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर निकली भव्य शोभायात्रा

भंडरा-लोहरदगा (प्रभात मंत्र संवाददाता): सरना समिति भंडरा के तत्वावधान में गुरुवार को भंडरा प्रखंड मुख्यालय में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। भंडरा मवि आखड़ा से प्रारंभ कर शोभायात्रा कुंबाटोली, मुख्यपथ होते हुए नौडीहा चौक पहुंच कर समाप्त हुआ। सरहुल जुलूस का नेतृत्व पाहन बुधराम उरांव व मुखिया इंद्रदेव उरांव ने किया। शोभायात्रा निकलने से पहले सरना समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि मुखिया इंद्रदेव उरांव व विशिष्ट अथिति भंडरा के पूर्व जिला परिषद सदस्य सामिल उरांव का स्वागत माला पहना कर व बैच लगाकर किया। मौके पर मुख्य अतिथि इंद्रदेव उरांव ने कहा कि सरहुल पर्व हमें आपसी-भाईचारगी का संदेश देता है। सरहुल पर्व में पहान-पुजार गांव की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। जिस तरह पेड़-पौधे अपने पुराने पत्ते को छोड़ नए पत्ते और हरियाली देती है। ठीक उसी प्रकार सरहुल पर्व भी हमें गांव में सुख-शांति देने का काम करती है। जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर नगाड़ा बजाया और सरहुल पर्व का एक-दूसरे को बधाई दी। पहान बुधराम उरांव ने कहा कि सरना स्थल व आखड़ा में गांव के सुख-समृद्धि के लिए गांव के पहान-पुजार द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की,ताकि नए वर्ष में सभी के घरों में सरना मां सुख-शांति व अपनी कृपा बनाएं रखे। इसके बाद परंपरागत तरीके से सरहुल जुलूस निकला। सरहुल महोत्सव में प्रखंड के कसपुर,सेमरा,गडरपो, पलमी,चट्टी,भौंरो, बलसोता,पोड़हा,मकुंदा,नगड़ी,भीठा सहित दर्जनों गांव के लोग पहुंचे। सरहुल जुलूस में शामिल लोगों को प्रसाद के रूप में चूड़ा, गुड़ व चना दिया गया। मौके पर सोमरा उरांव, राजेंद्र उरांव, राजू उरांव, विजय उरांव, चंदर बघवार, सतेंद्र उरांव, पिंटू उरांव, बैजू साहू, राजमनी उरांव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।

नेशनल यूथ पार्लियामेंट में शामिल हुए अजातशत्रु

प्रभात मंत्र संवाददाता

लोहरदगा : भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 19 मार्च 2023 को चेन्नई के एस.आर.एम. विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम भाजयुमो के युवा कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रदेशों से किया। कार्यक्रम में युवाओं भारत के राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के मंत्री और सांसद के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में युवा और खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर बहस, चर्चा और प्रस्तुति की गई। जिसमें धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती से झारखंड भाजयुमो प्रदेश के मंत्री अजातशत्रु शत्रु, शामिल हुए प्रश्नोत्तर काल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने पक्ष रखे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात प्रदेश मंत्री अजातशत्रु ने कहा कि पहला राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होना गौरव का क्षण रहा है इसके लिए भाजयुमो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं।भाजयुमो की एक अद्भुत पहल है, जो युवा शक्ति को देश के विकास और प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भाजयुमो के युवा कार्यकर्ता राजनीति में प्रतिनिधित्व करते है। युवा केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास में भागीदार भी हैं। ऐसे कार्यक्रम युवा कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति को मुखर करने,अनेक राष्ट्रीय मुद्दों पर अनुसंधान करने और संसदीय प्रक्रियाओं को समझने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि इस कार्यक्रम उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा एवं राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चूक, लोकसभा मुख्य सचेतक राकेश सिंह, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गुरुप्रकाश पासवान, सहजाद पूनावाला, लद्दाख के युवा सांसद जामयांग तिसरिंग नमगयाल तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, के द्वारा की गई। देश के सर्वोच्च मंच पर कार्यकर्ताओं को बड़े नेतृत्व कर्ताओं का सानिध्य कार्यकर्ता के आत्मबल मजबूत और कार्य करने की क्षमता में दुगनी ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे समारोह में हमारे देश के अंदर रहने वाले विभिन्न कलाओं और परिस्थितियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। जब किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है।

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेन्हा का वार्षिक परीक्षा फल हुआ वितरण

प्रभात मंत्र संवाददाता

सेन्हा-लोहतदगा : प्रखंड मुख्यालय स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सेन्हा में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड समन्वयक पंकज कुमार तथा विशिष्ट अतिथि सुदेश्वर साहु, अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ला, प्रधानाचार्य बिमलेश कुमार तिवारी द्वारा,भारत माता और सरस्वती जी का चित्र पर माल्यार्पण किया गया। परीक्षाफल वितरण कक्षा अरुण से नवम तक के भैया बहनों का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस अवसर पर कक्षा सह प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया- बहनों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन के लिये सम्मानित किया गया। वही अलग अलग केटेगरी में छात्र छत्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। जिसमे विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांक के रूप में कक्षा उदय से भैया अनुराग अनंत को अनुशाशन के लिए कक्षा अष्ठम से बहन अंशु कुमारी को उपस्तिति के लिए कक्षा नवम सेआदित्य कुमार को स्वक्षता के लिए कक्षा नवम से बहन सुभद्रा कुमारी को पुरस्कृत किया गया। साथ ही भैया बहनों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अनुशासन, उपस्थिति एवं नैतिकता के लिए भी अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। विषयशः अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले भैया बहनों को एवं पूरे विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले भैया एवं बहन को पुरस्कार प्रदान करके उन्हें आगामी कक्षा में और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा दी गई। परीक्षाफल वितरण समारोह का प्रारंभ ब्लॉक कॉर्डिनेटर पंकज कुमार एवं समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान सुदेश्वर साहू संयुक्त रूप से पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। अतिथियों का परिचय एवं कराते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य विमलेश कुमार तिवारी ने कहा कि सतत अभ्यास और निरन्तर प्रयास से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मुख्य अतिथि पंकज कुमार ने कहा कि संस्कारवान वातावरण में रहकर ज्ञान प्राप्त करना सफलता का मूल मंत्र है। विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ला ने कहा कि उत्साहित और ऊर्जावान हो कर नियमित अध्ययन करने से ही हमेशा बेहतर परिणाम आते हैं। और सफलता मिलती है। मौके पर परीक्षा प्रमुख डॉली कविता, मालती कुमारी, जयप्रकाश सिंह, सुषमा देवी,मीना देवी, रामकुमार प्रसाद, गंगा कुमारी, चांदनी कुमारी के अलावे छात्र छात्राएँ और अभिभावक उपस्थित थे।

प्रभात मंत्र

e-mail : prabhatmantraranchi@gmail.com

चलते चलते एक नजर

बरकत वाला का महीना रमजान आज से शुरू : मौलाना डॉ असगर मिस्बाही

रांची। मौलाना डॉक्टर असगर मिस्बाही इमाम ईदगाह रांची ने बताया कि रमजान उल मुबारक का महीना शुरू हो गया। यह महीना खैर व बरकत वाला का महीना है। अल्लाह के नबी सल्ला. ने फरमाया कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते है। और इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। यह महीना कुरान नाजिल (उतरने) का महीना है, रोजो का महीना है। तरावीह और कुरान की तिलावत का महीना है। गरीबों, यातिमो, मिस्किनो को मदद करने का महीना है। इस महीने में नेकियो का भाव बढ़ जाता है। अगर कोई शख्स रमजान में नाफिल नमाज़ पढ़ेगा तो उसको फ़र्ज़ के बराबर स्वाब मिलेगा। और जो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेगा उसको 70 फर्जो के बराबर सवाब मिलेगा, मुसलमानों को चाहिए कि रमजान महीने का कद्र करे, रोजो का एहतमाम, तरावीह का एहतमाम, सेहर, इफ्तार का एहतमाम पाबंदी से करें। साथ ही साथ गुनाहों से यानी गीबत, चुगली, झूंट, धोका, और लड़ाई झगडे से दूर रहें। और रोजे की हालत में अजनबी औरतों को देखने से बचे।

भाकपा ने भगत सिंह ,राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस मनाया

रांची। सरदार भगत सिंह ,राजगुरु सुखदेव का 92 वां शहादत दिवस मनाया ।सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। राज्य कार्यकारणी सह जिला मंत्री अजय सिंह ने सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि शहीद ए आजम भगत सिंह ,राजगुरु और सुखदेव के विचारो की जरूरत आज की युवा पीढ़ी को ज्यादा है।जिस तरह से देश में आज बेरोजगारी, महंगाई, और शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है ,और पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है । जो उनके विचारो के उलट है। शहीद ए आजम भगत सिंह का सपना था की देश में समता मूलक समाज का निर्माण हो ,विदेशी बनिए जाए तो देशी बनिए का राज न हो । शहीद ए आजम भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणा दायक है। आज भी शहीद ए आजम भगत सिंह करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल है।क्रांति तलवारों से नही विचारो के सान से होती है। इस कार्यक्रम में महिला नेत्री फरजाना फारूकी, राजद के राजेश यादव, सीपीआई राज्य परिषद सदस्य इसहाक अंसारी, मनोज पाठक, राजेश राय,अरुण गुप्ता राहुल वर्मा,जीत ,अनिरुद्ध पाठक मनोज ठाकुर सहित कई पार्टी के कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने भगत सिंह ,राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस मनाया

रांची। स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सरदार भगत सिंह ,राजगुरु सुखदेव का 92 वां शहादत दिवस झारखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा पत्रकारिता बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया । इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। पत्रकारों ने सामुहिक रूप से कहा कि शहीद ए आजम भगत सिंह ,राजगुरु और सुखदेव के विचारो की जरूरत आज की युवा पीढ़ी और पत्रकारों की निर्भीक लेखनी के लिए ज्यादा जरूरी है। शहीद ए आजम भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणा दायक है। इस अवसर पर महासचिव सुनील सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मनोज पाठक कोषाध्यक्ष ,संजीत झा , उपाध्यक्ष परवेज कुरैशी, उपाध्यक्ष आकाश सिंह , अजय सिंह सहित कई पत्रकार गण उपस्थित थे।

नगर निगम में वंशवाद की राजनीति करने वाले को महापौर अरुणा शंकर ने दिया करार जबाब

पांच छोड़िए, तीन पुश्त में तीन काम बताएं : महापौर

प्रभात मंत्र संवाददाता

मेदिनीनगर : महापौर अरुणा शंकर ने वंशवाद की राजनीति करने वाले को करारा जवाब दिया है। नगर निगम में वंशवाद की राजनीति करने वाले पूर्व अध्यक्ष व उनके परिवार को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्षा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बातों की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया है कि 2004 मे तालाब का डीपीआर उनके कार्यकाल में बना था। साथ ही दोनों तालाब के बीच फ्लाईओवर भी था। तो ऐसे में वे यह जवाब दें कि 2018 तक तो उन्हीं का परिवार अध्यक्ष था। फिर 14 वर्षों में उस त्रुटि को क्यों नहीं, उन पारिवारिक अध्यक्षों ने दूर कराया। 14 वर्ष में जब फ्लाईओवर अचानक गायब हो गया तो उस वक्त क्यों नहीं उन लोगों की नींद खुली। 14 वर्षों में क्यों नहीं आपके एवं आपके परिवार के अध्यक्षयो द्वारा फ्लाईओवर को खोजा गया। 10 वर्षों के बाद आज 2004 के बाद 2023 में क्यों नींद खुली ? महापौर अरुणा शंकर ने कहा कि सच्चाई यह है कि आपके और आपके परिवार के अध्यक्षों द्वारा कभी भी उस रास्ते के बंद हो जाने का दर्द समझा ही नहीं गया था। अगर समझे होते तो आपके बोर्ड से वह नक्शा पारित ही नहीं होता। जिसकी खामियाजा वहां के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं द्य खैर चिंता ना करें, वह रास्ता मैं खुलवा कर रहूंगी। क्योंकि मुझे आने जाने वालों का दर्द पता है।रही बात अंबेडकर की मूर्ति को सुनहरे रंग में होने का, मरीन ड्राइव को फिर से

बात बनाने से नहीं विजन से होता है विकास

अतिक्रमण मुफ्त कराने का, तो मुझे कतई आप सबो द्वारा उठाए गए ऐसे घटिया सवालो से चोट नहीं पहुंचता है। क्योंकि मुझे आप लोगों की मानसिकता का पता है। यही कारण है कि आप सपरिवार 66 वर्षों के कार्यकाल में एक भी पार्क शहर को नहीं दे सके। साथ ही व्यवसायियों का किराया 1 रुपया से बढ़ कर 6 रुपया कर दिया। उन्होंने कहा कि रही बात बड़े तालाब एरिया या गांधी मैदान के भागो को अतिक्रमण मुक्त कराने का तो, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मेरा विश्वास लोगों को बसाने में है ना कि एंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों को उजाड़ने पर। बड़ा धोबी घाट बनाने का, गांधी मैदान और बड़ा तालाब के बाहर तालाब या गांधी मैदान के बाहर सारे हमारे व्यवसाई भाई बसे हैं। मुझे व्यवसाई भाइयों का दर्द पता है। मैं एंक्रोचमेंट के नाम पर किसी व्यवसायियों को उजाड़ना नहीं चाहती। अरुणा शंकर ने कहा कि पूर्व महोदया मुझसे चर्चा करनी है तो धोबी घाट, सुनहरा रंग, एंक्रोचमेंट मुक्त जैसे बेकार के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर चर्चा करें। क्योंकि विकास बात से नहीं, विजन से होता है। यही कारण है कि पिछली बार मैंने आपके 66 साल के कार्यकाल में किए पांच काम बताने को कहा था। लेकिन आज तक नहीं बता पाए। चलिए, आपके तीन पुश्तों ने निगम में राज किया है। कम से कम तीन ही काम जनता को आप बता दें। आप सबों के जवाब का जनता को और मुझे इंतजार रहेगा।

राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला संकल्प मार्च

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची। सुरत हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम की टिप्पणी पर दोषी करार दिये जाने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में सैक?ों कांग्रेसी कांग्रेस भवन से संकल्प मार्च निकाल कर सुभाष चौक, शहीद चौक होते हुए अलबर्ट एक्का चौक पहुंचे। जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सबको पता है कि राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस तो कभी सजा से डराने में जुटा है। हम ल?ेंगे भी और जीतेंगे भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कानून के तहत ल?ेंगे। इस संकल्प मार्च में कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, प्रदीप तुलस्यान, केशव महतो कमलेश, अमुल्य नीरज खलखो, राकेश सिन्हा, मदन मोहन शर्मा, रवीन्द्र सिंह, विनय सिन्हा दीपू, गजेन्द्र सिंह, सुरेश बैठा, रंजन बोयपाई, राजीव रंजन प्रसाद,आभा सिन्हा,डॉ एम तौसीफ, ईश्वर आनंद, महानगर अध्यक्ष डॉ कुमार राजा, ग्रामीण अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।

अविनाश देव ने शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को किया नमन

प्रभात मंत्र संवाददाता

मेदिनीनगर: गुरुवार को संत मरियम स्कूल के आवासीय परिसर में शहीद दिवस मनाया गया। विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव द्वारा सर्वप्रथम शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। मौके पर अपने संबोधन में अविनाश देव ने कहा कि आज ही के दिन 23 मार्च को हमारे देश के तीन महान देशभक्त भगत सिंह ,राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। देश की आजादी में इनके योगदान की शौर्य गाथाएं को गाते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र इन महान विभूतियों को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इनके शौर्य और बलिदान से

प्रेरणा लेनी चाहिए कि कम उम्र में भी देश की अस्मिता की रक्षा में तीनों महान विभूतियां हंसते-हंसते फांसी के झूले पर लटक गए। इतिहास साक्षी है कि इनके शहीद होने के पश्चात पूरे देश में स्वतंत्रता के प्रति व राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में एक क्रांति आ चुकी थी। देश को स्वतंत्रता की राह दिखाकर ये सभी महान विभूति पूरे देश को अपना कर्जदार बना गए।।अंत में श्री देव ने कहा कि हम सभी को केवल शहीद दिवस के दिन ही नहीं बल्कि अपने दैनिक दिनचर्या में स्मरण रखते हुए उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। मौके पर सभी शिक्षक मौजूद रहे।

अभिमन्यु के नेतृत्व में प्रभावित रैयतों ने की आपात बैठक

प्रभात मंत्र संवादाता

बिश्रामपुर (पलामू) : एनएचएआई 39 अधिग्रहण में प्रभावित रैयतों की बैठक गुरुवार को विश्रामपुर प्रखंड के जरका स्थित दुर्गा मंदिर स्थित के निकट बाजार प्रांगण में की गई। जिसका नेतृत्व विश्रामपुर विधानसभा के समाजीक नेता अभिमन्यु सिंह उर्फ बब्लु सिंह ने किया। बैठक में विश्रामपुर व नावाबाजार प्रखंड के 15 गांव के रैयतों ने भाग लिया। रैयतों ने जमीन अधिग्रहण में आ रही विसंगती सहित मुआवजे की भुगतान में शोषण किए जाने का मामला उठाया। रैयतों का नेतृत्व कर रहे समाजीक नेता अभिमन्यु सिंह उर्फ बब्लु सिंह ने कहा कि एनएचआई के द्वारा बनने वाले फोरलेन सड़क निर्माण में विश्रामपुर प्रखंड के शंखा गांव से नावाबाजार प्रखंड के राजहारा तक का गांव आता है। यहां के हजारो रैयतों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की उचित मुआवजे की राशि जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सड़क किनारे के सभी जमीन

व्यवसायिक श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्रशासन 1932 के खतियान के आधार पर सभी रैयतो की जमीन को कृषि जमीन बताकर औने-पौने दाम पर अधिग्रहण करना चाहती है। लेकिन यह नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना रैयतो को उनकी निजी संपति से जबरन वंचित करना या रैयतो को उचित मुआवजा न मिलना संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लधन संवैधानिक अधिकार का उलंघन हैं। इतना हीं नहीं भूमी अधिग्रहण अधिनियम 1894 में भी स्पस्ट है कि भू-अधिग्रहण के लिये भू-मालिक को उचित मुआवजा देना अनिवार्य शर्त है। ऐसे मे रैयतो को जिला प्रशासन के द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिती में प्रभावित 15 गांव के हजारों रैयत सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। साथ हीं निर्माण कार्य का विरोध करते हुए कार्य नहीं होने देंगे। कहा कि रैयतों का लगभग 80 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो रहा है। कुछ

रैयत न्याय- संघर्ष मोर्चा का का किया गया गठन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी नंददेव यादव ने कहा किविश्रामपुर प्रखंड के शंखा गांव से नावा बाजार प्रखंड के राजहरा तक 15 गांव आते हैं। जहां लगभग 80 एकड़ जमीन एनएचआई के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। स्थानीय रैयतों को उचित मुआवजे की भुगतान को लेकर गुरुवार को जरका का बाजार प्रांगण में रैयत न्याय-संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। कमिटी विस्तार अगली बैठक में किया जाएगा। साथ ही मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। मौके पर रैयत न्याय-संघर्ष मोर्चा के नंददेव यादव ने कहा कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जब तक बाजार मूल्य के अनुसार जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे भी रैयत हैं जिनका सड़क किनारे घर वक्त फुल जमीन है उसके अलावा कहीं भी उनका जमीन नहीं है।मौके पर राहुल दुबे, ओमप्रकाश पांडेय, रमाकांत चंद्रवंशी, अरविंद पांडेय, प्रदीप सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, भीष्म नारायण सिंह, सहित 15 गांव के हजारों रैयत शामिल थे।

फादर विनोद बिलुंग के निधन से कला जगत में शोक की लहर

रांची। 23 मार्च की रात्री करीब एक बजे फादर विनोद बिलुंग की आकस्मिक निधन हो गई। फादर जैसे सच्चे, नेक और कला की कद्र करनेवाले लोग आज बहुत कम मिलते है। वे आईकफ के स्टेट सुपरवाइज़र थे। उन्होंने इप्टा के साथ मिलकर कई वर्कशॉप कराएं। इप्टा राँची के पंकज मित्र, श्यामल मल्लिक, श्यामल चक्रवर्ती के साथ फादर ने लगातार कई साल तक काम किया। फादर का असमय निधन, कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। झारखंड इप्टा के महासचिव उपेंद्र मिश्रा, झारखंड इप्टा के कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल मल्लिक, नेशनल काउंसिल के प्रदीप तरफदार, इप्टा राँची के अध्यक्ष पंकज मित्र,इप्टा रांची के सचिव सुमेधा मल्लिक, उपाध्यक्ष परवेज कुरैशी सहित राँची इप्टा के सभी सदस्यों की ओर से फादर विनोद बिलुंग को भावभीनी श्रद्धांजलि की गई।

मुख्यमंत्री एकादश टीम ने मुख्यमंत्री को सौंपी ट्रॉफी

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री एकादश एवं पत्रकार एकादश के बीच खेले गए मैत्री क्रिकेट मैच में विजेता रही मुख्यमंत्री एकादश टीम के सदस्यों ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में टीम के कप्तान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ट्रॉफी सौंपा। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन

अंसारी, विधायक प्रदीप यादव, रणधीर सिंह, दीपिका पांडे सिंह, सरफराज अहमद, पूर्णिमा नीरज सिंह, समीर मोहंती, अनूप सिंह, इरफान अंसारी, संजीव सरदार सहित अन्य उपस्थित थे।

विस घेराव करने आए छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

प्रभात मंत्र संवाददाता

रांची : झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले गुरुवार को विधानसभा का घेराव करने आये राज्यभर के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। छात्रों ने भी पुलिस-प्रशासन पर पत्थर फेंके। विधानसभा का घेराव करने से पहले 500 की संख्या में छात्रों का जमावड़ा शहीद मैदान में हुआ। प्रदर्शनकारी छात्र जगन्नाथ मंदिर के पास लगे बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा के बगल वाले खेत तक पहुंच गये। पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने की तमाम कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इससे पहले छात्रों ने मंत्री मिथलेश ठाकुर के काफिले पर बोतल फेंकी थी। हाल में ही झारखंड सरकार ने 60:40 का नियोजन नीति लेकर आयी है। इसके बाद रोस्टर में कई जिलों से ओबीसी आरक्षण को हटा दिया गया है। इस बात को लेकर विद्यार्थी नाराज हैं और लगातार सड़कों पर आंदोलनरत हैं। छात्रों का कहना है कि जिस सरकार ने पांच लाख नियुक्तियां करने की बात कही थी, वह नियोजन नीति तक स्पष्ट नहीं कर सकी है। सरकार ने जो नियोजन नीति बनायी, उसे

कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर जो नियोजन नीति सामने है, उसमें विसंगतियां हैं। वर्तमान की नियोजन नीति में राज्य के युवाओं के भविष्य की सुनिश्चितता नहीं है। बीते दो दिनों में जो वेकेंसी निकाली गई है, उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां हैं। राज्य सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर जारी किया है। उसमें भी विसंगतियां हैं।

मुख्यमंत्री हाउस घेराव का लिया था निर्णय

आज के विधानसभा घेराव से पहले 20 मार्च को सीएम हाउस घेराव की रणनीति थी लेकिन सरकार व प्रशासन के आग्रह पर एक दिन पूर्व ही मंत्री आलमगीर आलम व छात्र नेताओं की सकारात्मक वार्ता से आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। इस बीच 20 मार्च को ही जिलावार आरक्षण रोस्टर व 21 मार्च को सहायक प्रयोगशाला परीक्षा की वैकेंसी निकाल दी गयी। इसमें दिख रही गड़बड़ियों की वजह से राज्य के छात्र आक्रोशित हो गए। राज्य के विभिन्न जिलों में युवाओं ने 22 मार्च को जिलावार सरकार का पुतला

आंसू गैस के गोले दागे

दहन किया। हेमंत सोरेन की सरकार में बनी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021' को 16 दिसंबर, 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया।

क्या था नियमावली में प्रावधान

राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या-3849/दिनांक 10.8.2021 के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 लागू की थी। इस संशोधित नियमावली में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा व परिवेश की जानकारी रखना अनिवार्य होगा लेकिन झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल कर दिया गया था। नियमावली में हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया था तथा उर्दू को क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की सूची में शामिल किया गया था।